

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 24, 1982 (श्रावण 2, 1904)
No 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 24, 1982 (SRAVANA 2, 1904)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पवोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएँ
[Notifications Regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली दिनांक 24 जुलाई 1982

सं० 1585, दिनांक 31 मई 1982—औद्योगिक विकास विभाग से स्थानान्तरण होने पर, राष्ट्रपति भारतीय प्रशासनिक सेवा (असम-मेघालय 6.3) के अधिकारी, श्री के० एम० राव को 29 मई 1982 (पूर्वाह्न) से रक्षा मंत्रालय में सयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 1586, दिनांक 21 जून 1982—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में निदेशक (योजना), श्री डी० के० राय, भारतीय राजस्व सेवा (प्रायकर), को 1 जून, 1982 (पूर्वाह्न) से मास्को स्थित भारतीय दस्तावेजों में कोन्सुलर (कोऑर्डि) नियुक्त करते हैं।

सं० 1587, दिनांक 3 जून 1982—भारत के निर्यातक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय से स्थानान्तरण होने पर, राष्ट्रपति, भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा सेवा के अधिकारी, श्री बी० श्रीवास्तव को 31 मई, 1982 (अपराह्न) से रक्षा मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

सं० 1588, दिनांक 2 जून 1982—राष्ट्रपति, लोक सभा सचिवालय में भूतपूर्व समक्षीय द्विभाषीय श्री ए० डी० मुखर्जी को 28 मई, 1982 (पूर्वाह्न) से उप रक्षा मंत्री के अपने पद का कार्यभार त्यागने तक या अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए उप रक्षा मंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

1-164 GI/82

सं० 1589, दिनांक 5 जून, 1982—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय संवर्ग में के० सं० आ० से० के चयन ग्रेड "ग" आशुलिपिक, श्री आर० एन० मेहता को 5-6-82 से 20-7-82 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित आशुलिपिक ग्रेड "ख" उपलब्ध होने तक, उनमें से जो भी पहले हो, के लिए रक्षा मंत्रालय में उक्त सेवा के ग्रेड "ख" के अस्थाई पद पर, तदर्थ आधी रात में नियुक्त करते हैं।

सं० 1590, दिनांक 3 जून, 1982—रक्षा मंत्रालय में उप सचिव, श्री बी० के० मुखर्जी, आई० ए० एफ्डी ए० एस०, का बढाया गया कार्यकाल खत्म हो जाने पर 31-5-82, (अपराह्न) से उनकी सेवाएं निरवकाश और महालेखा परीक्षक के कार्यालय को सौंपी जाती हैं।

सं० 1591, दिनांक 2 जून 1982—रक्षा मंत्रालय की 24 फरवरी 1982 की राजपत्र अधिसूचना सं० 732 के अतिरिक्त में राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में भूतपूर्व रक्षा राज्य मंत्री के निजी सचिव, श्री आर० वेण्कटन को सेवाएं 1 फरवरी 1982 (पूर्वाह्न) से वाणिज्य मंत्रालय की वापस सौंपने हैं।

सं० 1592, दिनांक 3 जून 1982—अवकाश ग्रहण की प्राप्ति होने पर राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में अवर सचिव, श्री शीकतुल्लाखा को 31 मई, 1982 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने का अनुमति देते हैं।

एन० एन० मेहता, अवर सचिव

(1057)

मुख्य प्रशासन अधिकारियों का कार्यालय

सं० 1593. दिनांक 26 मई 1982—राष्ट्रपति निम्न-लिखित स्थायी/स्थानापन्न सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारियों को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में स्थायी आधार पर उनके नाम के सामने लिखी तारीखों में सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी (वर्ग "ख" राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं—

क्र० सं०	नाम	मुख्यालय/कार्यालय जहाँ नियुक्त है	तारीख जिनमें स्थायी रूप में नियुक्त हुए
1	2	3	4
1.	श्री के० के० शर्मा	थलसेना मुख्यालय	7-3-81
2.	श्री एम० एम० गुप्ता (30-6-81/अपराह्न से सेवा निवृत्त)	नि० म० नि०	7-3-81
3.	श्री बी० के० शर्मा	थलसेना मुख्यालय	7-3-81
4.	श्री जी० एम० सराफ	नि० म० नि०	2-5-81
5.	श्री दीपक मजूमदार	थलसेना मुख्यालय	2-5-81
6.	श्री एम० एल० नागर	नौसेना मुख्यालय	2-5-81
7.	श्री आर० एम० गुप्ता	अनु० एवं विकास मंडल	2-5-81
8.	श्री मुणीश कुमार	थलसेना मुख्यालय	2-5-81
9.	श्री एम० एम० बधावन (30-9-81/अपराह्न से सेवा निवृत्त)	वायुसेना मुख्यालय	2-5-81
10.	श्री एम० एम० बोहरा (31-10-81/अपराह्न से सेवा निवृत्त)	थलसेना मुख्यालय	2-5-81
11.	श्री एन० एन० मित्रा	नौसेना मुख्यालय	2-5-81
12.	श्री जे० आर० एम० यादव	थलसेना मुख्यालय	2-5-81
13.	श्री ए० आर० कुंवा (28-2-82/अपराह्न से सेवा निवृत्त)	वायुसेना मुख्यालय	2-5-81
14.	श्री के० मा० ऋषि (30-11-81/अपराह्न से सेवा निवृत्त)	नि० म० नि०	2-5-81
15.	श्री जान पीटर	नौसेना मुख्यालय	2-5-81
16.	श्री बालमुकुन्द II	वायुसेना मुख्यालय	2-5-81
17.	श्री कृष्ण सहाय (31-3-82/अपराह्न से सेवा निवृत्त)	थलसेना मुख्यालय	2-5-81

1	2	3	4
18.	श्री बी० पी० बमरा	थलसेना मुख्यालय	2-5-81
19.	श्री डी० एन० वर्मा	"	2-5-81
20.	श्री एम० पी० कर्करा	"	2-5-81
21.	श्री एन० एल० शर्मा (31-5-81/अपराह्न से सेवा निवृत्त)	"	2-5-81
22.	श्री के० बी० गौस्वरगजन	नौसेना मुख्यालय	2-5-81
23.	श्री आर० बी० कपूर (30-6-81/अपराह्न से सेवा निवृत्त)	वायुसेना मुख्यालय	1-6-81
24.	श्री पी० डी० नागर (31-1-81/अपराह्न से सेवा निवृत्त)	नौसेना मुख्यालय	1-6-81
25.	श्री के० बी० लाल (30-9-81/अपराह्न से सेवा निवृत्त)	थलसेना मुख्यालय	14-6-81
26.	श्री आर० डी० गुप्ता	नि० म० नि०	2-6-81
27.	श्री के० एम० जयशमन	मु० प्र० अ० का कार्यालय	1-7-81
28.	श्री सभाजीत सिंह	मु० प्र० अ० का कार्यालय	1-7-81
29.	श्री गु० दाम राम	थलसेना मुख्यालय	1-7-81
30.	श्री एम० डी० शर्मा	"	1-7-81
31.	श्री मरुजीत शंकर	"	1-7-81
32.	श्री अमरजीत भन्डारी	"	1-7-81
33.	श्री आर० बी० सिंह (31-1-82/अपराह्न से सेवा निवृत्त)	"	1-7-81
34.	श्री के० नरसिंह	"	1-7-81
35.	श्री एम० आर० गौतम	"	1-7-81
36.	श्री रवीश सरन	नौसेना मुख्यालय	1-8-81
37.	श्री बिजई सिंह (31-8-81/अपराह्न से सेवा निवृत्त)	वायुसेना मुख्यालय	1-8-81
38.	श्री शंकर सक्सेना	थलसेना मुख्यालय	1-8-81
39.	श्री पी० एन० शर्मा (31-10-81/अपराह्न से सेवा निवृत्त)	नि० म० नि०	18-8-81
40.	श्री बी० एम० पराशर	थलसेना मुख्यालय	18-8-81
41.	श्री आर० के० शर्मा	"	18-8-81
42.	श्री एम० आर० शर्मा	"	18-8-81
43.	श्री हरिदेव बासदेव	नि० म० नि०	18-8-81

1	2	3	4
44.	श्री ए० एन० सिंघल	थलसेना मुख्यालय	18-8-81
45.	श्री प्रकाश चन्द	वायुसेना मुख्यालय	22-8-81
46.	श्री एम० पी० गुप्ता	थलसेना मुख्यालय	22-8-81
47.	श्री पी० डी० शर्मा-1	वायुसेना मुख्यालय	22-8-81
48.	श्री जगदीश प्रसाद	थलसेना मुख्यालय	22-8-81
49.	श्री सी० एम० निज्दार	वायुसेना मुख्यालय	22-8-81
50.	श्री ए० के० मलिक	थलसेना मुख्यालय	22-8-81
51.	श्री टी० सी० शर्मा	"	22-8-81
52.	श्री टी० आर० कोहली	"	1-9-81
53.	श्री के० डी० शर्मा	"	1-9-81
54.	श्री टी० सी० जैन (31-12-81/अपरराह से सेवा निवृत्त)	वायुसेना मुख्यालय	1-9-81
55.	श्री बी० एम० सयाल	रा० कै० को० महानिदेशालय	1-9-81
56.	श्री आर० करुपैय्या	अनु० एवं विकास संगठन	1-9-81
57.	कुमारी के० डी० सरोद (30-4-82/अपरराह से सेवा निवृत्त)	वायुसेना मुख्यालय	1-10-81
58.	श्री एस० एस० शर्मा	नीसेना मुख्यालय	1-10-81
59.	श्री पी० एन० भट्टकियार	थलसेना मुख्यालय	1-10-81
60.	श्री एन० एल० दुग्गल (30-4-82/अपरराह से सेवा निवृत्त)	थलसेना मुख्यालय	1-10-81
61.	श्री बी० डी० अग्रवाल	"	1-10-81
62.	श्री बी० के० गुप्ता	नि० म० नि०	3-10-81
63.	श्री यू० के० विधानी	थलसेना मुख्यालय	3-10-81
64.	श्री एम० एस० गुप्ता	वायुसेना मुख्यालय	3-10-81
65.	श्री बी० के० गुप्ता	नि० म० नि०	3-10-81
66.	श्री बी० एस० नंदा	थलसेना मुख्यालय	3-10-81
67.	श्री आर० एस० चड्ढा	"	3-10-81
68.	श्री एस० पी० प्रोवर	मु० प्र० अ० का कार्यालय	3-10-81
69.	श्री एन० कुमारा स्वामि	रा० कै० को० महानिदेशालय	3-10-81
70.	श्री एस० एन० सारस्वत	थलसेना मुख्यालय	3-10-81
71.	श्री ओ० पी० अग्रवाल	वायुसेना मुख्यालय	3-10-81
72.	श्री सुभाष चन्द्रा	नि० म० नि०	3-10-81
73.	श्री के० के० प्रकाश	मु० प्र० अ० का कार्यालय	3-10-81

1	2	3	4
74.	श्री एल० आर० गुप्ता	थलसेना मुख्यालय	3-10-81
75.	श्री आर० एम० बधवाल (30-11-81/अपरराह से सेवा निवृत्त)	"	3-10-81
76.	श्री एम० एल० छोकरा	डी० टी० डी० एवं पी० (वायु)	3-10-81
77.	श्री एम० बी० एल० सक्सेना	अनु० एवं विकास संगठन	3-10-81
78.	श्री एस० एल० आहलूवालिया नि० म० नि०	"	3-10-81
79.	श्री बी० एस० चतुर्वेदी	नीसेना मुख्यालय	3-10-81
80.	श्री डी० सी० सिंघल	"	3-10-81
81.	श्री बी० पी० मिश्रा	थलसेना मुख्यालय	3-10-81
82.	श्री गुरनाम सिंह	नि० म० नि०	3-12-81
83.	श्री के० सी० शर्मा (28-2-82/अहराह से सेवा निवृत्त)	थलसेना मुख्यालय	3-12-81
84.	श्री पी० सी० भार्ठी	थलसेना मुख्यालय	3-12-81
85.	श्री नंद लाल	थलसेना मुख्यालय	3-12-81
86.	श्री एस० डी० दास	डी० जी० ए० एफ एम० एस०	3-12-81
87.	श्री आर० डी० शर्मा (14-7-80 से सी० जी० कार्यालय मुख्यालय में प्रति नियुक्ति पर)	मु० प्र० अ० का	3-12-81
88.	श्री आर० एन० सिंघल	नि० म० नि०	3-12-81
89.	श्री एम० एल० कपूर	थल सेना मुख्यालय	3-12-81
90.	श्री एम० एम० सिंह (12-8-80 से सी० जी० मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति पर)	"	3-12-81
91.	श्री जे० एन० शर्मा	थलसेना मुख्यालय	3-12-81
92.	श्री रघुबीर सिंह (30-4-82 से सेवा निवृत्ति)	नि० म० नि०	3-12-81
93.	श्री आर० के० डी० मंगल	थलसेना मुख्यालय	3-12-81
94.	श्री आर० एन० सत्यार्थी	"	3-12-81
95.	श्री सरना राम	"	3-12-81
96.	श्री बिहारी लाल	नीसेना मुख्यालय	3-12-81
97.	श्री धरम सिंह	नि० म० नि०	3-12-81
98.	श्री जी० एम० प्रसाद	नि० म० नि०	3-12-81
99.	श्री राम चन्द्र	वायुसेना मुख्यालय	3-12-81

1	2	3	4
100.	श्री एम० जी० श्रीवास्तव गोखले	धनसेना मुख्यालय	1-1-82
101.	श्री मोहन लाल		1-1-82
102.	श्री होरी लाल		1-1-82
103.	श्री जी० एस० सिद्ध	ए० एस० सी० बी०	1-1-82
104.	श्री जीत राम	नीसेना मुख्यालय	1-1-82
105.	श्री अनन राम	मु० प्र० अ० का कमवीश्या	1-1-82
106.	श्री तुलसी राम		1-1-82
107.	श्री धूप सिंह	धनसेना मुख्यालय	1-1-82
108.	श्री बालेश्वर प्रसाद	रा० के० को महानिदेशालय	1-1-82
109.	श्री महा सिंह	नि० म० नि०	1-2-82
110.	श्री प्यारा सिंह - 2	नीसेना मुख्यालय	1-2-82
111.	श्री जय लाल	मु० प्र० अ० का कार्यालय	1-2-82
112.	श्री विजय चौधरी	धनसेना मुख्यालय	1-2-82
113.	श्री गोपी चन्द	वायुसेना मुख्यालय	1-2-82
114.	श्री एस० एस० मेधा	धनसेना मुख्यालय	1-2-82
115.	श्री एच० आर० एस० कौन		1-2-82
116.	श्री करम चन्द	नीसेना मुख्यालय	1-3-82
117.	मिठू लाल		1-3-82
118.	श्री हर प्रसाद		1-7-81

दुलीचन्द्र, उप मुख्य प्रशासन अधि० (पर्स)

रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं० 1594, दिनांक 19 जून 1982—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

डा० (श्रीमती) अमिता गुप्ता को ठोसावस्था भौतिक प्रयोगशाला, दिल्ली में तारीख 1 अप्रैल 1982 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वैज्ञानिक "सी" के पद पर, दो वर्ष की परखाधि पर।

रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा

श्री बी० देसिकान, वैज्ञानिक "बी" को चैम्पनिकीय विकास स्थापना, बंगलौर में तारीख 2-4-1982 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वैज्ञानिक "सी" के पद पर, दो वर्ष की परखाधि पर।

डा० राजीव प्रकाश को तामिकीय औषध तथा सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, दिल्ली में तारीख 8 अप्रैल 1982 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वैज्ञानिक "सी" के पद पर, दो वर्ष की परखाधि पर।

रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं० 1595, दिनांक 25 जून 1982—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा

विस्फोटक अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला, मुंबई के निम्नलिखित श्री श्रेणी के वैज्ञानिकों को उन्नत श्रेणी के आगे दी गई तारीख के अनुसार वैज्ञानिक श्रेणी "डी" के पद पर, उसी स्थापना में:—

श्री आर० सुह 1-7-81

ए० बी० बन्दीवाध्याय, 6 जुलाई 1981

आर० के० मायल, 1 जुलाई 1981

श्री एम० पी० अश्विनी, विस्फोटक वैज्ञानिक सहायक, रक्षा वैज्ञानिक सूचना तथा प्रयोगशाला, दिल्ली में तारीख 20 जनवरी 1982 (पूर्वाह्न) से स्थानापन्न कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर।

श्री यू० एन० गुजराल, विस्फोटक वैज्ञानिक सहायक कर्वेट बाइन निदेशालय, अनुसंधान तथा विकास संगठन, मुख्यालय, नई दिल्ली को इसी स्थापना में तारीख 17 अप्रैल 1982 (पूर्वाह्न) से स्थानापन्न कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर।

डा० आर० के० खन्ना, विस्फोटक वैज्ञानिक सहायक, वैज्ञानिक विश्लेषण ग्रुप, अनुसंधान तथा विकास संगठन मुख्यालय, नई दिल्ली को इसी स्थापना में तारीख 19 जनवरी 82 (पूर्वाह्न) से स्थानापन्न कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर।

श्री एम० सी० पद्मकन्या, फोरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा रडार विकास स्थापना, बंगलौर को इसी स्थापना में तारीख 19 जनवरी 1982 (पूर्वाह्न) से स्थानापन्न कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर।

श्री बी० बी० अमनन्द राव, फोरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा रडार विकास स्थापना, बंगलौर को इसी स्थापना में तारीख 19 जनवरी 1982 (पूर्वाह्न) से स्थानापन्न कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर।

श्री बी० तामारकाव, फोरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा रडार विकास स्थापना, बंगलौर को इसी स्थापना में तारीख 19 जनवरी 1982 (पूर्वाह्न) से स्थानापन्न कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर।

एम० एम० जोशवति, सहायक निदेशक (कार्मिक)

(रक्षा उत्सव-विभाग)

पंजाब

सं० 1596, दिनांक 26 जून, 1982—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं—

रक्षा गुण समाह्वान, सेवा

डा० रमेश मैंगल, अस्थायी एम० एम० ग्रं० श्रेणी-11, आयुद्ध निरीक्षणालय, दिल्ली कैंट को निरीक्षण निदेशालय (आयुद्ध) मुख्य कार्यालय में दो वर्ष की परखावधि पर, अस्थायी एम० एम० ग्रं० श्रेणी-11 के पदावर 15 मई 1982 (पूर्वाह्न)।

एम० सी० गोपाल, अवर सचिव

राष्ट्रीय कैडेट कोर

सं० 1597, दिनांक 30 जून 1982—राष्ट्रपति निम्नलिखित की कमीशन प्रदान करते हैं—

वरिष्ठ प्रभाग (थल सेना स्कंध)

2/लेफ्ट० के रूप में

असम

निरंजन टलुकदार (एन० सी० सी०/18501), 1 अप्रैल 1980

राजस्थान

ज्ञानेश्वर नारायण शर्मा (एन० सी० सी०/17759), 14 फरवरी 1981।

गुजरात

रणजीत सिंह दुर्लभ सिंह ठाकुर (एन० सी० सी०/15587),
धिताबकर शानिलाल रावल (एन० सी० सी०/15388)
तथा प्रवीण चन्द्र भगनलाल शाह (एन० सी० सी०/15589),
15 फरवरी 1982।

हरियाणा

रमेश कुमार गंग (एन० सी० सी०/10694), 15 फरवरी, 1982।

हिमोच्च प्रदेश

नित्यानन्द अंगीरस (एन० सी० सी०/16512) तथा
प्रेम सिंह ठाकुर (एन० सी० सी०/16513), 15 फरवरी,
1982।

कर्नाटक

निगान गौडा शिवान कौडा पाटिल (एन० सी० सी०/
14719), 18 मार्च 1979।

महाराष्ट्र

अरुण वामन राव जोधवे (एन० सी० सी०/16202),
प्रकाश चोटी राम पाटिल (एन० सी० सी०/16203),
काशीनाथ विश्वनाथ ब्रचुटे (एन० सी० सी०/16204),
बाबु जिज्ञाप्पा देसाई (एन० सी० सी०/16205), किशोर
देवराव गवांडे (एन० सी० सी०/16206) तथा छोटे नाल
मंगोराम कवाले (एन० सी० सी०/16208), 14 सितम्बर
1981।

सुरेन्द्र कुमार (एन० सी० सी०/15417), 15 फरवरी
1982।

तमिल नाडु

मथैया वल्लुगनयामम (एन० सी० सी०/14371),
15 फरवरी 1982।

उत्तर प्रदेश

ज्वाना प्रभात मिश्र (एन० सी० सी०/17280),
15 फरवरी, 1982।

पश्चिम बंगाल

मोहम्मद शास शुल् आलम (एन० सी० सी०/3276)
तथा मकर मेन गुप्ता (एन० सी० सी०/3277), 14 सितम्बर
1981।

अशोक कुमार मिश्रा (एन० सी० सी०/3282), 20
फरवरी, 1982।

मृणाल कान्ति घोष (एन० सी० सी०/3285), 15
फरवरी, 1982।

वरिष्ठ प्रभाग (नौसेना स्कंध)

कार्यकारी मव लेफ्ट० के रूप में

करल

राजगोपालन वयाप्पुराठ (एन० सी० सी० एन०/16939)
तथा अब्दुल मजीद भुथुस सेरी (एन० सी० सी० एन०/16940),
22 जून, 1981।

वरिष्ठ प्रभाग (वायु सेना स्कंध)

लाइट अफसर के रूप में

अन्ध्र प्रदेश

इंदुरी मुन्नागव (एन० सी० सी० ए०/11206) उपनाल
श्री राम मूनि (एन० सी० सी० ए०/11210) तथा कोड्डमाला
सिंघर (एन० सी० सी० ए०/F1211), 10 जून 1982।

राजस्थान

दुर्गा शंकर परसीरे (एन० सी० सी० ए०/17762),
10 जनवरी 1982।

उत्तर प्रदेश

राजिन्द्र सिंह रावन (एन० सी० सी० ए०/17273),
तथा मुसायब शामचंद नक्वी (एन० सी० सी० ए०/17274)
10 जनवरी 1982।

सं० 1598, दिनांक 30 जून 1982—राष्ट्रपति निम्न-
लिखित की पदाभितियां करते हैं—

कनिष्ठ प्रभाग (थल सेना स्कंध)

प्रथम अफसरों से मुख्य अफसरों के रूप में

असम

एन० के० देव शीधरी (एन० सी० सी० ए०/1799),
17 अक्टूबर 1981।

बिहार

यू० एन० सिंह (एन० सी० सी० जे०/1410), 16 जनवरी 1981।

दिल्ली

के० एम० हंडा (एन० सी० सी०/7805), 13 मार्च, 1982।

हिमाचल प्रदेश

आर० सी० गर्मा (एन० सी० सी० जे०/23717), 1 अप्रैल, 1982।

महाराष्ट्र

ए० बी० चवन (एन० सी० सी० जे०/81311), 17 अक्टूबर 1981।

पंजाब

स्वीन्दर सिंह (एन० सी० सी० जे०/8126), 26 जनवरी 1982।

तमिलनाडू

टी० वदिवेलु (एन० सी० सी० जे०/51361), 4 जुलाई, 1981।

द्वितीय अफसरों से प्रथम अफसरों के रूप में

असम

उपेन्द्र बोकी कटी (एन० सी० सी० जे०/445), 1 दिसम्बर 1979।

एस० ठाकुरिया (एन० सी० सी० जे०/503), 16 अक्टूबर, 1981।

बी० के० गोस्वामी एन० सी० सी० जे०/471), 8 जनवरी 1982।

बिहार

डी० एल० मण्डल (एन० सी० सी० जे०/1478), 14 जनवरी 1981।

आर० एस० सिंह (एन० सी० सी० जे०/1404) तथा आर० के० राय (एन० सी० सी० जे०/1600), 4 जून, 1981।

उपेन्द्र ठाकुर (एन० सी० सी० जे०/1551), 16 अक्टूबर 1981।

केरल

पी० बी० एन्थायोज (एन० सी० सी० जे०/25614), 17 मार्च, 1980।

मध्य प्रदेश

वाई० आर० पार्थी (एन० सी० सी० जे०/5890), 18 मार्च 1981।

बी० के० गजील (एन० सी० सी० जे०/5883), 8 जनवरी 1982।

महाराष्ट्र

एस० ए० भालेराव (एन० सी० सी० जे०/81747), 21 दिसम्बर 1981।

पी० पाण्डे (एन० सी० सी० जे०/81751), 8 जनवरी 1982।

पंजाब

महगा सिंह (एन० सी० सी० जे०/8178), 30 अगस्त 1978।

तृतीय अफसरों से द्वितीय अफसरों के रूप में

आंध्र प्रदेश

एस० बी० राव (एन० सी० सी० जे०/41711), 15 अक्टूबर 1981।

एस० बी० राव (एन० सी० सी० जे०/41745), 23 जनवरी 1982।

असम

डी० बी० दास (एन० सी० सी० जे०/582), 29 जुलाई, 1978।

आर० एम् डेका (एन० सी० सी० जे०/576), 21 फरवरी 1979।

आर० एन० डेका (एन० सी० सी० जे०/573), 1 अप्रैल, 1979।

बी० एम० मिश्रा (एन० सी० सी० जे०/602), 1 मार्च, 1981।

बिहार

कुबेर लाल (एन० सी० सी० जे०/1776), 12 नवम्बर 1981।

गुजरात

बी० एम० पन्नाल (एन० सी० सी० जे०/35629), 1 अप्रैल, 1982।

एम० जे० पाटिल (एन० सी० सी० जे०/35591), 15 अक्टूबर, 1981।

एच० एच० त्रिवेदी (एन० सी० सी० जे०/35637), 15 अप्रैल 1982।

हरियाणा

आर० आर० चौधरी (एन० सी० सी० जे०/8579), 23 अक्टूबर 1981।

कर्नाटक

के० आर० जोशी (एन० सी० सी० जे०/65041), 20 मार्च, 1982।

केरल

एम० आर० नादर (एन० सी० सी० जे०/25797),
मथा जे० आर० राज (एन० सी० सी० जे०/25798),
12 नवम्बर, 1981।

पी० वी० शिव रामकृष्णन (एन० सी० सी० जे०/
25810), 1 अप्रैल 1982।

मध्य प्रदेश

ए० के० गिटे (एन० सी० सी० जे०/6222), 30
मार्च, 1982।

एम० सी० शर्मा (एन० सी० सी० जे०/6223), 3
अप्रैल, 1982।

महाराष्ट्र

डी० एम० (मेहरा एन० सी० सी० जे०/81883),
15 फरवरी 1982।

एल० पी० मिगागोवी (एन० सी० सी० जे०/81864),
15 जनवरी 1982।

एस० आर० अलि (एन० सी० सी० जे०/81867),
25 जनवरी 1982।

ए० बी० पाटिल (एन० सी० सी० जे०/81890),
एन० एन० कुलकर्णी (एन० सी० सी० जे०/
81909), डी० एन० कोन्डाडे (एन० सी० सी० जे०/81910), डी०
टी० महाजन (एन० सी० सी० जे०/81911) तथा जी०
एन० महेश्वरी (एन० सी० सी० जे०/81912), 1 अप्रैल,
1982।

पंजाब

देविन्द्र लाल (एन० सी० सी० जे०/8557), 15
अक्टूबर, 1981।

तमिलनाडु

टी० पदमनभान (एन० सी० सी० जे०/52234) तथा
आर० एस० एम० राज (एन० सी० सी० जे०/52244), 1
अप्रैल, 1982।

ओ० नटराजन (एन० सी० सी० जे०/52255), 1
मार्च 1982।

उत्तर प्रदेश

आर० सी० शुक्ल (एन० सी० सी० जे०/13762),
11 मई, 1979।

के० डी० राय (एन० सी० सी० जे०/13637), 15
अक्टूबर 1981।

राजेन्द्र सिंह (एन० सी० सी० जे०/13653), 7
जनवरी 1982।

दयानन्द (एन० सी० सी० जे०/13668), 7 फरवरी,
1982।

कनिष्ठ प्रभाग (नौसेना स्कंध)

प्रथम अफसरों से मुख्य अफसरों के रूप में

एम० गोरोई (एन० सी० सी० जे०/279), 7 जून
1979।

डी० सी० ब्रह्मा (एन० सी० सी० जे० एन०/273),
7 जून 1981।

द्वितीय अफसरों से प्रथम अफसरों के रूप में

असम

एस० एस० शर्मा (एन० सी० सी० जे० एन०/449),
10 जून 1979।

पी० सी० लाहकर (एन० सी० सी० जे० एन०/498),
8 जून 1980।

जे० घोष (एन० सी० सी० जे० एन०/499), 7 जून
1981।

कर्नाटक

एस० एन० राव (एन० सी० सी० जे० एन०/23541)
तथा एच० यू० मेट्टी (एन० सी० सी० जे० एन०/23544)
8 जुलाई 1981।

कनिष्ठ प्रभाग (वायु सेना स्कंध)

तृतीय अफसरों से द्वितीय अफसरों के रूप में

असम

बी० सी० बर्मन (एन० सी० सी० जे० एन०/557),
6 जुलाई 1978।

तृतीय अफसरों से द्वितीय अफसरों के
रूप में

हरियाणा

ए० पी० सिंह (एन० सी० सी० जे० ए०/8551), 14
फरवरी 1982।

तमिलनाडु

एस० पाल राज (एन० सी० सी० जे०/52270),
25 मार्च 1982।

कनिष्ठ प्रभाग (थल सेना स्कंध)

प्रथम अफसरों से मुख्य अफसरों के रूप में

आन्ध्र प्रदेश

बी० पी० राव (एन० सी० सी० जे०/41394), 13
मार्च 1982।

असम

बी० के० दाम (एन० सी० सी० जे०/473), 1 मई
1981।

बिहार

जनार्दन निवारी (एन० सी० सी० जे०/1407) तथा
डी० पी० सिंह (एन० सी० सी० जे०/1423), 17 अक्टूबर
1981।

केरल

के० पी० पिल्लई (एन० सी० सी० जे०/28425), 24 जनवरी 1982।

मध्य प्रदेश

एन० पी० गार्गी (एन० सी० सी० जे०/3612) तथा बी० डी० धनवानी (एन० सी० सी० जे०/3613), 1 जनवरी 1982। बी० डी० त्रिवहरी, (एन० सी० सी० जे०/5594), 13 मार्च 1982।

गुजरात

आर० आर० पाण्डेय (एन० सी० सी० जे०/35252), 13 मार्च 1982।

बी० एन० रावरी (एन० सी० सी० जे०/35242) तथा एन० आर० इमन (एन० सी० सी० जे०/35247), 14 मार्च 1982।

महाराष्ट्र

पी० जे० पाटिल (एन० सी० सी० जे०/81344), 9 जनवरी 1982।

मणिपुर

ए० बी० मिह (एन० सी० सी० जे०/25791), एन० बी० मिह (एन० सी० सी० जे०/25776), तथा ए० आर० गर्मा (एन० सी० सी० जे०/25771), 17 अक्टूबर 1981।

एन० बी० मिह (एन० सी० सी० जे०/25798), तथा एन० आर० मिह (एन० सी० सी० जे०/25805), 9 जनवरी, 1982। के० बी० मिह (एन० सी० सी० जे०/25802), 14 मार्च 1982।

कुमिलनाडू

बी० मुथुरमण (एन० सी० सी० जे०/51375), 9 जनवरी 1982।

तमिलनाडु

पी० लक्ष्मणन (एन० सी० सी० जे०/51439), पी० गोविन्द राजू (एन० सी० सी० जे०/51452) तथा ए० सी० पिल्लई (एन० सी० सी० जे०/51454) 21 जनवरी 1982।

एन० के० कन्नविरत (एन० सी० सी० जे०/51405), 4 मार्च 1982।

उत्तर प्रदेश

आर० सी० वर्मा (एन० सी० सी० जे०/13298), 24 जनवरी 1982।

पश्चिम बंगाल

उद्योजी राय (एन० सी० सी० जे०/14576), एन० सी० भामदेवर (एन० सी० सी० जे०/14605), डी० डी० गुप्ता (एन० सी० सी० जे०/14686) तथा के० घोषी (एन० सी० सी० जे०/14759), 16 जनवरी 1981।

एन० महत (एन० सी० सी० जे०/14962) तथा आर० एन० वावू (एन० सी० सी० जे०/14898), 1 अप्रैल 1981।

पी० मुखर्जी (एन० सी० सी० जे०/14963), 2 मार्च 1982।

त्रिपुरा

पी० बी० राय (एन० सी० सी० जे०/25537), तथा बी० बी० देवनाथ (एन० सी० सी० जे०/25553), 9 जनवरी 1982।

द्वितीय अक्रमों से प्रथम अक्रमों के रूप में

'अन्ध्र प्रदेश'

एन० बी० रेड्डी (एन० सी० सी० जे०/41527), 8 जनवरी 1982।

बिहार

रंगेश प्रसाद (एन० सी० सी० जे०/1607), 6 दिसम्बर 1980।

के० के० गुप्ता (एन० सी० सी० जे०/4641), तथा बडी प्रसाद (एन० सी० सी० जे०/1669), 16 अक्टूबर 1981।

हरियाणा

अशोक (एन० सी० सी० जे०/8311), 16 अक्टूबर 1981।

कर्नाटक

ए० एन० बरसिम्हा (एन० सी० सी० जे०/23554), 21 दिसम्बर 1981।

एन० ए० खादेर (एन० सी० सी० जे०/23557), 23 फरवरी 1982।

केरल

बी० के० मथै (एन० सी० सी० जे०/25589) 16 अक्टूबर 1981।

गुजरात

एन० के० बरैया (एन० सी० सी० जे०/35520), 16 अक्टूबर 1981।

बी० के० ठाकुर (एन० सी० सी० जे०/35497), 8 जनवरी 1982।

मध्य प्रदेश

एन० एन० मोदी (एन० सी० सी० जे०/5779), 16 अक्टूबर 1981।

आर० के० नरसिंहराव (एन० सी० सी० जे०/3960) 9 दिसम्बर 1981।

एन० पी० मिश्रा (एन० सी० सी० जे०/3911), 8 जनवरी 1982।

एन० आर० खान (एन० सी० सी० जे०/5962), 1 फरवरी 1982।

महाराष्ट्र

एम० जेड बोधे (एन० सी० सी० जे०/81647),
16 अक्तूबर, 1981।

एम० बाई० पुजारी (एन० सी० सी० जे०/81727),
9 नवम्बर, 1981।

उड़ीसा

बी० एन श्रीवास्तव (एन० सी० सी० जे०/61456),
1 जनवरी, 1982।

पाण्डिचेरी

जी० वर्नगवानी (एन० सी० सी० जे०/51953),
31 जनवरी, 1982।

तमिलनाडु

टी० वेंकटेश्वरन् (एन० सी० सी० जे०/51925),
16 अक्तूबर, 1981।

ए० एम० एम० मिह (एन० सी० सी० जे०/51937),
9 नवम्बर, 1981।

एम० गोपालन (एन० सी० सी० जे०/51959),
4 जनवरी, 1982।

जे० थोमस (एन० सी० सी० जे०/51939), तथा पी०
जिथाराज पांडियन (एन० सी० सी० जे०/51941),
8 जनवरी, 1982।

उत्तर प्रदेश

के० डी० यादव (एन० सी० सी० जे०/13455),
16 अक्तूबर, 1981।

पश्चिम बंगाल

बी० के० गुप्ता (एन० सी० सी० जे०/14343), ए०
के० पत्रा (एन० सी० सी० जे०/14906), तथा बी० बी०
बनर्जी (एन० सी० सी० जे०/15077), 5 दिसम्बर,
1980।

तृतीय अक्रमों से द्वितीय अक्रमों के रूप में

अंध्र प्रदेश

के० सरनंदम (एन० सी० सी० जे०/41693),
1 जनवरी, 1980।

सी० ए० स्वामी (एन० सी० सी० जे०/41695),
18 जनवरी, 1981।

के० सत्यनारायण (एन० सी० सी० जे०/41719),
तथा बी० जे० राव (एन० सी० सी० जे०/41725),
15 अक्तूबर, 1981।

ए० एम० राव (एन० सी० सी० जे०/41663),
तथा के० श्रीप्रसाद (एन० सी० सी० जे०/41717),
7 जनवरी, 1982।

पी० यदुतैया (एन० सी० सी० जे०/41560),
8 जनवरी, 1982।

के० आर० राव (एन० सी० सी० जे०/41720),
22 फरवरी, 1982।

2—164 GI/82

बी० एन० राव (एन० सी० सी० जे०/41742), तथा
पी० सी० एम० रेड्डी (एन० सी० सी० जे०/41743),
25 जनवरी, 1982।

असम

एम० एन० चौधरी (एन० सी० सी० जे०/592),
15 मार्च, 1981।

एम० एम० अलि (एन० सी० सी० जे०/606),
1 अप्रैल, 1981।

एम० एन० शर्मा (एन० सी० सी० जे०/509),
12 नवम्बर, 1981।

बिहार

जी० एल० दास (एन० सी० सी० जे०/1749),
3 दिसम्बर, 1980।

बी० के० मिश्र (एन० सी० सी० जे०/1730),
15 मार्च, 1981।

एन० आर० अहमद 'जेया' (एन० सी० सी० जे०/
1743), 3 जून, 1981।

एम० एन० पी० मिह (एन० सी० सी० जे०/1801),
1 जनवरी, 1982।

एम० बी० पी० सिन्हा (एन० सी० सी० जे०/1760),
7 जनवरी, 1982।

कर्नाटक

डी० एम० नायक (एन० सी० सी० जे०/65007),
15 अक्तूबर, 1981।

पी० टी० फुलनेकर (एन० सी० सी० जे०/65051),
7 जनवरी, 1982।

जी० पी० चालवडी (एन० सी० सी० जे०/65045),
6 मार्च, 1982।

केरल

पी० एम० एम० नारायण (एन० सी० सी० जे०/
25763), 15 मार्च, 1981।

बी० बालकृष्णन (एन० सी० सी० जे०/25778)
तथा के० एम० मिथिक (एन० सी० सी० जे०/25782),
1 दिसम्बर, 1981।

जकांत्र माथिय (एन० सी० सी० जे०/25772), 15 अक्तूबर,
1981।

जी० सिटियाक (एन० सी० सी० जे०/25816),
जी० एम० नैयर (एन० सी० सी० जे०/25822), तथा
के० ए० थोमस (एन० सी० सी० जे०/25826),
18 मार्च, 1982।

मध्यप्रदेश

एस० सी० गर्ग (एन० सी० सी० जे०/6116),
5 दिसम्बर, 1981।

एस० एस० चौहान (एन० सी० सी० जे०/6134),
28 दिसम्बर, 1981।

बी० पी० द्विवेदी (एन० सी० सी० जे०/6094),
7 जनवरी, 1982।

आर० सी० शर्मा (एन० सी० सी० जे०/6181),
11 जनवरी, 1982।

एस० के० तिवारी (एन० सी० सी० जे०/6221),
31 जनवरी, 1982।

गुजरात

जे० के० दत्ता (एन० सी० सी० जे०/35596),
15 अक्टूबर, 1981।

महाराष्ट्र

टी० एस० जिंदे (एन० सी० सी० जे०/82012)
16 सितम्बर, 1978।

बी० आई० स्वामी (एन० सी० सी० जे०/81924),
25 जनवरी, 1982।

डी० पी० अर्कटकर (एन० सी० सी० जे०/81879)
एस० के० टापरे (एन० सी० सी० जे०/81906), तथा
आर० आर० पालि (एन० सी० सी० जे०/81880),
14 फरवरी, 1982।

एस० बी० पाटिल (एन० सी० सी० जे०/81861),
7 मार्च, 1982।

के० ई० भू से (एन० सी० सी० जे०/81869), जे०
वाई० जादव (एन० सी० सी० जे०/81870), बी० सी० मुल्ला
(एन० सी० सी० जे०/81876), बी० जी० वाडकर (एन०
सी० सी० जे०/71888), एस० के० गुर्जर (एन० सी० सी०
जे०/81908), तथा जे० वाई० मुल्ला (एन० सी० सी०
जे०/81877), 16 मार्च, 1982।

मणिपुर

एस० एल० सिंह (एन० सी० सी० जे०/597),
3 जून, 1981।

एन० आर० सिंह (एन० सी० सी० जे०/25816),
15 अक्टूबर, 1981।

उड़ीसा

जी० एस० पटनायक (एन० सी० सी० जे०/61546),
15 अक्टूबर, 1981।

पंजाब

चरणजीत सिंह (एन० सी० सी० जे०/8571),
3 जून, 1991।

एस० एस० बलिया (एन० सी० सी० जे०/8589),
29 मार्च, 1982।

राजस्थान

जे० एस० जैटवाट (एन० सी० सी० जे०/31570),
15 अक्टूबर, 1981।

श्री० पी० व्यास (एन० सी० सी० जे०/31583),
7 जनवरी, 1982।

तमिल नाडु

ई० लोगनाथन (एन० सी० सी० जे०/52213),
2 जून, 1981।

सी० मुन्नमण्यन (एन० सी० सी० जे०/52205),
8 सितम्बर, 1981।

सी० थागधूरै (एन० सी० सी० जे०/52160), एस०
आर० सेल वराज (एन० सी० सी० जे०/52190) तथा
ए० जयरामन (एन० सी० सी० जे०/52203), 15 अक्टूबर,
1981।

के० पिचैकधु (एन० सी० सी० जे०/52228),
15 फरवरी, 1982।

बी० राजारथिनम (एन० सी० सी० जे०/52237),
15 फरवरी, 1982।

आर० श्री निवामन (एन० सी० सी० जे०/52254)
16 फरवरी, 1982।

आर० वेलु (एन० सी० सी० जे०/52240), 18 मार्च,
1982।

उत्तर प्रदेश

जे० सी० फुलेरिया (एन० सी० सी० जे०/13650),
9 जुलाई, 1981।

एस० पी० त्यागी (एन० सी० सी० जे०/13638),
15 अक्टूबर, 1981।

ए० आर० तैलांग (एन० सी० सी० जे०/13662),
12 नवम्बर, 1981।

आर० एल० तिवारी (एन० सी० सी० जे०/13684),
7 जनवरी, 1982।

कनिष्ठ प्रभाग (नौ सेना स्कंध)

द्वितीय अफसरों से प्रथम अफसरों के रूप में

बिहार

बालदेव राम (एन० सी० सी० जे० एन०/1439),
तथा ए० पी० ब्रेक (एन० सी० सी० जे० एन०/1634),
7 जून, 1981।

राजस्थान

जी० एस० मोलंकी (एन० सी० सी० जे० एन०/
31509), 29 सितम्बर, 1981।

तृतीय अफसरों से द्वितीय अफसरों के रूप में

मध्य प्रदेश

बी० बी० एस० पठानिया (एन० सी० सी० जे० एन०/
6132), 4 जनवरी, 1982।

कनिष्ठ प्रभाग (वायु सेना स्कंध)

द्वितीय अफसर से प्रथम अफसर के रूप में

कर्नाटक

के० एन० आनन्द (एन० सी० सी० जे० ए०/23488),
14 फरवरी, 1982।

तृतीय अफसर से द्वितीय अफसर के रूप में
तमिलनाडू

के० राधाकृष्णन (एन० सी० सी० जे० ए०/52171),
14 फरवरी, 1982।

सं० 1599, दिनांक 30 जून, 1982—राष्ट्रपति निम्न-
लिखित अफसरों का राष्ट्रीय कैडेट कोर से तारीख 23 मार्च,
1982 से त्यागपत्र स्वीकार करते हैं। उनके नाम के सामने
कोष्ठकों में दी गई अवधि राष्ट्रीय कैडेट कोर में बरिष्ठता
या पदोन्नतियों या अन्य किसी लाभ के लिए नहीं गिनी
जाएगी।

कनिष्ठ प्रभाग (थल सेना स्कंध)

असम

प्रथम अफसर ए० एस० गुप्ता (एन० सी० सी० जे०/
218), (4 दिसम्बर, 1978 से 22 मार्च 1982)।

द्वितीय अफसर एम० सैकिया (एन० सी० सी० जे०/
203), (1 अक्टूबर, 1979 से 22 मार्च, 1982)।

हिमाचल प्रदेश

प्रथम अफसर आई० डी० शर्मा (एन० सी० सी० जे०/
23514), (4 अक्टूबर, 1981 से 22 मार्च, 1982)।

मध्य प्रदेश

तृतीय अफसर एम० सिंह (एन० सी० सी० जे०/
5872), (1 दिसम्बर, 1981 से 22 मार्च, 1982)।

तृतीय अफसर के० एम० तिवारी (एन० सी० सी० जे०/
6196), (22 फरवरी, 1982 से 22 मार्च, 1982)।

तमिलनाडू

द्वितीय अफसर टी० ये सिंह (एन० सी० सी० जे०/
51979), (1 जून, 1981 से 22 मार्च, 1982)।

प्रथम अफसर पी० एम० राजसेकरन (एन० सी० सी०
जे०/51664), (1 जुलाई, 1981 से 22 मार्च, 1982)।

द्वितीय अफसर एम० एस० मणि (एन० सी० सी० जे०/
52243) (1 जुलाई, 1981 से 22 मार्च, 1982)।

तृतीय अफसर आर० शान्मुगम (एन० सी० सी० जे०/
52321), (14 अगस्त, 1981 से 22 मार्च, 1982)।

कनिष्ठ प्रभाग (वायु सेना स्कंध)

तमिलनाडू

प्रथम अफसर कल्याणरमन (एन० सी० सी० जे०/ए०
51748) (1 नवम्बर, 1981 से 22 मार्च, 1982)।

द्वितीय अफसर चन्द्रशेकरन (एन० सी० सी० जे० ए०/
52047), (1 फरवरी, 1982 से 22 मार्च, 1982)।

सं० 1600, दिनांक 30 जून 1982—राष्ट्रपति राष्ट्रीय
कैडेट कोर से निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने
देई गई तारीख से सेवा मुक्त करते हैं:—

कनिष्ठ प्रभाग (थल सेना स्कंध)

असम

तृतीय अफसर एम० टी० सी० बर्मिथु (एन० सी० सी०
जे०/578), 1 मई, 1978।

प्रथम अफसर पी० आर० तालुकदार (एन० सी० सी०
जे०/357), 1 मार्च, 1979।

प्रथम अफसर वा० शर्मा (एन० सी० सी० जे०/251),
26 अगस्त, 1979।

मुख्य अफसर के० मा० बरुआ (एन० सी० सी० जे०/
60), 21 अप्रैल, 1980।

दिल्ली

द्वितीय अफसर के० डी० शर्मा (एन० सी० सी० जे०/
7798), 25 दिसम्बर, 1980।

द्वितीय अफसर एन० एन० शर्मा (एन० सी० सी० जे०/
6278), 7 जुलाई, 1981।

प्रथम अफसर एस० बी० शर्मा (एन० सी० सी० जे०/
7827), 1 अक्टूबर, 1981।

हरियाणा

द्वितीय अफसर आ० पी० आर्य (एन० सी० सी० जे०/
8198), 15 फरवरी, 1977।

केरल

प्रथम अफसर बी० बी० पार्थिकर (एन० सी० सी० जे०/
25325), 12 फरवरी, 1981।

मुख्य अफसर आर० वेनुगोपालन (एन० सी० सी० जे०/
25174), 9 जुलाई, 1981।

प्रथम अफसर के० पद्मनभान (एन० सी० सी० जे०/
25417), 1 दिसम्बर, 1981।

मुख्य अफसर सी० वा० बी० नैयर (एन० सी० सी० जे०/
25287), 1 जनवरी, 1982।

मध्य प्रदेश

मुख्य अफसर के० एन० दुहे (एन० सी० सी० जे०/
5335), 1 जनवरी, 1982।

महाराष्ट्र

द्वितीय अफसर एन० बी० कुलकर्णी (एन० सी० सी० जे०/
81105), 27 जून, 1968।

द्वितीय अफसर एम० के० पाथ (एन० सी० सी० जे०/
81650), 13 अप्रैल, 1981।

मुख्य अफसर एन० टी० भौर (एन० सी० सी० जे०/
81066), 16 नवम्बर, 1981।

मुख्य अफसर टी० एम० अर्वाडकार (एन० सी० सी० जे०/
81193), 13 दिसम्बर, 1981।

द्वितीय अफसर डॉ० डी० उरदे (एन० सी० सी० जे०/81552), 14 दिसम्बर 1981।

मुख्य अफसर पी० ब्रा० उप से (एन० सी० सी० जे०/81226), प्रथम अफसर डॉ० एम० शैले (एन० सी० सी० जे०/81228), मुख्य अफसर एम० आर० पाटिल (एन० सी० सी० जे०/81300) तथा प्रथम अफसर एम० के० जोशी (एन० सी० सी० जे०/81554), 1 जनवरी 1982

उड़िसा

तृतीय अफसर पी० के० नन्दा (एन० सी० सी० जे०/61441), 27 अगस्त 1975।

राजस्थान

तृतीय अफसर बी० सी० जोषा (एन० सी० सी० जे०/31544), 15 नवम्बर 1978।

प्रथम अफसर एच० एम० राठी (एन० सी० सी० जे०/31190), 1 जनवरी 1982।

तमिलनाडु

मुख्य अफसर बी० संघन कृष्णन (एन० सी० सी० जे०/51038), 1 जनवरी 1982।

प्रथम अफसर ए० गोविन्द राजुनु (एन० सी० सी० जे०/51597), 7 जनवरी 1982।

उत्तर प्रदेश

प्रथम अफसर टी० पी० श्रीवास्तव (एन० सी० सी० जे०/13202), तथा प्रथम अफसर बी० आर० द्विवेदी (एन० सी० सी० जे०/13388), 1 जनवरी 1982।

प्रथम अफसर बी० एन० शर्मा (एन० सी० सी० जे०/13311), 20 जनवरी 1982।

मुख्य अफसर नूर मोहम्मद (एन० सी० सी० जे०/13416), 1 मार्च, 1982।

कनिष्ठ प्रभाग (नौ सेना स्कंध)

केरल

प्रथम अफसर कुरियारासे (एन० सी० सी० जे०/एन०/25543), 10 अप्रैल 1981।

तमिल नाडु

प्रथम अफसर बालकृष्णन (एन० सी० सी० जे०/एन०/51591), तथा द्वितीय अफसर ई० एम० थिरुनवुक्कारसु (एन० सी० सी० जे०/एन०/51976), 1 जनवरी 1982।

कनिष्ठ प्रभाग

महाराष्ट्र

प्रथम अफसर बावरिया (एन० सी० सी० जे०/ए०/81326), 1 मई 1981।

उड़िसा

प्रथम अफसर जी० बी० भाटिया (एन० सी० सी० जे०/ए०/61229), 10 नवम्बर 1981।

तमिल नाडु

द्वितीय अफसर रामास्वामी (एन० सी० सी० जे०/ए०/51961), 1 जनवरी 1982।

सं० 1601, दिनांक 30 जून 1982—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को राष्ट्रीय कैडेट कॉर से तारीख 23 मार्च, 1982 से सेवा मुक्त करने हैं। उनके नाम के आगे कोष्ठकों में दी गई अवधि राष्ट्रीय कैडेट कॉर में वरिष्ठता या पदावधियाँ या अन्य किन्हीं लाभ के लिए नहीं गिनी जाएंगी:—

कनिष्ठ प्रभाग (ध्वज सेना स्कंध)

आंध्र प्रदेश

द्वितीय अफसर एन० चन्मतेया (एन० सी० सी० जे०/41595) (5 दिसम्बर 1981 से 22 मार्च, 1982)।

असम

प्रथम अफसर जे० खूंड (एन० सी० सी० जे०/323), (1 मई 1978 से 22 मार्च, 1982)।

तृतीय अफसर आर० सी० शय (एन० सी० सी० जे०/569), (1 अगस्त 1979 से 22 मार्च, 1982)।

प्रथम अफसर ए० दास (एन० सी० सी० जे०/295), (4 दिसम्बर 1980 से 22 मार्च, 1982)।

हरियाणा

द्वितीय अफसर श्री० पी० मल्हन (एन० सी० सी० जे०/8423), (29 अक्टूबर 1981 से 22 मार्च 1982)।

हिमाचल प्रदेश

द्वितीय अफसर पी० एम० मलारिया (एन० सी० सी० जे०/23891), (19 सितम्बर 1981 से 22 मार्च 1982)।

जम्मू तथा कश्मीर

द्वितीय अफसर एम० सी० खजुशिया (एन० सी० सी० जे०/26365), (11 सितम्बर 1981 से 22 मार्च 1982)।

कर्नाटक

तृतीय अफसर आर० बी० कलमन्न वर (एन० सी० सी० जे०/23609), (1 दिसम्बर 1981 से 22 मार्च 1982)।

केरल

द्वितीय अफसर के० के० जोसेफ (एन० सी० सी० जे०/25613), (28 जनवरी 1980 से 22 मार्च 1982)।

द्वितीय अफसर बी० अलि (एन० सी० सी० जे०/25998), 1 दिसम्बर 1980 से 22 मार्च 1982)।

द्वितीय अफसर पी० आर० मुकुन्दन (एन० सी० सी० जे०/25649), (1 दिसम्बर 1980 से 22 मार्च, 1982)।

द्वितीय अफसर पी० के० कुरियन (एन० सी० सी० जे०/25574), 1 मार्च, 1981 से 22 मार्च, 1982)।

तृतीय अफसर टी० ए० वेदु गोपाल (एन० सी० सी० जे०/25894), (23 सितम्बर 1981 से 22 मार्च, 1982)।

द्वितीय अक्रमर टी० ए० जेबेन (एन० सी० सी० जे०/25808), (27 जनवरी 1982 से 22 मार्च, 1982)।

महाराष्ट्र

तृतीय अक्रमर एम० एन० बाल्लकृष्ण (एन० सी० सी० जे०/81992), (1 मई 1981 से 22 मार्च 1982)।

प्रथम अक्रमर एम० के० पाटिल (एन० सी० सी० जे०/81681), (30 जून, 1981 से 22 मार्च 1982)।

प्रथम अक्रमर एन० बी० अमृतकले (एन० सी० सी० जे०/81478), (1 जुलाई 1981 से 22 मार्च 1982)।

उड़ीसा

प्रथम अक्रमर बी० एन० सारंगी (एन० सी० सी० जे०/61235) (4 नवम्बर 1979 से 22 मार्च, 1982)।

पंजाब

तृतीय अक्रमर बी० ए० अहलूवालिया (एन० सी० सी० जे०/8518) (1 अक्तूबर 1980 से 22 मार्च, 1982)।

द्वितीय अक्रमर एम० एन० दुटेर (एन० सी० सी० जे०/8249), (4 अक्तूबर 1980 से 22 मार्च 1982)।

राजस्थान

तृतीय अक्रमर ए० के० चतुर्वेदी (एन० सी० सी० जे०/316/1) (29 अगस्त 1980 से 22 मार्च 1982)।

तृतीय अक्रमर एच० के० शर्मा (एन० सी० सी० जे०/31505), (9 जनवरी 1981 से 22 मार्च 1982)।

तमिलनाडु

द्वितीय अक्रमर आर० जकाव (एन० सी० सी० जे०/51669), (1 मार्च, 1979 से 22 मार्च, 1982)।

तृतीय अक्रमर आर० सुब्रह्मण्यम (एन० सी० सी० जे०/52239), (1 जनवरी 1981 से 22 मार्च 1982)।

प्रथम अक्रमर पी० एन० कृष्णमन (एन० सी० सी० जे०/51758), (30 अक्तूबर 1981 से 22 मार्च 1982)।

मुख्य अक्रमर (एम० आर० मिचटल (एन० सी० सी० जे०/51293), (6 जनवरी 1982 से 22 मार्च 1982)।

पश्चिम बंगाल

तृतीय अक्रमर एम० सी० सी० (एन० सी० सी० जे०/15538), (27 अगस्त 1979 से 22 मार्च, 1982)।

द्वितीय अक्रमर जे० मेन (एन० सी० सी० जे०/15340) (1 जुलाई 1980 से 22 मार्च 1982)।

तृतीय अक्रमर एम० एन० पाल (एन० सी० सी० जे०/15566), (16 सितम्बर 1981 से 22 मार्च, 1982)।

कनिष्ठ प्रभाग (संभारित स्कंध)

आन्ध्र प्रदेश

तृतीय अक्रमर बी० सी० बमरा (एन० सी० सी० जे०/11728), (23 अगस्त 1979 से 22 मार्च 1982)।

तृतीय अक्रमर सी० एम० शर्मा (एन० सी० सी० जे०/एन/41729), (1 जुलाई 1981 से 22 मार्च 1982)।

तृतीय अक्रमर एम० के० शंभु (एन० सी० सी० जे०/एन/41757) (1 नवम्बर 1981 से 22 मार्च 1982)।

कनिष्ठ प्रभाग (वायु सेवा स्कंध)

मध्य प्रदेश

तृतीय अक्रमर ए० बी० कवचब (एन० सी० सी० जे०/ए०/6162), (1 जुलाई 1980 से 22 मार्च, 1982)।

राजस्थान

तृतीय अक्रमर डॉ० आर चौधरी (एन० सी० सी० जे०/ए०/31631), 2 दिसम्बर 1980 से 22 मार्च 1982)।

तमिलनाडु

प्रथम अक्रमर एम० के० पेकमल (एन० सी० सी० जे०/ए/51332), (1 जून 1981 से 22 मार्च 1982)।

बी० के० मृत्ति, कामिक निदेशक

भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून

स 1602 दिनांक 26 जून 1982 दिनांक—राष्ट्रपति श्री मोर लाल बागा, अस्थाई कार्यालय अधीनस्थ ग्रेड I को भारतीय सैन्य अकादमी में स्थापना अधिकारी के पद पर दिनांक 3 अप्रैल 1982 से पदोन्नत करते हैं।

वे 2 वर्ष तक परखाधीन रहेंगे।

एम० सी० जुनेजा, अवर सचिव

(भेना मुख्यालय/जी० एम० शाखा)

सं० 1603, दिनांक 26 जून 1982—राष्ट्रपति निम्न-लिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने लिखी तिथि से मूल रूप में फौरन लेंगेज एग्जामिनेटर (विदेश; भाषा परीक्षक) वर्ग "ए" राजपत्रित) के तौर पर नियुक्त करते हैं।

नाम और पदनाम विदेशी भाषा परीक्षक के पद पर पुष्टि की तारीख

श्री एम० के० घोष स्थायी अनुवादक/स्थानापन्न विदेशी भाषा परीक्षक, 18 दिसम्बर 1977।

दुली चन्द्र, उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (पी)

सं० 1604, दिनांक 15 जून 1982—राष्ट्रपति निम्न-लिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

थल सेना मुख्यालय

(सामान्य स्टाफ शाखा)

स्थायी आशुलिपिक ग्रेड "सी" श्री गिरधारी लाल अकोला की, राजश्री सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा से 1-4-1982 से चयन सूची में से व्यक्तियों के मिलने तक स्थानापन्न आशुलिपिक ग्रेड "बी" के रूप में।

2. स्थायी सहायक श्री एन० आर० अग्रवाल को, सहायक सचिवियत स्टाफ अधिकारी श्री एन० एन० दुग्गल के सेवा

निवृत्त होने पर उनके स्थान पर सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में 1 मई 1982 से अगले आदेश जारी होने तक स्थानापन्न सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारियों के रूप में।

3. मुख्य अनुवाद अधिकारी श्री आर० एम० शर्मा का, 30-6-1982 या नियमित आधार पर पद के भंग जाने का तारखे में से जो भी पहले हो उस तक, संयुक्त निदेशक के उस पद पर, जिसे अब प्रमुख हिन्दी अधिकारियों का नाम दे दिया गया है।

1. स्थानापन्न सहायक श्री रामचन्द्र को, श्री डी० एम० फूल के सेवा निवृत्त होने पर उनके स्थान पर सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में 19-5-82 से अगले आदेश जारी होने तक स्थानापन्न सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारियों के रूप में।

सं० 1605, दिनांक 25 जून 1982—स्थानापन्न सिविलियन स्टाफ अधिकारियों श्री टी० सी० कट्याय निवृत्त आयु को प्राप्त होने पर 31-5-82 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त और 1-6-82 से पेंशन स्थापना में स्थानांतरित।

सं० 1606, दिनांक 26 जून 1982—राष्ट्रपति महर्षि निम्नलिखित नियुक्तियों/पदोन्नतियों करते हैं :—

1. श्री हरबंस लाल दिवान, सी० एम० श्री०/एम० जी० श्री०/ई० एम० ई० निदेशालय की संस्थापन एम० सी० एम० श्री० 11-2-82 से 31-3-82 तक एक चयन श्रेणी एम० सी० एम० श्री० के उपग्रेडिड स्थान पर एम० जी० श्री० शाखा/ई० एम० ई० निदेशालय में।

2. संस्थान पर ई-एन सी० ब्रांच से श्री आर० पी० पंत, स्थाई सहायक को सहायक सि० स्टा० अधि० श्री बी० एल० गांगुली के सेवा निवृत्त के स्थान पर सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में 1 मई 1982 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक स्थानापन्न सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारियों के रूप में।

3. स्थायी सहायक श्री रेवती प्रसाद एम० जी० श्री० ब्रांच आयुध निदेशालय की सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी श्री केहर सिंह के पदोन्नति होने पर उनके स्थान पर सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में 1 जून 1982 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक स्थानापन्न सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारियों के रूप में।

4. स्थायी सहायक श्री फूल सिंह एम० जी० श्री० शाखा/आयुध निदेशालय की सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी श्री हुकम चन्द के पदोन्नति होने पर उनके स्थान पर सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में 1 जून 1982 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक स्थानापन्न सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारियों के रूप में।

सं० 1607, दिनांक 20 जून 1982—सेवा निवृत्ति की आयु 30-4-1982 को प्राप्त करने पर श्री बी० एल०

गांगुली ए० सी० एम० श्री० एम० जी०/श्री० एम० निदेशालय दिनांक 30-4-1982 (अपराह्न) में सेवा निवृत्त हो गये और 1-5-1982 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना पर स्थानान्तरण हो गये।

एम० पी० महेश्वरी, उपमुख्य प्रशासन अधि०

सं० 1608, दिनांक 23 जून 1982—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी आयोग

महा निदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के पद पर

ले० जनरल एच० एम० सेठ, पी० बी० एम० एम०, पी० एच० एम० (एम० आर० 536) मैजिक डाक्टरी कोर/पी० सी० 1 फरवरी 1982 से।

जी० सुन्दरम संयुक्त सचिव

सं० 1609, दिनांक 25 मई 1982—राष्ट्रपति निम्नलिखित को 16 दिसम्बर 1978 से 2/लेफ्टीनेंट के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

मिथलेण कुमार सिंह (आई० सी० 35648 पी०) आर्टी, ज्येष्ठता निर्दिष्टता 2/लेफ्टीनेंट अमर जीत सिंह दलाल (आई० सी० 35647 एम०), इन्फैन्ट्री, जिनके नाम राजपत्र अधिसूचना नम्बर 375 दिनांक 30 जनवरी 1981 को छपे और 21 फरवरी 1981 को प्रकाशित हुए।

मुभाप चन्द्र लेफ्टीनेंट कर्नल सहायक सैनिक सचिव ए० एम० एम० 8बी०

सं० 1610, दिनांक 28 जून 1982—राष्ट्रपति निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्त करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

निम्नलिखित की स्थायी आयोग 13 जून 1981 से 2 लेफ्टीनेंट की श्रेणी से प्रदान किया जाता है :—

कुदापुर प्रादीप भट्ट (आई० सी० 39433 एन०), सिगनल्स, मनदीप सिंह कोहलो (आई० सी० 39434 डब्ल्यू०) आर्मंड कोर, संजीव बजाज (आई० सी० 39435 एच०), इन्जीनियरस, सातीन्दर कुमार सैनी (आई० सी० 39436 एफ०), इन्फैन्ट्री, शशांक ताराकांत उपसैनी (आई० सी० 39437 के०), इन्फैन्ट्री, पदचरखंदा चंगाप्पा थीमैया (आई० सी० 39438 एम०), इन्फैन्ट्री, बालापिल जार्ज (आई० सी० 39439 पी०), आटिलरी, शैलेन्द्र सिंह बोस (आई० सी० 39440 एन०), इन्फैन्ट्री, राजबीर सिंह (आई०

सी० 39441 एम०) इन्फैन्ट्री, रोहित शुकला (आई० सी० 39442 पी०) इन्फैन्ट्री, मनजीत सिंह खारा (आई० सी० 39443 एक्स०), आर्टिलरी, चंद्र कान्त मूद (आई० सी० 39444 के०) ई० एम० ई०, सुरेशान्त श्रीकांत हसबिनम (आई० सी० 39445 एच०) इन्जीनियरिंग, कमल कीर्तोरि कपूर (आई० सी० 39446 एल०), आर्मंड कोर, जगमोहन सिंह (आई० सी० 39447 एन०), इन्फैन्ट्री, मोहित विग (आई० सी० 39448 डब्ल्यू०) इन्फैन्ट्री, सविन्दर जीत बालिया (आई० सी० 39449 वाई०) इन्फैन्ट्री अमृतपाल सिंह (आई० सी० 39450 एन०), आर्मंड कोर, श्रीरलाडो ममकाऱनीम (आई० सी० 39451 डब्ल्यू०) इन्जीनियरिंग, एन० त्यागराजन (आई० सी० 39452 वाई०) आर्टिलरी, विनिश राय (आई० सी० 39453 एफ०), इन्फैन्ट्री, संजय कुमार थापा (आई० सी० 39454 के०) इन्फैन्ट्री, गुरीन्द्र पाल सिंह (आई० सी० 39455 एम० ए० एम० सी०, मोहनदीप सिंह गुरा (आई० सी० 39457) इन्फैन्ट्री, अनिल प्रभाकर श्रीर (आई० सी० 39458 के०), आर्मंड कोर, इन्फैन्ट्री, सुरेशान्त दयाल मंगीन (आई० सी० 39460 एक्स०), आर्मंड कोर, अजय पाल सिंह रावत (आई० सी० 39461 ए०), इन्फैन्ट्री, रंजीत सिंह (आई० सी० 39462 एच०), सिगनल्स, सुरेश यादव (आई० सी० 39463 एल०), इन्फैन्ट्री मिलिन्द हेमन्त ठाकुर (आई० सी० 39464 एन०), ए० एम० सी०, अमर जीत सिंह बेदी (आई० सी० 39465 डब्ल्यू०), इन्फैन्ट्री, कृष्ण बहादुर माल (आई० सी० 39466 वाई०), इन्फैन्ट्री मुदीप बिसवास (आई० सी० 39467 एफ०), आर्टिलरी हरजीत सिंह भगत (आई० सी० 39468 के०) राहुल मूद (आई० सी० 39469 एम०), मनमोहन गुप्ता (आई० सी० 39470 एफ०), आर० अर्शाक वेकटागमन (आई० सी० 39471 के०) और जीतेन्द्र, कुमार मरगल (आई० सी० 39472 एम०) इन्फैन्ट्री, निर्मल सिंह बहादुरी (आई० सी० 39473 पी०) आर्टी, अर्शा राणा (आई० सी० 39474 एक्स०), इन्फैन्ट्री, सतनाम सिंह (आई० सी० 39475 ए०), आर्टि रावी बेदी (आई० सी० 39476 एच०), आर्मंड कोर, पूर्ण चन्द चंडेल (आई० सी० 39477 एल०) आर्टि, सुनील कीपला (आई० सी० 39478 एन०), सिगनल्स, बाला कृष्णामूर्ति (आई० सी० 39479 डब्ल्यू०) आर्टि, रमनजीत सिंह उजला, (आई० सी० 39480 एल०), इन्फैन्ट्री, शिव राम चौधरी (आई० सी० 39481 एन०), ए० श्री० सी०, प्रताप सिंह राठोड (आई० सी० 39482 डब्ल्यू०) आर्टि पुरोजीत राय (आई० सी० 39483 वाई०), सत्याबीर सिंह यादव (आई० सी० 39485 के०), श्रीगुपाल सिंह (आई० सी० 39486 एम०), और मुखोमोन्द्र सिंह उजाला (आई० सी० 39487 पी०), इन्फैन्ट्री, अरुण कुमार (आई० सी० 39488 एक्स०) इन्जीनियरिंग, हरमोपिन्द्र सिंह कंवर (आई० सी० 39489 ए०), इन्फैन्ट्री, विजय सिंह शेखावत (आई० सी० 39490 पी०), आर्टि, अजय कुमार दाम (आई० सी० 39491 एक्स०) अनिल चौहान (आई० सी० 39492 ए०), सुरशी बालामुक्ताधियम (आई० सी० 39493 एच०):

श्रीर अरविन्द कुमार पांडेय (आई० सी० 39494 एल०), इन्फैन्ट्री, दापूर कुमार (आई० सी० 39495 एन०) आर्टि सत्यापाल (आई० सी० 39496 डब्ल्यू०), इन्फैन्ट्री, राजीव कुमार मिहता (आई० सी० 39497 वाई०), आर्मंड कोर, प्रभास चन्द्रा (आई० सी० 39498 एन०), इन्फैन्ट्री, महेश रामाचन्द्रन (आई० सी० 39499 के०) सिगनल्स, कानटोहर एमूल फर्नांडीस (आई० सी० 39500 एन०) इन्फैन्ट्री अमन प्रसाद सिंह (आई० सी० 39501 डब्ल्यू०), आर्टि, नारायण दाम चौहान (आई० सी० 39502 वाई०) इन्फैन्ट्री, दापक कुमार पुन (आई० सी० 39503 एफ० ए० एम० सी० संजाव सदाशिव काले (आई० सी० 39504 ए०), इन्फैन्ट्री पोलापार्क राजेन्द्र रेडो (आई० सी० 39505 एम०) आर्मंड कोर और एन० सुरलक्ष्मण (आई० सी० 39507 के०) इन्फैन्ट्री, रजत जयरथ (आई० सी० 39508 ए०), आर्टि, विनय कुमार चौधरी (आई० सी० 39509 एच०) इन्फैन्ट्री, सुधीर लाम्बा (आई० सी० 39510 एक्स०), आर्टि, अरुण कुमार प्रसाद (आई० सी० 39511 ए०), इन्फैन्ट्री नाराज वर्मा (आई० सी० 39512 एच०), आर्टि स्वातेय प्रकाश शर्मा (आई० सी० 39513 एल०), इन्फैन्ट्री, श्याम कुमार (आई० सी० 39514 एन०) आर्टि सुमत गोविन्द खारे (आई० सी० 39515 डब्ल्यू०) आर्मंड कोर, गोपाल करुणाकरण (आई० सी० 39517 एफ०), इन्फैन्ट्री, रवि प्रसाद (आई० सी० 39518 के०) आर्मंड कोर, संतोष कुमार दबराज (आई० सी० 39519 एम०), सिगनल्स, शैलू स्वामी नायडू (आई० सी० 39530 एफ०) ए० एम० सी० योगेश दालोकचन्द्र जैन (आई० सी० 39521 के०), आर्टि जयवीर सिंह नेगी (आई० सी० 39522 एम०), इन्फैन्ट्री, अनिल कुमार राघवा (आई० सी० 39523 पी०), प्रजांत कुमार (आई० सी० 39524 एक्स०) और संजय कुमार (आई० सी० 39525 के०), आर्टि, सुधीर कुमार शर्मा (आई० सी० 39526 एच०), इन्फैन्ट्री, विवेक चौधरी (आई० सी० 39527 एल०), और विजया कुमार एन्टन जरीकन (आई० सी० 39528 एन०), आर्टि, परमवीर यादव (आई० सी० 39529 डब्ल्यू०), पंजाब सिंह (आई० सी० 39530 एल०) बिमल जांत सिंह हमारा (आई० सी० 39531 एन०) विजय कुमार बल्ला (आई० सी० 39532 एन०) और अनिल कुमार राय (आई० सी० 39533 एम०) इन्फैन्ट्री उमेश चन्द्रा दुबे (आई० सी० 39534 एफ०) और अरविन्द्र सिंह (आई० सी० 39535 के०) आर्टि सुभद्रा जीत छोण (आई० सी० 39536 एम०) इन्फैन्ट्री, नवीन चन्द्र मेहता (आई० सी० 39537 पी०) आर्टि विक्रम महाजन (आई० सी० 39538 एक्स०) ई० एम० ई०, सुशील सचदेवा (आई० सी० 39539 ए०) इन्फैन्ट्री विनोद कुमार (आई० सी० 39549 पी०) ए० श्री० सी० दिवाकरण टी० (आई० सी० 39541 एक्स०) और सुकुमार दास (आई० सी० 39542 ए०) आर्टि नवदीप सिंह लाम्बा (आई० सी० 39543 एच०) आर्मंड कोर, कुलदीप कुमार नथानी (आई० सी० 39544 एल०) ए० श्री० सी०, ज्योति कुमार डंग (आई० सी०

- 39545 एन०) इन्फैन्ट्री, हरविजय सिंह (आई० सी० 39546 डब्ल्यू०), सिगनल्स, टेक चन्द्र श्या (आई० सी० 39547 वाई०) आर्टि०, गम्भू सिंह दीओरा, (आई० सी० 39548 एफ०) और नमीव सिंह (आई० सी० 39549 के०), इन्फैन्ट्री, नृतन प्रभात गेहिला (आई० सी० 39550 वाई०) सिगनल्स, मुधाकरण पिल्ले (आई० सी० 39551 एफ०) इन्फैन्ट्री, एम० रामकृष्णा (आई० सी० 39552 के०) सिगनल्स, अमरदीप सिंह गिरेवाल (आई० सी० 39553 एम०) और शशी रंजन शर्मा (आई० सी० 39554 पी०) इन्फैन्ट्री, जगन्नाथ के० (आई० सी० 39555 एक्स०), और कंवर जगमोहन जीत सिंह (आई० सी० 39556 ए०) आर्टि०, पुरुषोत्तम सिंह (आई० सी० 39557 एच०) और सुरिन्द्र सिंह (आई० सी० 39558 एल०) इन्फैन्ट्री, अशोक कुमार बग्गा (आई० सी० 39559 एन०) आर्टि०, वीरेन्द्र सिंह वर्मा (आई० सी० 39560 एच०) इन्फैन्ट्री, सतीश चांद शर्मा (आई० सी० 39561 एल०) आर्टि०, संस्थाप्रकाश अहलावन (आई० सी० 39562 एल०) इन्फैन्ट्री, साईशा नरुला (आई० सी० 39563 डब्ल्यू०) आरमर्ड कोर, अपूरवा वर्मा (आई० सी० 39564 वाई०) आर्टि०, विनोद पत (आई० सी० 39565 एफ०) सिगनल्स, गुरप्रीत मंगत (आई० सी० 39566 के०) इंजीनियरिंग्स, तुशर मधुसूदन पित्तरे (आई० सी० 39567 एम०) आरमर्ड कोर, पंकज त्यागी (आई० सी० 39568 पी०) और प्रदीप राज सिंह चौधरी (आई० सी० 39569 एक्स०) आर्टि०, रवीन्द्रा नाथ पांडे (आई० सी० 39570 एन०) आर्टि०, रविन्द्र के० (आई० सी० 39571 पी०) आरमर्ड कोर, संजीव जेटनेय (आई० सी० 39572 एक्स०) इन्फैन्ट्री, ज्योति प्रकाश सेनगुप्ता (आई० सी० 39574 एच०) और सुरिन्द्र सिंह हंसारा (आई० सी० 39575 एल०) इन्फैन्ट्री, रामाकृष्णन ए० के० (आई० सी० 39576 एन०) आर्टि०, हरिहरन रवि (आई० सी० 39577 डब्ल्यू०) सिगनल्स, अभ्या प्रकाश (आई० सी० 39578 वाई०), राजीव चौपड़ा (आई० 39579 एफ०) और मधूप कुमार राय (आई० सी० 39580 डब्ल्यू०) आर्टि०, बलराज सिंह (आई० सी० 39581 वाई०) इंजीनियर्स, मदन सिंह बिण्ट (आई० सी० 39582 एफ०) ए० श्रो० सी०, जयाप्रसाद नारायणन नायर, (आई० सी० 39583 के०) ई० एम० ई०, आर० विश्वनाथन (आई० सी० 39584 एम०) इन्फैन्ट्री, मनोज वर्मा (आई० सी० 39585 पी०) ई० एम० ई०, दिवाकर विजय देय (आई० सी० 39586 एफ०) इन्फैन्ट्री, अचल तनेजा (आई० सी० 39587 ए०) आर्टि०, सुनील कुमार मिसरा (आई० सी० 39588 एच०) इन्फैन्ट्री, त्रिलोक सिंह मालारा (आई० सी० 39589 एल०) आर्टि०, हरीश दुकगल (आई० सी० 39590 ए०) इन्फैन्ट्री, सुनील कुमार (आई० सी० 39591 एफ०) आर्टि०, गोपाल सिंह सिरोही (आई० सी० 39592 एल०), इन्फैन्ट्री, प्रदीप कुमार शर्मा (आई० सी० 39593 एन०) इंजीनियरिंग्स, जगरलापुरी रमेश चन्द्रा (आई० सी० 39594 डब्ल्यू०) इन्फैन्ट्री, श्रोम प्रकाश चौधरी (आई० सी० 39595 वाई०) आरमर्ड कोर, परमिन्दर सिंह नरवाल (आई० सी० 39596 एफ०) इंजीनियरिंग्स, सुनील नरेन्द्रा उन्नगाडे (आई० सी० 39597 के०) आर्टि०, जी० जयशंकर (आई० सी० 39598 एम०), मनीश चन्द्रा वामन चाटपांडे (आई० सी० 39600 वाई०), जलानुद्दीन मोहम्मद तारीक्य अराफत (आई० सी० 39601 एफ०) और राविन्द्र मोहन गौर (आई० सी० 39602 के०) इन्फैन्ट्री, जनेन्द्र सिंह पटानिया (आई० सी० 39603 एम०) ए० श्रो० सी०, अमूल अमथाना (आई० सी० 39604 पी०), इन्फैन्ट्री, सतवीर सिंह छिवर (आई० सी० 39605 एक्स०), आर्टि०, राजीव छिव (आई० सी० 39606 ए०) आरमर्ड कोर, ईरूप सिंह घुमन (आई० सी० 39607 एच०), नलिन कुमार भाटिया (आई० सी० 39608 एल०) और अजय ओहरी (आई० सी० 39609 एन०) इन्फैन्ट्री, प्रभू नाथ प्रसाद (आई० सी० 39610 एच०) आर्टि०, विलोक सिंह पूनिया (आई० सी० 39612 एन०) ई० एम० ई०, मतिन्दर सिंह (आई० सी० 39613 डब्ल्यू०) आरमर्ड कोर, तुशर कुमार हजारा (आई० सी० 39616 के०), और यशपाल जागिया (आई० सी० 39615 एफ०) इन्फैन्ट्री, रजनीश कुमार गुप्ता (आई० सी० 39616 के०) आर्टि०, प्रीतम सिंह सनवाल (आई० सी० 39617 एम०) इन्फैन्ट्री, सुरेन्द्र कुमार (आई० सी० 39618 पी०) आर्टि०, जानकी प्रसाद शानो (आई० सी० 39619 एक्स०) और राकेश कुमार भारद्वाज (आई० सी० 39621 पी०) आर्टि०, पृथ्वी कौमी थोमस (आई० सी० 39622 एक्स०), पंजाब सिंह (आई० सी० 39623 ए०) और प्रदीप मूर्ति वाली (आई० सी० 39624 एच०) इन्फैन्ट्री, अश्वनी गुलाटी (आई० सी० 39625 एल०) ई० एम० ई०, जगत सिंह (आई० सी० 39626 एन०) इन्फैन्ट्री, अमरजीत सिंह हुन्डल (आई० सी० 39627 डब्ल्यू०, महेण बमन्त कुलकर्णी (आई० सी० 39628 वाई०), राम कुमार (आई० सी० 39729 एफ०), अभय रंजन मरकार (आई० सी० 39631 वाई०) और कुमुद चौपड़ा (आई० सी० 39632 एफ०) आर्टि०, आनन्द भास्कर बापत (आई० सी० 39634 एन०) सिगनल्स, आनन्द रणमकान्त तपन (आई० सी० 39635 पी०), आर्टि०, मुखबीर सिंह सहिल (आई० सी० 39636 एक्स०), इन्फैन्ट्री, चन्द्र पाल सिंह (आई० सी० 39637 ए०) ए० श्रो० सी०, प्रकाश बाबू राव पाटिल (आई० सी० 39638 एच०), इन्फैन्ट्री, राज पाल सिंह ग्राहलुवालिया (आई० सी० 39639 एल०) ए० एम० सी०, रवि कुमार महिन्द्रू (आई० सी० 39640 ए०) इन्फैन्ट्री, नायर मोहन के० जी० नायर (आई० सी० 39642 एल०) इन्फैन्ट्री, राजीव एडवर्ड (आई० सी० 39643 एन०) आरमर्ड कोर, विनायक काशीनाथ छेती (आई० सी० 39644 डब्ल्यू०), उदय कुमार राजू एम० (आई० सी० 39645 वाई०) सनल कुमार एन० (आई० सी० 39646 एफ०) दलीप बखशी (आई० सी० 39647 के०), मुकुन्दन श्री कुमार (आई० सी० 39648 एम०) विक्रमेन्द्रा प्रताप सिंह (आई० सी० 39649 पी०) और रमेश घाई (आई० सी० 39650 के०) इन्फैन्ट्री, सुनील मिड्डा (आई० सी० 39651 एम०) आर्टि०, घनश्याम मघनानी (आई० सी० 39652 पी०) इन्फैन्ट्री, दीपक अरोड़ा (आई०

सी० 39653 एक्स०) और हरबिन्दर पाल सिंह (आई० सी० 39654 ए०) आर्टि हेमन्त जोनेजा (आई० सी० 39655 एच०) और विनेश शर्मा (आई० सी० 39656 एल०) इन्फैन्ट्री, माईकल नायल (आई० सी० 39658 डब्ल्यू०) इन्फैन्ट्री, शेखर राय चौधरी (आई० सी० 39659 वाई०) इंजीनियरिंग सजीव कुमार मलिक (आई० सी० 39660 एन०) आर्टि० सरीश प्रभाकर कुलकर्णी (आई० सी० 39661 डब्ल्यू०) और दीन दयाल (आई० सी० 39663 एफ०) इन्फैन्ट्री, अजय मदन लाल चौधरी (आई० सी० 39664 के०) और करुणा कर्ण पी० (आई० सी० 39665 एम०) आर्टि० और अनिल कुमार गुप्ता (आई० सी० 39667 एक्स०) इन्फैन्ट्री, जे० रजेन्द्रन (आई० सी० 39668 ए०) आर्टि०, हरबिन्दर पाल सिंह, पाल (आई० सी० 39669 एच०) इन्फैन्ट्री, मनविन्दा मेहता (आई० सी० 39670 एक्स०), आर्मंड कोर, रघुविन्दर सिंह महोत्रा (आई० सी० 39671 ए०) आर्टि०, संजय कुमार (आई० सी० 39672 एच०) इन्फैन्ट्री, जीतेन्द्र सिंह यादव (आई० सी० 39673 एल०) आर्मंड कोर, ललित कुमार बोराह (आई० सी० 39674 एन०) ए० एस० सी० विजय सिंह (आई० सी० 39675 डब्ल्यू०), इन्फैन्ट्री, कन्डाडा कुटापा आयापा (आई० सी० 39677 एफ०), सिगनल्स, विषयजीत शोमे (आई० सी० 39678 के०), आर्टि०, जय पाल सिंह (आई० सी० 39679 एम०), इन्फैन्ट्री, असीम कुमार चन्द्रा (आई० सी० 39680 एफ०) आर्टि०, के० ए० मोहन, (आई० सी० 39681 के०) इन्फैन्ट्री, शशी कान्त सिंह (आई० सी० 39682 एम०) आर्टि०, बलविन्दर सिंह (आई० सी० 39683 पी०), ए० एस० सी०, बलेन्द्र प्रताप सिंह कुशता (आई० सी०-39684 एक्स०), आर्मंड कोर, रविन्दर सिंह टोक्स (आई० सी० 39687 एल०) और कृष्णा कान्त त्रिपाठी, (आई० सी० 39688 डब्ल्यू०) इन्फैन्ट्री, सजीव मान्सी, (आई० सी० 39689 डब्ल्यू०) और सतिन्दर पाल सिंह कोहली (आई० सी० 39690 एल०) आर्टि० दवेश उपाध्याय (आई० सी० 39691 एन०), राकेश हूरा (आई० सी० 39693 वाई०), और राजीव छूम (आई० सी० 39694 एफ०) इन्फैन्ट्री सतीश खत्री (आई० सी० 39695 के०), आर्मंड कोर, जेकरब थाराकन वाको (आई० सी० 39690 एम०), ए० ओ० सी० राघवन मधुसूदन नायर आई० सी०-39697 पी०) आर्टि०, राजीव नाथ सिंह (आई० सी० 39698 एक्स०) और मोहन सिंह (आई० सी० 39699 ए०) इन्फैन्ट्री, असिफ हुसैन (आर्टि० सी० 39700 के०) आर्टि०, हरबिन्दर सिंह (आई० सी० 39701 एम०), इन्फैन्ट्री, संजय महाजन (आई० सी० 39702 पी०) आर्मंड कोर, कुलविन्दर पाल सिंह बरार (आई० सी० 39703 एक्स०) और सुशील मैथ्यू (आई० सी० 39704 ए०) इन्फैन्ट्री रामचन्द्ररुति वेनकटा सुब्रामनियम (आई० सी० 39705 एच०) आर्टि० ओम प्रकाश त्रिपाठी (आई० सी० 39706 एल०) सिगनल्स, तपस कुमार, अश्वत्थि (आई० सी० 39707 एन०) और रेमी जिनदानी (आई० सी० 39708 डब्ल्यू०) आर्टि० शरबीर सिंह सालूजा (आई० सी० 39709 वाई०) ए०

ओ० सी०, थीडनन्कोल रामाकृष्णा जगन्नाथ (आई० सी० 39710 एन०), सिगनल्स, रंजीत सिंह संधू (आई० सी० 39712 वाई०) इन्फैन्ट्री, किशोर उप्पल (आई० सी० 39713 एफ०) आर्टि० प्रमोद कुमार बाटला (आई० सी० 39714 के०) ए० ओ० सी०, राजबीर खहर (आई० सी० 39715 एम०) और अनिल वारन घोंट (आई० सी० 39716 पी०) इन्फैन्ट्री, सुधीर शर्मा (आई० सी० 39717 एक्स०), इंजीनियरस रविन्दरन रामथ (आई० सी० 39718 ए०) आर्टि० शैलेश पन्चलोथिया (आई० सी० 39719 एन०) और धारती धर शर्मा (आई० सी० 39720 एक्स०) इन्फैन्ट्री, कुल भूषण कौशल (आई० सी० 39721 के०), आर्टि०, प्रदीप पसबौला (आई० सी० 39722 ए०) और नरेन्द्र पाल सिंह मान, (आई० सी० 39723 एल०) इन्फैन्ट्री, रिशी राज सिंह भट्टी (भट्टी) (आई० सी० 39724 एन०) ई० एम० ई०, राकेश चांद कटोच, (आई० सी०, 39725 डब्ल्यू०) इन्फैन्ट्री, चैम्कसरल कौशी कौशी कुंज (आई० सी० 39726 एक्स०) आर्टि० संजीव पुरी (आई० सी० 39727 एफ०) आर्मंड कोर खानगारा राम (आई० सी० 39728 के०), सिगनल्स, अजय कुमार सतापति (आई० सी० 39729 एम०), इन्फैन्ट्री, अवीर चौधरी (आई० सी० 39730 एफ०) कुलरंजन राजगोपालन (आई० सी० 39732 एम०) और शाहनवाज युसफ (आगा) (आई० सी० 39733 पी०) आर्टि०, राज वर्मा (आई० सी० 39734 एक्स०), ए० ओ० सी० नरेन्द्र कुमार शर्मा (आई० सी० 39736) इन्फैन्ट्री), रूपिन्दर पाल (आई० सी० 39737 एफ०) आर्मंड कोर, श्रीनाथ प्रहलाद मुडहोपकर (आई० सी० 39738 एन०) रविन्द्र श्रीवास्तवा अमरजीत सिंह (आई० सी० 39740 एन०) और कुमार रामचन्द्रा भुगराज (आई० सी० 39741 एन०) आर्टि०, नरेन्द्र सिंह (आई० सी० 39742 डब्ल्यू०) आर्मंड कोर गिरीश कामत (आई० सी० 39744 एफ०) और अशोकन के० (आई० सी० 39745 के०) इन्फैन्ट्री, प्राणेश चन्द्रा शर्मा (आई० सी० 39746 एम०) आर्टि०, गौतम पाठक (आई० सी० 39747 पी०) इन्फैन्ट्री, राजीव सिंह राणा और जगन्नाथ गोपीनाथ (आई० सी० 39749 ए०), आर्टि० जपिन्दर पाल सिंह जैसल (आई० सी० 39750 पी०) इन्फैन्ट्री, हरपाल सिंह (आई० सी०, 39751 एक्स०) आर्मंड कोर, रणजीत सिंह साराओ (आई० सी० 39752 ए०) इन्फैन्ट्री, हिम्मत सिंह (आई० सी० 39745 एल०) और बलजीन्द्र सिंह बसराओ (आई० सी० 39755 एन०) इन्फैन्ट्री नरेन्द्र पाल सिंह (आई० सी० 39756 डब्ल्यू०) ए० ओ० सी० के० शाम्बाशिव राओ (आई० सी० 39757 वाई०), आर्टि० मन मोहन शर्मा (आई० सी० 39758 एफ०) सिगनल्स देव कुमार शूरंग (आई० सी० 39759 के०) और सी० एन० सुरेश (आई० सी० 39760 वाई०) इन्फैन्ट्री, अर्थाशोरी बालकृष्णन राधा कृष्णन (आई० सी० 39762 के०) अलोक चतुर्वेदी, (आई० सी० 39763 एम०) और सनथाना वरदान आर० (आई० सी० 39766 ए०) आर्टि० तपेश कंवर (आई० सी० 39767 एच०) इन्फैन्ट्री, सुदीप नारायण बाबा (आई० सी० 39768

एल०) आर्मंड कोर, राजा धामल विलयन, (आई० सी० 39769 डब्ल्यू) इंफैंट्री, सुबोध चन्द्रा दास (आई० सी० 39770 एच०) आर्टि०, अजीत रामचन्द्रा वेशपांडे (आई० सी० 39771 एल०) इंफैंट्री, तरनजीत सिंह सभरा (आई० सी० 39772 एन०) आर्मंड कोर, विधु नाथ सक्सेना (आई० सी० 39774 आई० आर्टि०, सुब्रामन श्रीनिवासन (आई० सी० 39775 एफ०) ई० एम० ई० योगेश दिक्षीत (आई० सी० 39777 एम०) ए० एम० सी०, साहस सिंह (आई० सी० 39779 एक्स०) ए० एस० सी०, कमल किशोर पंत (आई० सी० 39780 एम०), गिरीश शिवदास नगरेष्वा (आई० सी० 39781 पी०) और मुम्माडी जोसफ रेडी (आई० सी० 39783 ए०) इंफैंट्री, राकेण ए० आई एम० ए० (आई० सी० 39784 एच०) विजय कुमार (39785 एल०) और प्रमोद कुमार शर्मा (आई० सी० 39786 एन०) आर्टि० अनिल कुमार ऐबट (आई० सी० 39787 डब्ल्यू०) और उदय सिंह (आई० सी० 39788 आई०), इंफैंट्री, मैथ्यू धामस (आई० सी० 39789 एफ० रमेश उपाध्याय (आई० सी० 39790 डब्ल्यू०) और गुराता कुमार जाना (आई० सी० 39791 आई०) आर्टि०, राजेश तिवारी, (आई० सी० 39792 एफ०) ए० ओ० सी०, जयदीप मेहता, (आई० सी० 39793 के०) आर्मंड कोर, नरेन्द्र सिंह पठानिया (आई० सी० 39794 एम०) ए० एस० सी०, अरुण कुमार मैथानी (आई० सी० 39795 पी०) ए० ओ० सी०, एम० पी० हबीबुल्ला (आई० सी० 39797 ए०) इंफैंट्री, अनुज थपयाला (आई० सी० 39516 आई०), इंफैंट्री, 18881 अलोक कुमार सक्सेना (आई० सी० 39456 पी०) इंफैंट्री, 8981 स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

ले० कर्नल सुभाष चन्द्र, ए० एम० एस,

सं० 1611, दिनांक 5 जून, 1981:—राष्ट्रपति निम्न-लिखित अफसर की नियुक्ति करते हैं:—

प्रादेशिक सेना
प्रादेशिक कमीशन
कैप्टन के पद पर

राजेन्द्र कुमार यादव, टी० ए० (एम०), 1139, ए० एम० सी० (टी० ए०) —10 अप्रैल, 1981

लैफ्टी० के पद पर

श्रीमती शकुन्तला पोह्ल टी० ए० (एन०) 1062, एम० एन० एस० (टी० ए०)—1 मई, 1976 (अग्रिम बरीयता 1 मई 1974 से दी गई)।

कुमारी सुदेश मल्होत्रा, टी० ए० (एन०)-1076, एम० एन० एस० (टी० ए०)—30 अगस्त, 1980।

कुमारी तारावती, टी० ए० (एन०)-1077, एम०, एन० एस० (टी० ए०)—30 अगस्त, 1980।

नरेश्वर सिंह, अवर सचिव

सं० 1612, दिनांक 1 जुलाई, 1982—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर की नियुक्ति करते हैं:—

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

2/लैफ्टी (परख पर)

मधु सूदन शर्मा, टी० ए० 41684 इंजीनियर्स —23 जनवरी, 1981।

एम० एल० कपूर, अवर सचिव

सैनिक भूमि तथा छावनी सेवा

सं० 1613, दिनांक 3 जुलाई, 1982:—राष्ट्रपति सर्वश्री ए० के० बारातलम और एम० के० उन्नीथन की रखा भूमि तथा छावनी सेवा की वर्ग "ख" (छावनी अधि-शासी अधिकारी संवर्ग) में तदर्थ नियुक्ति को क्रमशः 25-3-1982 व 16-3-1982 से और आगे 6 माह की अवधि तक या पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक के लिये, इनमें से जो भी पहले हो, जारी रखने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

आर० के० चतुर्वेदी, महानिदेशक

(नियमित सेना—ए० ओ० सी०)

सं० 1614, तिथि 24 जून, 1982:—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित आयुद्ध अधिकारी असैनिक (भण्डार) को स्थानापन्न असैनिक स्टाफ अधिकारी के रूप में तदर्थ आधार पर उनके नाम के सामने नियमित अवधि तक नियुक्त करते हैं:—

श्री श्री० आर० वैरियर—16-1-81 से 28-1-82 तक
श्री सीता राम टुटेजा 08-12-81 से 28-1-82 तक
श्री चन्द्र जीत भुटानी 30-11-81 से 28-1-82 तक।

कोर आफ ई० एम० ई०

सं० 1615 दिनांक 25 जून, 1982:—राष्ट्रपति, श्री आर० एम० राजू, स्थाई फोरसैन को ओफिसियेटिंग वर्कशाप आफिसर ग्रुप 'बी' के रूप में तिथि 29 मार्च, 1982 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं। वह दो वर्ष की परख अवधि पर रहेंगे।

सं० 1616, दिनांक 26 जून 1982:—राष्ट्रपति, श्री सुमन मिश्रा को ई० एम० ई० कोर में अस्थायी लैकचरार (गणित) के रूप में तिथि 02 जून 1982 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं। वह दो वर्ष की परख अवधि पर रहेंगे।

एम० सी० जुनेजा, अवर सचिव

सं० 1617, दिनांक 30 जून 1982:—राष्ट्रपति निम्न-लिखित की सहर्ष नियुक्ति करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी आयोग (विशेष सूची)

निम्नलिखित जे० सी० ओ० को दिनांक 27 जुलाई 1981 से सेना अनुदेश 85/74 के अन्तर्गत लेफ्टिनेंट की श्रेणी में आई० ई० एम० की विशेष सूची में स्थायी आयोग अनुदान किया जाता है। सेना अनुदेश 85/74 पैरा 7(सी) के अन्तर्गत उसकी वरिष्ठता केवल वेतन के लिये 27 जुलाई 1979 से होगी:—

सूबेदार कोडूमथरा वरगिस मैथाय (जे० सी० 64236 अर एम० एल० 2837 आई०) इंजीनियर्स प्रवेष्टता निविष्टता ले० अजायब सिंह एम० एल०-2839 के०), इंजीनियर्स।

ले० कर्नल, सुभाष चन्द्र, ए० एम० एस०

सं० 1618, दिनांक 5 जुलाई, 1982:—राष्ट्रपति निम्न-लिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

स्थायी कमिशन

मेजर से ले० कर्नल के मूल रैंक में (चयन द्वारा)

एम० आर० सिन्हा (आई० सी० 12145 एक्स०) इन्टेलिजेंस कोर—25 फरवरी, 1980 परन्तु वेतन तथा पेंशन पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 1 अगस्त 1979 से दी जायेगी।

सी० पी० के० के० आय्यर (आई० सी० 12165 एल०) इन्टेलिजेंस कोर:—25 फरवरी 1980 परन्तु वेतन तथा पेंशन पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 16 सितम्बर 79 से दी जायेगी।

आर० वेंकटेश्वरन (आई० सी० 12187 के०) इन्फेन्ट्री 19 अक्टूबर 1979।

एन० सी० गर्ग (आई० सी० 13475 एक्स०) ए० ओ० सी०:—6 दिसम्बर, 1979 परन्तु वेतन तथा पेंशन पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 19 अक्टूबर, 1979 से दी जायेगी।

एम० एम० एस० साहेबपाल (आई० सी० 13484) ई० एम० ई०:—19 अक्टूबर, 1979।

वी० के० मेहरा (आई० सी० 12328 एन०) ई० एम० ई०:—19 अक्टूबर, 1979।

ए० पी० पलटा (आई० सी० 12333 आई०) ई० एम० ई०:—9 दिसम्बर, 1979 परन्तु वेतन तथा पेंशन पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 19 अक्टूबर, 1979 से दी जायेगी।

जी० के० साहनी (आई० सी० 12336 एम०) इन्टेलिजेंस कोर—24 फरवरी, 1980 परन्तु वेतन तथा पेंशन पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 19 अक्टूबर, 1979 से दी जायेगी।

एस० एम० सिरिराम (आई० सी० 12355 एक्स०) इन्फेन्ट्री—19 अक्टूबर, 1979।

अगवीश सिंह (आई० सी० 12371 पी०) ए० ओ० सी० 19 अक्टूबर, 1979।

एम० एल० दत्ता (आई० सी० 12435 पी०) सिगनल 19 अक्टूबर, 1979।

टी० एन० मेहता (आई० सी० 13850 एच०) ई० एम० ई०:—3 दिसम्बर, 1979 परन्तु वेतन तथा पेंशन पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 19 अक्टूबर 1979 से दी जायेगी।

आर० वी० सीधारमैया (आई० सी० 13852 एन०) इंजीनियर्स—19 अक्टूबर 1979।

वी० बी० सिरिवास्तवा (आई० सी० 13857 एम०) ई० एम० ई०:—7 दिसम्बर 1979 (परन्तु वेतन तथा पेंशन पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 19 अक्टूबर 1979 से दी जायेगी)।

एस० एस० माघ (आई० सी० 13861 पी०) ई० एम० ई०:—26 नवम्बर 1979 (परन्तु वेतन तथा पेंशन पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 19 अक्टूबर, 1979 से दी जायेगी)।

रघु नन्दन (आई० सी० 14296 पी०) इंजीनियर्स—19 अक्टूबर, 1979।

एम० एम० बलानी (आई० सी० 14317 ए०) ई० एम० ई०:—18 दिसम्बर, 1979 (परन्तु वेतन तथा पेंशन पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 19 अक्टूबर 1979 से दी जायेगी)।

एम० एल० भण्डारी (आई० सी० 14318 एच०) ई० एम० ई०:—22 दिसम्बर 1979 (परन्तु वेतन तथा पेंशन पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 19 अक्टूबर 1979 से दी जायेगी)।

आर० एस० बैन्स (आई० सी० 14327 के०)—ई० एम० ई०:—21 दिसम्बर, 1979 (परन्तु वेतन तथा पेंशन पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 19 अक्टूबर 1979 से दी जायेगी)।

ए० बी० अलाकर (आई० सी० 14351 आर०) इंजीनियर्स—2 फरवरी, 1980 (परन्तु वेतन तथा पेंशन पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 19 अक्टूबर, 1979 से दी जायेगी)।

आर० श्रीधरन (आई० सी० 14312 एफ०) ई० एम० ई०:—9 जनवरी, 80 (परन्तु वेतन तथा पेंशन पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 19 अक्टूबर, 1979 से दी जायेगी)।

बी० बी० उथापा (आई० सी० 14361 के०)—इंजी-नियर्स—30 नवम्बर, 1979 (परन्तु वेतन तथा पेंशन पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 19 अक्टूबर 1979 से दी जायेगी)।

टी० एस० सेठी (आई० सी० 11115 एन०) इंजी-नियर्स—27 दिसम्बर 1979 (परन्तु वेतन तथा पेंशन पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 20 अक्टूबर 1979 से दी जायेगी)।

जे० एम० कपूर (आई० सी० 11659 एच०) सिगनल 21 अक्टूबर, 1979।

जे० राघवराय (आई० सी० 13096 एम०) इंजीनियर्स 17 दिसम्बर, 1979 (परन्तु वेतन तथा पेंशन पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 21 अक्टूबर 1979 से दी जायेगी)।

ले० कर्नल ए० एस० पाण्डे, सहायक सैनिक सचिव

सं० 1619, दिनांक 5 जून 1982:—राष्ट्रपति निम्न-लिखित अफसर की पदोन्नति करते हैं:—

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

लेफ्टी० से कैप्टन

मिस मन्जू बैनर्जी टी० ए० (एन०)-1016, एम० एन० एस० (टी० ए०)—22 दिसम्बर, 1980।

मिस प्रतिभा दास, टी० ए० (एच०)-1017, एम० एन० एस० (टी० ए०)—22 दिसम्बर, 1980।

नच्छतर सिंह, अवर सचिव

सं० 1620, दिनांक 24 जून, 1980:—राष्ट्रपति निम्न-लिखित अफसरों को उनकी अनिवार्य सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर तथा सेना से निवृत्त होने की अनुमति देते हैं:—

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

लेफ्टिनेंट जनरल सरदूल सिंह (आई० सी० 1800-एल० पी० बी० एस० एम०, ए० आ० सी०, 30 अप्रैल, 1982 (अपराह्न)।

मेजर जनरल बी० के० मेहता (आई० सी० 5445 डब्ल्यू०) पी० बी० एस० एम०, ए० बी० एस० एम०, इन्फैंट्री, 31 जनवरी, 1982 (अपराह्न)।

सं० 1621, दिनांक 24 जून, 1982—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को उसकी अपनी प्रार्थना पर निजी कारणों से थल सेना से निवृत्त होने की और उसका तबावला सेवा निवृत्ति की तारीख से 30 नवम्बर, 1982 तक अफसरों के नियमित रिजर्व (श्रेणी "एक्स") में करने की अनुमति देते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर जनरल एस० एन० मनोहर (आई० सी० 2344 एक्स०) ए० बी० एस० एम०, ई० एम० ई०, 9 फरवरी, 1982 (पूर्वाह्न)।

मेजर जनरल एल० बी० सोधी, स्थानापन्न सैनिक सचिव

शुद्धि पत्र

सं० 1622, दिनांक 26 जून, 1982—23 मई, 1981 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय अधिसूचना संख्या 1108 शीर्षक नियमित सेना-अल्पकालीन सेवा आयोग (जो परखाधीन है) के अन्तर्गत

08 सितम्बर 1977 के स्थान पर

03 सितम्बर 1977 पढ़ियें।

ले० कर्नल सुभाष चन्द्र, सहायक सैनिक सचिव

सं० 1623, तारीख 26 जून 1982—7 नवम्बर 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 2258 तारीख 16 अक्टूबर 1981 में शीर्षक 'नियमित सेना' उपशीर्षक 'इन्फैंट्री' और '9 जी० आर०' के अन्तर्गत 'नायब सूबेदार के रैंक में' के नीचे:—

स्थान पर

हवलदार खरका बहादुर मल्ल (सं० 5836346 एल० अरब जे० सी०) 22 नवम्बर, 1980।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 सितम्बर, 1980 से दी जायेगी)।

हवलदार सूरत बहादुर खत्री (सं० 5835591 एफ० अरब जे० सी०) 13 सितम्बर, 1980।

हवलदार भीम बहादुर मल्ल (सं० 5835616 एच० अरब जे० सी०) 13 सितम्बर, 1980।

हवलदार करना बहादुर मल्ल (सं० 5835322 पी० अरब जे० सी०) 13 सितम्बर, 1980।

हवलदार धन बहादुर छेत्री (सं० 5835627 पी० अरब जे० सी०) 13 सितम्बर, 1980।

हवलदार दौरना बहादुर साही (सं० 5835859 एन० अरब जे० सी०) 13 सितम्बर, 1980।

हवलदार खिम बहादुर भण्डारी (सं० 5834967 एल०
अब जे० सी०) 1 नवम्बर, 1980।

हवलदार करना बहादुर साही (सं० 5835890 ए०
अब जे० सी०) 2 नवम्बर, 1980।

हवलदार मोहन राज छेत्री (सं० 5836357 एक्स०
अब जे० सी०) 2 नवम्बर 1980।

पढ़ा जाये—

हवलदार खरका बहादुर मल्ल (सं० 5836346 एल०
अब जे० सी०-114790 ए०) 22 नवम्बर, 1980।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 11 सितम्बर, 1980 से दी जायेगी)

हवलदार सूरत बहादुर खत्री (सं० 5835591 एफ०
अब जे० सी०-114791 ए०) 13 सितम्बर, 1980।

हवलदार भीम बहादुर मल्ल (सं० 5835616 ए०
अब जे० सी०-114792 ए०) 13 सितम्बर, 1980।

हवलदार करना बहादुर मल्ल (सं० 5835322 पी०
अब जे० सी०-114793 ए०) 13 सितम्बर, 1980।

हवलदार धन बहादुर छेत्री (सं० 5835627 पी० अब
जे० सी०-114794 डब्ल्यू०) 13 सितम्बर, 1980।

हवलदार दौरना बहादुर साही (सं० 5835859 ए०
अब जे० सी०-114795 वाई०) 13 सितम्बर, 1980।

हवलदार खिम बहादुर भण्डारी (सं० 5834967 एल०
अब जे० सी०-114796 ए०) 1 नवम्बर, 1980।

हवलदार करना बहादुर साही (सं० 5835890 ए०
अब जे० सी०-114797 के०) 2 नवम्बर, 1980।

हवलदार मोहन राज छेत्री (सं० 5836357 एक्स० अब
जे० सी०-114798 ए०) 2 नवम्बर, 1980।

(ii)—7 नवम्बर 1981 के भारत के राजपत्र
में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 2258 तारीख
16 अक्टूबर, 1981 में शीर्षक 'नियमित सेना', उपशीर्षक
'इन्फैन्ट्री' और '5 जी० आर०' के अन्तर्गत 'नायब सूबेदार
(लिपिक)' के रैंक में के नीचे:—

हवलदार (लिपिक) जीत बहादुर तमांग (सं० 5438395
आई० अब जे० सी०), 13 दिसम्बर, 1979 के स्थान
पर

हवलदार (लिपिक) जीत बहादुर तमांग (सं० 5438395
वाई० अब जे० सी०-114799 पी०) 13 दिसम्बर, 1979
पढ़ा जाय।

हवलदार (लिपिक) उदे सिंह गुसाई (सं० 5438748
ए० अब जे० सी०)—1 अप्रैल, 1980 के स्थान पर

हवलदार (लिपिक) उदे सिंह गुसाई (सं० 5438748
ए० अब जे० सी०-114800 वाई०) 1 अप्रैल, 1980
पढ़ा जाय।

हवलदार (लिपिक) बन्सी लाल (सं० 5439042
ए० अब जे० सी०), 2 अप्रैल, 1980 के स्थान पर

हवलदार (लिपिक) बन्सी लाल (सं० 5439042 ए०
अब जे० सी०-114801 ए०)—2 अप्रैल, 1980
पढ़ा जाय।

हवलदार (लिपिक) उमेश चन्द्र जोशी (सं० 5439047
के० अब जे० सी०) 1 नवम्बर, 1980 के स्थान पर

हवलदार (लिपिक) उमेश चन्द्र जोशी (सं० 5439047
के० अब जे० सी०-114802 के०) 1 नवम्बर, 1980
पढ़ा जाय।

"हवलदार (लिपिक) प्रेम सिंह (सं० 5439088 ए०
अब जे० सी०) 9 दिसम्बर, 1980।*

*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों
पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर, 1980 से दी
जायेगी)" के स्थान पर

"हवलदार (लिपिक) प्रेम सिंह (सं० 5439088 ए०
अब जे० सी०-114803 ए०) 9 दिसम्बर, 1980।*

*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों
पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर, 1980 से दी
जायेगी)" पढ़ा जाये।

ए० कृष्णन, अवर सचिव

(iii)—7 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र
में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 2258 तारीख
16 अक्टूबर, 1981 में शीर्षक 'नियमित सेना' उपशीर्षक
'इन्फैन्ट्री' और '8 जी० आर०' के अन्तर्गत 'नायब सूबेदार
के रैंक में के नीचे:—

हवलदार बालाराम पुन " (सं० 5739174 एक्स अब
जे० सी०)—8 दिसम्बर, 1980*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 11 अगस्त, 1980 से दी जायेगी)"
के स्थान पर

हवलदार बाला राम पुन ("सं० 5739174 एक्स०
अब जे० सी०-114804 पी०)—8 दिसम्बर, 1980*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 11 अगस्त 1980 से दी जायेगी)"
पढ़ा जाये।

सी० क्यू० ए० ए० हर्का बहादुर आले "(सं०
5737285 डब्ल्यू० अब जे० सी०)—23 सितम्बर,
1980" के स्थान पर

सी० क्यू० ए० ए० हर्का बहादुर आले "(सं०
5737285 डब्ल्यू० अब जे० सी०-114805 एक्स)—
23 सितम्बर, 1980" पढ़ा जाये।

हवलदार बिशन प्रसाद राना "(सं० 5739676 ए०
अब जे० सी०),--23 सितम्बर, 1980" के स्थान पर

हवलदार बिशन बहादुर राना "(सं० 5739676 ए०
अब जे० सी०-114806 ए०), 23 सितम्बर, 1980"
पढ़ा जाये।

हवलदार राम बहादुर साही "(सं० 5739138 ए० अब
जे० सी०)--30 सितम्बर, 1980" के स्थान पर

हवलदार राम बहादुर साही "(सं० 5739138 ए० अब
जे० सी०-114807 ए०)--30 सितम्बर, 1980"
पढ़ा जाये।

हवलदार राजेन्द्र सिंह खत्री "(सं० 5737560 ए० अब
जे० सी०) --1 दिसम्बर, 1980" के स्थान पर

हवलदार राजेन्द्र सिंह खत्री "(सं० 5737560 ए० अब
जे० सी०-114808 ए०)--1 दिसम्बर, 1980"
पढ़ा जाये।

हवलदार गुलाब सिंह थापा "(सं० 5739218 के० अब
जे० सी०), --3 दिसम्बर, 1980" के स्थान पर

हवलदार गुलाब सिंह थापा "(सं० 5739218 के० अब
जे० सी० 114809 ए०)--3 दिसम्बर, 1980"
पढ़ा जाये

(iv) सं० 2304 दिनांक 23 अक्तूबर, 1981—
रक्षा मंत्रालय राजपत्र अधिसूचना सं० 46 तारीख 14
नवम्बर, 1981 शीर्षक "नियमित सेना" उपशीर्षक "इन्फैन्ट्री"
और "सिख रेजिमेंट" के नीचे "नायब सूबेदार के रैंक में"
निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

"हवलदार जोगिन्दर सिंह (सं० 3348869 ए० अब
जे० सी०)--1 जनवरी, 1981।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 31 जुलाई, 1980 से दी जायेगी)"
के स्थान पर

"हवलदार जोगिन्दर सिंह (सं० 3348869 ए० अब
जे० सी०-114789 ए०)--1 जनवरी, 1981।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 31 जुलाई, 1980 से दी जायेगी)"
पढ़ा जाये।

एन० कृष्णन, अवर सचिव

(नौसेना ब्रांच)

सं० 1624 तारीख 12 मई, 1982—राष्ट्रपति
निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :—

भारतीय नौसेनाय

स्थाई कमीशन

इग्जैक्यूटिव ब्रांच

(नौसेना विमानन)

मिडशिपमैन की कार्य, सब-लेफ्टिनेंट के पद पर

दिनेश कुमार गुप्ता (02180-बी०) 1-1-81 से, नौसेना
आदेश 56/80 देखें।

कार्य, सब-लेफ्टि० की सब लेफ्टि० के पद पर

दिनेश कुमार गुप्ता (02180 बी० 1-1-82 से 1-1-81
की वारंछता (केवल पदोन्नति के लिए) सहित, नौसेना आदेश
56/80 देखें।

मिडशिपमैन की कार्य, सब-लेफ्टि के पद पर

देवेंद्र एम० सूदन (02429 डब्ल्यू०), मनिन्द्र सिंह
(02430 वाई०) मोहिन्दर पाल सिंह (02431 जेड०),
सुधीर गुहा (02432 ए०) तथा कारवे हेमन्त श्रीकार
(02433 बी०) 1-1-82 से, नौसेना आदेश 56/80 देखें।

राकेश शर्मा (02170 ए०), नरेश सिंह राना
(02171 ए०) तथा अविनाश कुमार सिन्हा (02172
के) 1-7-80 से, दिलीप कुमार चौधरी (02174 आर०)
21-11-80 से, नौसेना आदेश 56/80, देखें।

इग्जैक्यूटिव ब्रांच

कार्य सब लेफ्टिनेंट के पद पर

के० एन० सुरेन्द्ररम (020173-ए०), 16-8-80
नौसेना विनियमावली भाग III सांविधिक का विनियम
289 देखें।

अस्थाई काडर

विशेष इयूटीज सूची

कार्य सब लेफ्टिनेंट (एस० डी० जी०) के पद पर
चन्दगी राम ततेरवाल (80117 ए०), 1-4-81,
नौ अनु० 32/67 देखें।

सी० पी० ओ० जी० आई० 083074 ए० धर्मवीर
(80119 ए०), 1-10-81

कार्यकारी सब-लेफ्टिनेंट (एस० डी० टी० ए० एस०) के
पद पर

कार्यकारी पेटी अफसर (यू० सी० आई०) 093175
ए० चोकरलिंगम मेगानाथन (81292 बी०), कार्यकारी
पेटी अफसर (टी० ए० एस० आई०) 093567 बी० कन्दाथिल
पीटर मैथ्यू (81293 ए०), पेटी अफसर (यू० सी० आई०)
092871 वाई० मन्मथन सिंह (81294 ए०), एम०
सी० पी० ओ० II (टी० ए० एस० आई०) (086764 टी०

भगवान दाम जैन 81295 के० और पेटी अफसर (यू० डब्ल्यू० आई०) 091385 डब्ल्यू० अजायब सिंह सायन (81296 एन०)—1-10-81।

कार्यकारी सब-लेफ्टि० (एम० डी० जी०) के पद पर पेटी अफसर (यू० सी० आई०) 053332-के० शोक मस्तान (83201-टी०), 1-10-81,

कार्यकारी सब-लेफ्टि० (एस० डी० आर० ई० जी०) के पद पर

आर० पी० ओ० 084940 आई० छोटे लाल झा (83942-ए०) 1-10-81।

कार्यकारी सब-लेफ्टिनेट (एम० डी० एम० ई०) के पद पर कार्यकारी सी० एच० ई० आर० ए० (अस्थायी) 051727 एन० अनथोनी सामी जेवियर (85085 जेड०), 1-10-81।

कार्यकारी सब-लेफ्टि० (एम० डी० ए० वी०) के पद पर पी० ओ० ए० (ए० एच०) 090679 आर० दर्शन सिंह (84601 जेड०), और पी० ओ० ए० (मेट) 083824-के० शंकर सिंह यादव (84602 ए०), 1-10-81।

कार्य० सब-लेफ्टि० (एस० डी० एम० डब्ल्यू०) के पद पर एम० सी० एस० डब्ल्यू० ए० II 051359 ए० बक-लायिल थोमस जोसेफ (86898-डब्ल्यू०) और एस० डब्ल्यू० ए० II 092727 डब्ल्यू० पम्पापति (86347 टी०), 1-10-81।

कार्य० सब-लेफ्टिनेट (एस० डी० पी०) के पद पर

एम० सी० ई० ए० पी० II (180138-आई०) गोपाल दास सचदेवा (86874-आर०), और ई० ए० पी० II (094017-ए०) रणजीत सिंह (86875-टी०), 1-10-81।

कार्य० सब-लेफ्टिनेट (ए० डी० आर०) के पद पर

एम० ई० सी० एच० (आर०) III 057065 डब्ल्यू० बलदेव सिंह नारंग (87572-ए०), 1-10-81।

कार्य० सब-लेफ्टि० (एस० डी० ए० आर०) के पद पर

सी० एच० ई० ए० ए० आर० 051763 डब्ल्यू० पुथन पुरावित थॉमस जॉन (88317-डब्ल्यू०), 1-10-81।

कार्य० सब-लेफ्टिनेट (एस० डी० एस०) के पद पर

एस० पी० ओ० 082077 आर० जगदीश मिस्त्र (88566-के०) और एम० पी० ओ० 068427 टी० जगदीश प्रसाद 88567 एन, 1-10-81।

कार्य० सब-लेफ्टि० (एस० डी० डब्ल्यू०) के पद पर

पेटी अफसर राइटर 069830 एफ० बंगामुषु चन्द्रसेकरम (89065-डब्ल्यू०) और पेटी अफसर राइटर 058616 डब्ल्यू० रामधानी सिंह (89066-आई०), 1-10-81।

कार्य० सब-लेफ्टि० (एस० डी० सी० ए०)

पेटी अफसर एस० टी० डी० 084373 एच० गुरचरण सिंह 89511-एच०), 1-10-81।

कार्य० सब-लेफ्टि० (एस० डी० एम०)

पी० ओ० एम० ए० एस० डी० आई० 059172 एच० कशमीर सिंह (89740-बी०), 1-10-81, नौ० आ० 32/87 देखें।

स्थायी कर्मचारी

इंजीनियरिंग ब्रांच

मिडशिपमैन की कार्यकारी सब-लेफ्टिनेट के पद पर

रवि शंकर मिन्हा (40927-आर०), करमचन्द मिश्रा (40928-टी०), नटराज बालाजी (40929-डब्ल्यू०) अजन दास (40930-आई०) कोम्मना सूर्यनारायण (40931-जेड०), परमेश बी० (40932-ए०), मुनील सरिन (40933-बी०) और राजीव लाठ (40934-एफ०), 1-1-82 नौसेना विनियमावली भाग III सांविधिक का विनियम 123 देखें।

इलेक्ट्रिकल ब्रांच

मिडशिपमैन की कार्यकारी सब-लेफ्टि० के पद पर

राजेश श्रीवास्तव (50770-के०), मनोज क्वात्रा (50771-एन०), विश्वजीत सेन (50772-आर०), स्टेनले वर्गीज डेनियन (50773-टी०), सुखदेव कुमार (50774-डब्ल्यू०), सुनील हत शर्मा (50775-आई०), सुधाकर शर्मा (50776-जेड०), और बिमल कुमार नागपाल (50777-ए०), 1-1-82 नौसेना विनियमावली भाग III सांविधिक का विनियम 125 देखें।

इलेक्ट्रिकल ब्रांच

(सी० डब्ल्यू० योजना)

मिडशिपमैन की कार्यकारी सब लेफ्टि० के पद पर

एम० आर० रामचन्द्रन (50778-बी०) और कशमीर सिंह (50779-एफ०) 1-1-82, रक्षा मंत्रालय पत्र एम० पी०/0314/एन० एच० ब्यू०/2996/डी० (एन-II) तारीख 23-5-78 और नौसेना विनियमावली भाग III सांविधिक का विनियम 125 देखें।

टी० आर० मेहता,
उप निदेशक कामिक
(जे० ओ० ए० एण्ड आर०)

स० 1625 तारीख 21 जून, 1982—राष्ट्रपति श्री बी० के० परमार, बरिष्ठ डिजाइन अधिकारी ग्रेड I (इंजी-नियरिंग) को 01 जून, 82 से स्थानापन्न प्रिंसिपल डिजाइन अधिकारी (इंजीनियरिंग) नियुक्त करते हैं।

वह दो वर्ष के लिये परबार्धीन रहेंगे।

एम० सी० जुनेजा,
अवर सचिव

स० 1626 तारीख 13 मई, 1982—राष्ट्रपति नौसेना विनियमावली भाग III सांविधिक के विनियम 125 के

अन्तर्गत भारतीय नौसेना की इन्जिनियरिंग ब्रांच में निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नौसेना ब्रांच
स्थायी कमीशन

सब लेफिटेन्ट की लेफिटेन्ट के पद पर

नाम, निजी संख्या	पदोन्नति की तारीख	वरिष्ठता की तारीख (केवल पदोन्नति के लिये)
पी० एन० आर० शर्मा (50590 ए०),	25-1-80	16-7-79
आर० डी० आंगले (50588 आई०)	15-2-80	16-8-79
बी० के० देवधाम (50587 डब्ल्यू०)	25-1-80	01-8-79
एल० आर० राजगोपाल (50584-एन०)	27-1-80	01-7-79
ए० पी० एन० राव (50585-आर०)	25-1-80	16-8-79
एस० बी० के० पी० मुशील कुमार (50586-टी०)	16-2-80	—

सं० 1627 तारीख 14 मई, 1982—राष्ट्रपति नौसेना विनियमावली भाग III सांविधिक के विनियम 124 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की इंजीनियरी ब्रांच में निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नौसेना ब्रांच
स्थायी कमीशन

सब लेफिटेन्ट की लेफिटेन्ट के पद पर

नाम	निजी संख्या	लेफिटेन्ट के पद पर पदोन्नति की तारीख वरिष्ठता की तारीख (केवल पदोन्नति के लिये) सहित
वी० पोणार	(40699-आई०)	26-12-80
		01-01-80
आर० बालामुन्नामणियम	(40701-ए०)	26-12-80
		16-5-80
आर० के० शर्मा	(40702-बी०)	26-12-80
		01-08-80
आर० के० मिह	(40700-जैड०)	20-02-81
		01-12-80

सं० 1628 तारीख 11 मई, 1982—राष्ट्रपति नौसेना विनियमावली भाग III सांविधिक के विनियम 121 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की इन्जिनियरिंग ब्रांच में निम्नलिखित पदोन्नतियां उनके नामों के सामने दी गई तारीखों से करते हैं :—

नौसेना ब्रांच

स्थायी कमीशन

कार्य० सब लेफिटेन्ट की सब लेफिटेन्ट के पद पर

नाम	निजी संख्या	पदोन्नति की तारीख	वरिष्ठता की तारीख (केवल पदोन्नति के लिये)
के० एस० जुन्दावत (01997-एन)	18-10-80	01-7-79	
पी० के० मिश्रा (02063-एन०)	15-08-81	01-1-80	
वी० जार्ज (01909-एन०)	27-12-81	01-7-78	

सं० 1629 तारीख 17 मई, 1982—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

भारतीय नौसेना

स्थायी कमीशन

इन्जिनियरिंग ब्रांच

सब लेफिटेन्ट की लेफिटेन्ट के पद पर

एम० ए० शर्मा (01908-के०), 1-6-81 से, ए० के० कान्त (01983 एफ०), 22-10-81 से 16-7-81 की वरिष्ठता (केवल पदोन्नति के लिये) सहित, तथा एस० सैमुअल (01974 के०), 16-12-81 से, नौसेना विनियमावली भाग III सांविधिक का विनियम 121 देखें।

एस० रूपेरी (02024 जैड०), टी० पी० परियान (02030 एन०), आर० एस० एस० मुन्नामणियम (02040 के०), एस० के० गंजु (02001 आई०), विनित वासन (02033 डब्ल्यू०) तथा आर० के० मल्हन (02017 एच०) 1-11-81 से, बी० एस० शा (02005 एफ०), सी० आई० रोबर्ट्स (02023 आई०) के० एस० सी० अय्यप्पा (02034 आई०), बी० रामकुमार (02037 बी०), जे० पी० पटनायक (02021 टी०) तथा आर० एम० चक्रवर्ती (02000 डब्ल्यू०), 16-11-81 से नौसेना विनियमावली भाग III सांविधिक का विनियम 121 देखें।

जे० जे० पुथूर (02074-एन०), पी० पी० सिंह (02078-आई०), बी० के० वर्मा (02093-एफ०), एस० अग्रवाल (02046 जैड०), आर० के० नगालिया (02065-टी०), एस० जेतली (02054 टी०), ए० सी० अय्यर (02037 के०), सुनील तन्दा (02070-बी०) और डी० एस० कानन (02049 एफ०), 1-1-82, एस० पंडित (02075 आर०) और के० एम० नायर (02068 जैड०), 16-1-82, आर० करसोलिया (02080-एफ०) और राजीव शर्मा (02080-ए०), 1-2-82, नौसेना विनियमावली भाग III सांविधिक का विनियम 121 देखें।

सी० पी० श्री० कुट्टन (02009-आ०) तथा एस० टी० गैमुथन (02027-एफ०) 1-2-82, पी० सी० आचार्य (01992-ए०), 16-2-82 में, नौमता विनियमावली भाग III सांविधिक का विनियम 121 तथा नौमता आदेश 56/80 देखें।

इंजैक्टिव ब्रांच

(नौमता विमानन)

सब-लेफ्टिनेंट की लेफ्टि० के पद पर

जी० एस० रत (01970-ए०), 16-6-81 और एस० के० मिश्र (02012-वाई०), 16-11-81 नौमता विनियमावली भाग III सांविधिक का विनियम 121 और नौमता आदेश 56/80 देखें।

इलेक्ट्रिकल ब्रांच

कार्य० सब लेफ्टि० का सब लेफ्टि० के पद पर

एस० एस० गरेवाल (50655 जैड०), 22-2-81 से, 13-1-81 की वरिष्ठता (केवल पदोन्नति के लिये), सहित, नौमता विनियमावली भाग III सांविधिक का विनियम 162 देखें।

सब लेफ्टि० का लेफ्टि० के पद पर

सी० एस० गरेवाल (50655 जैड०), 23-2-71 से 13-9-79 की वरिष्ठता (केवल पदोन्नति के लिये) सहित, नौमता विनियमावली भाग III सांविधिक का विनियम 162 देखें।

इंजैक्टिव ब्रांच

कार्यकारी सब लेफ्टि० का सब लेफ्टि० के पद पर

सुरेश बाबू मधावन (01959-ए०), 25-6-81, (केवल पदोन्नति के लिये) 1-1-79 का और (वेतन के लिये) 1-1-80 की वरिष्ठता के साथ श्री० डी० जॉन (01956-डब्ल्यू०), 1-7-81, 1-1-79 की वरिष्ठता (केवल पदोन्नति के लिये) सहित; नौमता विनियमावली भाग III सांविधिक का विनियम 121 तथा रक्षा मंत्रालय का 02 जून 61 का पत्र श्री० एफ०/2744/57/एन० एच० व्यू०/4015/डी० (एन०-II) देखें।

मिडिलेरीमेंट की कार्य० सब लेफ्टि० के पद पर

राजेन्द्र अग्रवाल (02256 ए०), परेश कुमार भट्टाचार्य (02257 बी०), प्रीतम सिंह बुगालिया (02258 एफ०), मनाश कुमार बजाज (02259 एच०), त्रिलोचन सिंह भाटिया (02260 के.), रमेश बालाचन्द्र (02261 एन०), जयपाल सिंह बेनियाल (02262 आ०), देवेन्द्र भटनागर (02263 टी०) जोगिन्दर पाल छिन्साया (02264 डब्ल्यू०), वी०वी० एस० दत्त (02265 वाई०), पंकज गुप्ता (02266 जैड०), एस० पी० जॉन्स (02267 ए०), वलवीर सिंह कुंदल (02268 बी), अनिल लाम्बा (02269 एफ०), विगोम बेंकटा मरन बाबू (02270 एच०), बेप्री मैथ्यूज (02271 के०), सरेश माथुर (02272 एन०), कुमार हरेन्द्र नारायण (02273 आ०), राधा बालादेवन गिरांग नायर (02274 टी०), पी० अजीत कुमार (02275 डब्ल्यू०), प्रतप पायस्य (02276 वाई०), ज्योति कुमार शर्मा (02277 जैड०), टी० रामाकृष्णन (02278 ए०), अरविन्द कुमार राठी
4-164 GI/82

(02279 बी०), आर० विजय कुमार (02280 एफ०), अरविन्द कुमार राय शर्मा (02281 एच०), हरजीत सिंह (02282 के०), अरविन्द सिंह (02283 एन०), राज कमल श्रीवास्तव (02284 आ०), शक्ति देव सिंह (02285 टी०), प्रदीप कुमार शर्मा (02286 डब्ल्यू०), मिथ्या सिंह (02287 वाई०), प्रकाश कुमार मिन्हा (02288 जैड०), नरिन्द्र सिंह (02289 ए०), अभितवा समल (02290 बी०), रविन्द्र सिंह (02291 एफ०), लोकेश शिशवरत उत्तखर (02292 एच०), अनूप वर्मा (02293 के०), तथा ए० अनन्यानारायणन (02294 एन०) 1-7-81 में, नौमता विनियमावली भाग III सांविधिक का विनियम 121 देखें।

इंजैक्टिव ब्रांच

(नौमता विमानन)

कार्य० सब लेफ्टिनेंट का सब लेफ्टिनेंट के पद पर

प्रवेश शर्मा (02170 एफ०), एस० एस० शर्मा (02171 एच०) तथा ए० के० मिन्हा (02172 के०), 1-7-81 से 1-7-80 का वरिष्ठता (केवल पदोन्नति के लिये), सहित, नौमता आदेश 56/80 देखें।

टी० के० चौधरी (02174-आ०), 21-11-81 से 21-11-80 का वरिष्ठता (केवल पदोन्नति के लिये) सहित (नौमता आदेश 56/80 देखें)।

के० राजेन्द्र (02175 टी०), श्री० एस० मिहोटा (02176 डब्ल्यू०), के० रंगाराजन (02177 वाई०), जी० एम० गोपाकुमार (02178 जैड०), आर० दत्ता (02179 ए०), तथा आर० के० गुप्ता (02181 एफ०), 1-1-82 से 1-1-81 की वरिष्ठता (केवल पदोन्नति के लिये) सहित, नौमता आदेश 56/80 देखें।

टी० आर० मेहता

उप निदेशक, कार्मिक जे ओ ए एण्ड आर

मं० 1630 तारीख 2 जुलाई, 1982—श्री वी० डी० सूजा, म्याई कार्यालय अधीनक ग्रेड I स्थानापन्न सिविलियन राजपत्रित अधिकारी 31 मई, 1982 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए।

जय विगत गोदरा,

अवर सचिव

(वायु सेना)

मं० 1631 तारीख 21 जून, 1982—अप्टरपति निम्न-लिखित पदोन्नति करते हैं:—

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक) शाखा

पनाइंग अफसर, पनाइंट लेफ्टिनेंट के मूल रूप से

ए० वी० कुमार (14632)—15 मिनस्वर, 1981।

जे० मित्तल,

सहा० निदेशक का अ० 3 (एफ०)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 24th July 1982

No. 1585, dated 31st May 1982.—The President is pleased to appoint Shri K S Rao, IAS (AM : 63), on transfer from the Department of Industrial Development, as Jt Secy in the Min of Def wef 29th May 1982 (FN).

No. 1586, dated 21st June 1982.—The President is pleased to appoint Shri V Srikantan, IA&AS on transfer from the Min of Def as Counsellor (Coord), Embassy of India, Moscow, wef 1st June 1982, (FN).

No. 1587, dated 3rd June 1982.—The President is pleased to appoint Shri V Srikantan, IA&AS on transfer from the Office of the Comptroller and Auditor General of India, as Director in the Min of Def wef the afternoon of 31st May 1982.

No. 1588, dated 2nd June 1982.—The President is pleased to appoint Shri A. D. Mukerjee, formerly Parliamentary Interpreter in the Lok Sabha Secretariat, as Private Secretary to the Up Raksha Mantri wef 28th May, 1982 (FN) till the Minister demits office or until further orders, whichever is earlier.

No. 1589, dated 5th June 1982.—The President is pleased to appoint Shri R. N. Mehta, a Selection Grade 'C' Stenographer of CSS, Min of Def Cadre to a temporary vacancy in Grade 'B' of the Service on ad-hoc basis in the Ministry for a period from 5th June 1982 to 20th July 1982 or till a regular officer is available, whichever is earlier.

No. 1590, dated 3rd June 1982.—On expiry of his extended tenure, the services of Shri B. K. Mukherjee, IA & AS, Dy Secy Min of Def are placed at the disposal of the Office of the Comptroller & Auditor General of India wef 31st May, 1982 (AN).

No. 1591, dated 2nd June 1982.—In supersession of this Ministry's Gazette Notn No. 732, dated the 24th Feb 1982, the President is pleased to re-place the services of Shri R. Desikan, Private Secretary to the former Raksha Rajya Mantri, Min of Def at the disposal of the Ministry of Commerce wef 1st Feb 1982 (FN).

No. 1592, dated 3rd June 1982.—The President is pleased to permit Shri Shaukatullah Khan, Under Secy, Min of Def, to retire from Government service on attaining the age of superannuation wef 31st May 1982 (AN).

L N MEHTA, Under Secy.

MUKHYA PRASHASAN ADHIKARI KA KARYALAYA

No. 1593, dated 26th May, 1982.—The President is pleased to appoint the undermentioned pmt Asssts/offg Asstt C S O to the grade of Asstt C S O (Group 'B'-Gazetted) in a substantive capacity, in the Armed Forces Headquarters Civil Service wef the dates shown against their names :—

S. No.	Name	HQ/Office where employed	Date from which appointed in substantive capacity
1	2	3	4
1.	Shri K. K. Sharma	Army HQ	7-3-81
2.	Shri S. M. Gupta (Retired from service w. e. f. 30-6-81/AN)	DGI	7-3-81
3.	Shri B K. Sharma	Army HQ	7-3-81
4.	Shri G. S. Saraf	DGI	2-5-81
5.	Shri Deepak Mazumdar	Army HQ	2-5-81
6.	Shri S. L. Nagar	Naval HQ	2-5-81
7.	Shri R. S. Gupta	R&D	2-5-81
8.	Shri Sushil Kumar	Army HQ	2-5-81
9.	Shri M. M. Wadhawan (Retired from service w.e.f. 30-9-81/AN)	Air HQ	2-5-81
10.	Shri M. S. Wohra (Retired from service w.e.f. 31-10-81/AN)	Army HQ	2-5-81
11.	Shri N. N. Mitra	Naval HQ	2-5-81
12.	Shri G. R. S. Yadav	Army HQ	2-5-81
13.	Shri H. R. Kuba (Retired from service w. e. f. 28-2-82/AN)	Air HQ	2-5-81
14.	Shri K. C. Rishi (Retired from service w. e. f. 30-11-81/AN)	DGI	2-5-81
15.	Shri John Peter	Naval HQ	2-5-81
16.	Shri Balmukand II	Air HQ	2-5-81
17.	Shri Krishan Sahai (Retired from service w. e. f. 31-3-82/AN)	Army HQ	2-5-81
18.	Shri V. P. Basra	Army HQ	2-5-81
19.	Shri D. N. Bassi	Do.	2-5-81
20.	Shri S. P. Karkara	Do.	2-5-81
21.	Shri N. L. Sharma (Retired from service w. e. f. 31-5-81/AN)	Do.	2-5-81
22.	Shri K. B. Sounderrajan	Naval HQ	2-5-81
23.	Shri R. B. Kapoor (Retired from service w.e.f. 30-6-81/AN)	Air HQ	1-6-81
24.	Shri P. D. Nagar (Retired from service w. e. f. 31-7-81/AN)	Naval HQ	1-6-81

1	2	3	4
25.	Shri K. B. Lal (Retired from service w. c. f. 30-9-81/AN)	Army HQ	1-6-81
26.	Shri R. D. Gupta	DGI	2-6-81
27.	Shri K. S. Jayaraman	CAO	1-7-81
28.	Shri Sabhajit Singh	CAO	1-7-81
29.	Shri Gurdaş Ram	Army HQ	1-7-81
30.	Shri S. D. Sharma	Do.	1-7-81
31.	Shri Sarabjit Ansal	Do.	1-7-81
32.	Shri Amarjit Bhandari	Do.	1-7-81
33.	Shri R. B. Singh (Retired from service w. c. f. 31-1-82/AN)	Do.	1-7-81
34.	Shri K. Narasimhan	Do.	1-7-81
35.	Shri M. R. Gautam	Do.	1-7-81
36.	Shri Ravish Saran	Naval HQ	1-8-81
37.	Shri Bijai Singh (Retired from service w. c. f. 31-8-81/AN)	Air HQ	1-8-81
38.	Shri Shankar Saxena	Army HQ	1-8-81
39.	Shri P. N. Sharma (Retired from service w. c. f. 31-10-81/AN)	DGI	18-8-81
40.	Shri B. M. Prashar	Army HQ	18-8-81
41.	Shri R. K. Sharma	Do.	18-8-81
42.	Shri M. R. Sharma	Do.	18-8-81
43.	Shri Haridev Basdev	DGI	18-8-81
44.	Shri A. N. Singhal	Army HQ	18-8-81
45.	Shri Parkash Chand	Air HQ	22-8-81
46.	Shri M. P. Gupta	Army HQ	22-8-81
47.	Shri P. D. Sharma 1	Air Hqrs	22-8-81
48.	Shri Jagdish Parshad	Army Hqrs.	22-8-81
49.	Shri C. S. Nijhar	Air HQ	22-8-81
50.	Shri A. K. Malik	Army HQ	22-8-81
51.	Shri T. C. Sharma	Do.	22-8-81
52.	Shri T. R. Kohli	Do.	1-9-81
53.	Shri K. D. Sharma	Do.	1-9-81
54.	Shri T. C. Jain (Retired from service w. c. f. 31-12-81/AN)	Air Hqrs.	1-9-81
55.	Shri B. M. Sayal	DG NCC	1-9-81
56.	Shri R. Karuppiah	R&D	1-9-81
57.	Kim. K. D. Sarode (Retired from service w. c. f. 30-4-82/AN)	Air HQ	1-10-81
58.	Shri S. S. Sharma	Naval HQ	1-10-81
59.	Shri P. N. Bhutkar	Army Hqrs.	1-10-81
60.	Shri L. L. Duggal (Retired from service w. c. f. 30-4-82/AN)	Do.	1-10-81
61.	Shri B. D. Aggarwal	Do.	1-10-81
62.	Shri B. K. Gupta	DGI	3-10-81
63.	Shri U. K. Widhani	Army Hqrs.	3-10-81
64.	Shri M. S. Gupta	Air Hqrs.	3-10-81
65.	Shri V. K. Gupta	DGI	3-10-81
66.	Shri B. S. Nanda	Army Hqrs.	3-10-81
67.	Shri R. S. Chadda	Do.	3-10-81
68.	Shri S. P. Grover	CAO's Office	3-10-81
69.	Shri N. Kumaraswamy	DG NCC	3-10-81
70.	Shri S. N. Saraswat	Army Hqrs.	3-10-81
71.	Shri O. P. Aggarwal	Air Hqrs.	3-10-81
72.	Shri Subhash Chandra	DGI	3-10-81
73.	Shri K. K. Parkash	CAO's Office	3-10-81
74.	Shri L. R. Gupta	Army Hqrs.	3-10-81

1	2	3	4
75.	Shri M. S. Budhwal (Retired from service w.e.f. 30-11-81/AN)	Army HQrs.	3-10-81
76.	Shri M. L. Chhokra	DTD & (Air)	3-10-81
77.	Shri M. B. L. Saxena	R&D Orgn.	3-10-81
78.	Shri S. L. Ahluwalia	DGI	3-10-81
79.	Shri V. S. Chaturvedi	Naval HQrs.	3-10-81
80.	Shri D. C. Singhal	Do.	3-10-81
81.	Shri B. P. Misra	Army HQrs.	3-10-81
82.	Shri Gurnam Singh	DGI	3-12-81
83.	Shri K. C. Sharma (Retired from service w.e.f. 28-2-81/AN)	Army HQrs.	3-12-81
84.	Shri P. C. Bahti	Do.	3-12-81
85.	Shri Nand Lal	Do.	3-12-81
86.	Shri S. D. Dass	DG AFMS	3-12-81
87.	Shri R. D. Sharma (On deputation to C. G. HQ w.e.f. 14-7-80)	CAO's Office	3-12-81
88.	Shri R. N. Singhal	DGI	3-12-81
89.	Shri M. L. Kapoor	Army HQrs.	3-12-81
90.	Shri M. M. Singh (On deputation to C. G. HQ w.e.f. 12-8-80)	Do.	3-12-81
91.	Shri J. N. Sharma	Army HQrs.	3-12-81
92.	Shri Raghbir Singh (Retired from service w.e.f. 30-4-82)	DGI	3-12-81
93.	Shri R. K. D. Mangal	Army HQrs.	3-12-81
94.	Shri R. N. Satyarthi	Do.	3-12-81
95.	Shri Sarna Ram	Do.	3-12-81
96.	Shri Behari Lal	Naval HQ	3-12-81
97.	Shri Dharam Singh	DGI	3-12-81
98.	Shri G. S. Prasad	DGI	3-12-81
99.	Shri Ram Chander	Air HQ.	3-12-81
100.	Shri M. G. R. Gokhale	Army HQrs.	1-1-82
101.	Shri Mohan Lal	Do.	1-1-82
102.	Shri Hori Lal	Do.	1-1-82
103.	Shri G. S. Thind	SSCB	1-1-82
104.	Shri Jit Ram	Naval HQrs.	1-1-82
105.	Shri Anant Ram	CAO's office	1-1-82
106.	Shri Tulsi Ram	Do.	1-1-82
107.	Shri Dhup Singh	Army HQrs.	1-1-82
108.	Shri Baleshwar Prasad	DGNCC	4-1-82
109.	Shri Maha Singh	DGI	1-2-82
110.	Shri Piara Singh-II	Naval HQ.	1-2-82
111.	Shri Jai Lal	CAO's Office	1-2-82
112.	Shri Vijai Chaudhuri	Army HQrs.	1-2-82
113.	Shri Gopi Chand	Air H Qrs.	1-2-82
114.	Shri S. S. Megha	Army HQrs.	1-2-82
115.	Shri H. R. S. Kain	Do.	1-2-82
116.	Shri Karam Chand	Naval HQrs.	1-3-82
117.	Shri Mithoo Lal	Do.	1-3-82
118.	Shri Har Prasad	Army H Qrs.	1-3-82

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 1594, dated 19th June 1982.—The President is pleased to make the following appointments :—

Dr (Mrs) Amita Gupta to be tempy Scientist 'C' in Solid-state Physics Laboratory, Delhi on probn for a period of two years wef 1st Apr 1982 (FN).

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT SERVICE

Shri V Desikan, Scientist 'B' to be tempy Scientist 'C' in Aeronautical Development Establishment, Bangalore on probn for a period of two years wef 2nd Apr 1982 (FN).

Dr Rajeev Prakash to be tempy Scientist 'C' in Institute of Nuclear Medicine & Allied Sciences, Delhi on probn for a period of two years wef 8th Apr 1982 (FN).

No. 1595, dated 25th June 1982.—The President is pleased to make the following promotions :—

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT SERVICE

The undermentioned Scientist 'C' of Explosive Research & Development Laboratory, Pune to be offg Scientists 'D' in the same establishment wef the dates shown against their names :—

E R Wood—1st July 1981.

A B Bandyopadhyaya—6th July 1981.

R K Sayal—1st July 1981.

Shri S P Rawal, Pmt SSA, DESIDOC, Delhi to be Offg JSO in the same Estt—20th Jan 1982 (FN).

Shri U S Gujral, SSA, Dte of Combat Veh. R&D HQ New Delhi to be Offg JSO in the same Dte—17th Apr 1982 (FN).

Dr R K Khanna, SSA, SAG, R&D Organisation HQs, New Delhi to be Offg JSO in the same Estt—19th Jan 1982 (FN).

Shri M C Padakanya, Foreman, Electronics and Radar Development Establishment, Bangalore to be Offg JSO in the same Estt—19th Jan 1982 (FN).

Shri B V Ananda Rao, Foreman, Electronics and Radar Development Establishment, Bangalore to be Offg JSO in the same Estt—19th Jan 1982 (FN).

Shri B Nagaraja Rao, Foreman, Electronics and Radar Development Establishment, Bangalore to be Offg JSO in the same Estt—19th Jan 1982 (FN).

S S JAMWAL, Asstt Dir (Pers).

(DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION)

No. 1596, dated 26th June 1982.—The President is pleased to make the following appointment :—

Defence Quality Assurance Services

Dr Ramesh SAIGAL, Tempy SSO Gde II, Inspectorate of Armaments, Delhi Cantt to be Tempy SSO Gde I in Directorate of Inspection (Armaments) HQs, New Delhi, on probn for a period of two years wef 17th May 1982 (FN).

S GOPAL, Under Secy.

"NATIONAL CADET CORPS"

No. 1597, dated 30th June 1982.—The President is pleased to grant commission to the following :—

Senior Division (Army Wing)

To be 2/Lieuts

Assam

Niranjan TALUKDAR (NCC|18501), 1st Apr 1980.

Rajasthan

Vyayeshwar Narain SHARMA (NCC|17759), 14th Sep 1981.

Gujarat

Ranjitsinh Durlabhsinh THAKOR (NCC|15587), Vinayakray Shantlal RAYAL (NCC|15588) and Pravinchandria Magantai SHAH (NCC|15589), 15th Feb 1982.

Haryana

Ramesh Kumar GARG (NCC|10694), 15th Feb 1982.

Himachal Pradesh

Nitya Nand ANGIRAS (NCC|16512) and Prem Singh THAKOR (NCC|16513), 15th Feb 1982.

Karnataka

Ningamagouda Shivanagouda PATIL (NCC|14719), 18th Mar 1979.

Maharashtra

Arun Vamanrao JADHAV (NCC|16202), Prakash Motiram PATIL (NCC|16203), Kashinath Vishwanath BACHUTE (NCC|16204), Babu Jinnappa DESAI (NCC|16205), Kishor Deorao GAWANDE (NCC|16206), and Chhotelal Mansaram KAWALE (NCC|16208), 14th Sep 1981.

Punjab

Surinder Kumar (NCC|15117), 15th Feb 1982.

Tamil Nadu

Muthiah Vallinayagam (NCC|14371), 15th Feb 1982.

Uttar Pradesh

Jwala Prasad MISRA (NCC|17280), 15th Feb 1982.

West Bengal

Mohammad Shamsul Alam (NCC|3276) and Sankar SEN GUPTA (NCC|3277), 14th Sep 1981.

Asoke Kumar MISRA (NCC|3282), 20th Feb 1982.

Mrinal Karti GHOSH (NCC|3285), 15th Feb 1982.

Senior Division (Naval Wing)

To be Acting Sub Lts

Kerala

Rajagopalan Vayappurath (NCCN|16939) and Abdul Majeed Muthuvattusseri (NCCN|16940), 22nd June 1981.

Senior Division (Air Wing)

To be Plt Officers

Andhra Pradesh

Induri Subba Rao (NCCA|11208), Vuppala Sice Ramamurthy (NCCA|11210) and Kodimyalu Rajender (NCCA|11211), 10th Jan 1982.

Rajasthan

Durga Shankar PARMAR (NCCA|17762), 10th Jan 1982.

Uttar Pradesh

Rajendra Singh RAWAT (NCCA|17273) and Musaiyab Shamshad NAQVI (NCCA|17274), 10th Jan 1982.

No. 1598, dated 30th June 1982.—The President is pleased to make the following promotions :—

Junior Division (Army Wing)

First Officers to be Chief Officers

Assam

N K Devchoudhury (NCCJ|199), 17th Oct 1981.

Bihar

U N Singh (NCCJ|1410), 16th Jan 1981.

Delhi

K S Hooda (NCCJ|7805), 13th Mar 1982.

Himachal Pradesh

R C Sharma (NCCJ|23717), 1st Apr 1982.

Maharashtra

A V Chavan (NCCJ|81311), 17th Oct 1981.

Punjab

Swinder Singh (NCCJ|8126), 29th Jan 1982.

Tamil Nadu

T Vadiwelu (NCCJ|51361), July 1981.

*Second Officers to be First Officers**Assam*

Upendra Borkakaty (NCCJ|445), 1st Dec 1979.

S Thakuria (NCCJ|503), 16th Oct 1981.

B K Goswami (NCCJ|471), 8th Jan 1982.

Bihar

D L Mandal (NCCJ|1478), 14th Jan 1981.

R S Singh (NCCJ|1404) and R K Roy (NCCJ|1600), 4th June 1981.

Upendra Thakur (NCCJ|1551), 16th Oct 1981.

Kerala

P V Anthonyose (NCCJ|25614), 17th Mar 1980.

Madhya Pradesh

Y R Pardhi (NCCJ|5890), 18th Mar 1981.

V K Gadgil (NCCJ|5883), 8th Jan 1982.

Maharashtra

S A Bhalerao (NCCJ|81747), 21st Dec 1981.

P Pande (NCCJ|81751), 8th Jan 1982.

Punjab

Mehnga Singh (NCCJ|8178), 30th Aug 1978.

*Third Officers to be Second Officers**Andhra Pradesh*

S V Rao (NCCJ|41711), 15th Oct 1981.

S B Rao (NCCJ|41745), 25th Jan 1982.

Assam

D B Das (NCCJ|582), 29th July 1978.

R M Deka (NCCJ|576), 21st Feb 1979.

R N Deka (NCCJ|573), 1st Apr 1979.

B S Mishra (NCCJ|602), 1st Mar 1981.

Bihar

Kuber Lal (NCCJ|1776), 12th Nov 1981.

Gujarat

V M Panchal (NCCJ|35629), 1st Apr 1982.

M J Patel (NCCJ|35591), 15th Oct 1981.

H H Trivedi (NCCJ|35637), 15th Apr 1982.

Haryana

R R Chaudhary (NCCJ|8579), 23rd Oct 1981.

Karnataka

K R Joshi (NCCJ|65041), 20th Mar 1982.

Kerala

M R Nadar (NCCJ|25797) and J R Raj (NCCJ|25798), 12th Nov 1981.

P V Sivaramakrishnan (NCCJ|25810), 1st Apr 1982.

Madhya Pradesh

A K Gite (NCCJ|6222), 30th Mar 1982.

S C Sharma (NCCJ|6273), 3rd Apr 1982.

Maharashtra

D M Mehra (NCCJ|81883), 15th Feb 1982.

I. P. Mitragotri (NCCJ|81864), 15th Jan 1982.

S R Ali (NCCJ|81867), 25th Jan 1982.

A B Patil (NCCJ|81890), M N Kulkarni (NCCJ|81909), D N Kaundade (NCCJ|81910), D T Mahajan (NCCJ|81911) and G N Maheshwari (NCCJ|81912), 1st Apr 1982.

Punjab

Devinder Lal (NCCJ|8557), 15th Oct 1981.

Tamil Nadu

T Padmanabhan (NCCJ|52234) and R S M Raj (NCCJ|52235), 1st Apr 1982.

O Natarajan (NCCJ|52255), 1st Mar 1982.

Uttar Pradesh

R P Shukla (NCCJ|13762), 11th May 1979.

K D Rai (NCCJ|13637), 15th Oct 1981.

Rajendra Singh (NCCJ|13653), 7th Jan 1982.

Daya Nand (NCCJ|13668), 7th Feb 1982.

*Junior Division (Naval Wing)**First Officers to be Chief Officers**Assam*

S Gogoi (NCCJN|279), 7th June 1979.

D C Baruah (NCCJN|273), 7th June 1981.

*Second Officer to be First Officer**Assam*

S M Sarna (NCCJN|449), 10th June 1979.

P C Lahkar (NCCJN|498), 8th June 1980.

J Ghosh (NCCJN|499), 7th June 1981.

Karnataka

H N Rao (NCCJN|23541) and H U Shetty (NCCJN|23542), 8th July 1981.

*Third Officers to be Second Officers**Assam*

B C Barman (NCCJN|557), 6th July 1978.

Uttar Pradesh

K D Tewari (NCCJN|13573), 10th July 1978.

*Junior Division (Air Wing)**Second Officers to be First Officer**Assam*

N Borpatragohain (NCCJA|486), 8th June 1978.

*Third Officers to be Second Officers**Haryana*

A P Singh (NCCJA|8551), 14th Feb 1982.

Tamil Nadu

S Paulraj (NCCJA|52270), 25th Mar 1982.

*Junior Division (Army Wing)**First Officers to be Chief Officers**Andhra Pradesh*

B P Rao (NCCJ|41394), 13th Mar 1982.

Assam

B K Das (NCCJ|473), 1st May 1981.

Bihar

Janardan Tiwari (NCCJ|1407) and D P Singh (NCCJ|1423), 17th Oct 1981.

Kerala

K P Pillai (NCCJ|25425), 24th Jan 1982.

Madhya Pradesh

M P Garg (NCCJ|5612) and B D Dhanwani (NCCJ|5613), 1st Jan 1982.

V D Tiwari (NCCJ|5594), 13th Mar 1982.

Gujarat

R R Pandya (NCCJ|35252), 13th Mar 1982.

B N Rabari (NCCJ|35242) and N R Umat (NCCT|35247), 14th Mar 1982.

Maharashtra

P J Patil (NCCJ|81344), 9th Jan 1982.

Manipur

A B Singh (NCCJ|25791), M B Singh (NCCT|25776) and A R Sharma (NCCJ|25771), 17th Oct 1981.

L B Singh (NCCJ|25798), and S I Singh (NCCT|25805), 9th Jan 1982.

K B Singh (NCCT|25802), 14th Mar 1982.

Tamil Nadu

V Muthuraman (NCCJ|51375), 9th Jan 1982.

P Lakshmanan (NCCJ|51439), P Govindaraju (NCCJ|51452) and A C Pillai (NCCJ|51454), 24th Jan 1982.

M K Kannabiran (NCCJ|51405), 4th Mar 1982.

Uttar Pradesh

R C Verma (NCCJ|13298), 24th Jan 1982.

West Bengal

Udhoji Rai (NCCJ|14576), N C Samaddar (NCCJ|14605), D D Gupta (NCCJ|14666) and A Bagehi (NCCJ|14759), 16th Jan 1981.

S Mahanta (NCCT|14962) and R S Babu (NCCJ|14898), 1st Apr 1981.

P Mukherjee (NCCJ|14963), 2nd Mar 1982.

Tripura

P B Roy (NCCJ|25537) and B B Debnath (NCCJ|25556), 9th Jan 1982.

Second Officers to be First Officers

Andhra Pradesh

N V Reddy (NCCJ|41527), 8th Jan 1982.

Bihar

Rangesh Prasad (NCCT|1607), 6th Sep 1980.

K K Gupta (NCCJ|1641) and Badi Prasad (NCCJ|1669), 16th Oct 1981.

Haryana

Shashi Kant (NCCJ|8311), 16th Oct 1981.

Karnataka

A S Gurusimha (NCCJ|23554), 21st Dec 1981.

M A Khader (NCCJ|23557), 23rd Feb 1982.

Kerala

V K Mathai (NCCJ|25589), 16th Oct 1981.

Gujarat

N K Bariaya (NCCJ|35520), 16th Oct 1981.

B K Thacker (NCCJ|35497), 8th Jan 1982.

Madhya Pradesh

M L Malviya (NCCJ|5779), 16th Oct 1981.

R K Tapkir (NCCT|5960), 9th Dec 1981.

N P Tiwari (NCCJ|5911), 8th Jan 1982.

M I Khan (NCCJ|5962), 1st Feb 1982.

Maharashtra

M Z Bodhe (NCCJ|81647), 16th Oct 1981.

J Y Pujari (NCCT|81727), 9th Nov 1981.

Orissa

B N Srivastava (NCCJ|61456), 1st Jan 1982.

Pondicherry

G Sarnagapani (NCCJ|51953), 31st Jan 1982.

Tamil Nadu

T Venkateswarlu (NCCJ|51925), 16th Oct 1981.

A M S Singh (NCCJ|51937), 9th Nov 1981.

S Gopalan (NCCJ|51959), 4th Jan 1982.

J Thomas (NCCJ|51939) and P Jeyarajupandian (NCCJ|51941), 8th Jan 1982.

Uttar Pradesh

K D Yadav (NCCJ|13455), 16th Oct 1981.

West Bengal

B K Gupta (NCCJ|14843), A K Patra (NCCJ|14906) and B B Banerjee (NCCT|15077), 5th Dec 1980.

Third Officers to be Second Officers

Andhra Pradesh

K Sarananadam (NCCJ|41693), 1st July 1980.

C A Swamy (NCCJ|41695), 18th Jan 1981.

K Satyanarayana (NCCJ|41719) and B J Rao (NCCJ|41725), 15th Oct 1981.

A M Rao (NCCT|41663) and K Suriprasad (NCCJ|41717), 7th Jan 1982.

P Thavainiah (NCCJ|41560), 8th Jan 1982.

K R Rao (NCCJ|41720), 22nd Feb 1982.

B N Rao (NCCJ|41742) and P C S Reddy (NCCJ|41743), 25th Jan 1982.

Assam

M N Choudhury (NCCJ|592), 15th Mar 1981.

M S Ali (NCCJ|606), 1st Apr 1981.

S N Sharma (NCCJ|599), 12th Nov 1981.

Bihar

G L Das (NCCT|1749), 3rd Sep 1980.

B K Mishra (NCCJ|1730), 15th Mar 1981.

M R Ahmed 'Zeya' (NCCJ|1743), 3rd June 1981.

S N P Singh (NCCJ|1801), 1st Jan 1982.

M B P Sinha (NCCJ|1760), 7th Jan 1982.

Karnataka

D M Naik (NCCT|65007), 15th Oct 1981.

P D Fulanekar (NCCJ|65051), 7th Jan 1982.

G P Chalwadi (NCCT|65045), 6th Mar 1982.

Kerala

P M S Narayanan (NCCJ|25763), 15th Mar 1981.

V Balakrishnan (NCCJ|25778) and K M Sydhic (NCCJ|25782), 1st Sep 1981.

Jacob Mathew (NCCJ|25772), 15th Oct 1981.

G Cyriac (NCCJ|25816), G S Nair (NCCJ|25822) and K A Thomas (NCCJ|25826), 18th Mar 1982.

Madhya Pradesh

S C Garg (NCCJ|6116), 5th Dec 1981.

S S Chauhan (NCCJ|6134), 28th Dec 1981.

B P Dwivedi (NCCJ|6094), 7th Jan 1982.

R C Sharma (NCCJ|6181), 11th Jan 1982.

S K Tiwari (NCCJ|6221), 31st Jan 1982.

Gujarat

J K Datta (NCCJ|35596), 15th Oct 1981.

Maharashtra

T S Shinde (NCCT|82018), 16th Sep 1978.

V J Swami (NCCT|81924), 25th Jan 1982.

D P Urkudkar (NCCT|81879), S K Topare (NCCJ|81906) and R R Pali (NCCT|81880), 14th Feb 1982.

S B Patil (NCCJ|81861), 7th Mar 1982.

K D Bhatia (NCCJ|81869), J Y Jadhav (NCCJ|81870), B C Mulla (NCCJ|81876), B G Wadkar (NCCJ|81888), S K Gurjar (NCCJ|81908) and J Y Mulia (NCCJ|81877), 16th Mar 1982.

Manipur

M L Singh (NCCJ|597), 3rd June 1981.
N R Singh (NCCJ|25816), 15th Oct 1981.

Orissa

G S Pattnaik (NCCJ|61546), 15th Oct 1981.

Punjab

Charanjit Singh (NCCJ|8571), 3rd June 1981.
S S Balia (NCCJ|8589), 29th Mar 1982.

Rajasthan

J S Jaitawat (NCCJ|31570), 15th Oct 1981.
O P Vyas (NCCJ|31583), 7th Jan 1982.

Tamil Nadu

E Loganathan (NCCJ|52218), 2nd June 1981.
C Subramanian (NCCJ|52205), 8th Sep 1981.
C Thanga'harai (NCCJ|52160), M R Selvaraj (NCCJ|52190) and A Jayaraman (NCCJ|52203), 15th Oct 1981.
K Pichaikannu (NCCJ|52228), 4th Jan 1982.
V Rajarathinam (NCCJ|52237), 15th Feb 1982.
R Srinivasan (NCCJ|52254), 16th Feb 1982.
R Velu (NCCJ|52240), 18th Mar 1982.

Uttar Pradesh

J C Phuloria (NCCJ|13650), 9th July 1981.
M P Tyagi (NCCJ|13638), 15th Oct 1981.
A R Tailong (NCCJ|13662), 12th Nov 1981.
R I Tiwari (NCCJ|13684), 7th Jan 1982.

*Junior Division (Naval Wing)**Second Officers to be First Officers**Bihar*

Baldeo Ram (NCCJN|1439) and A P Beck (NCCJN|1634), 7th June 1981.

Rajasthan

G S Solanki (NCCJN|31509), 29th Sep 1981.

*Third Officers to be Second Officers**Madhya Pradesh*

B B S Pathania (NCCJN|6132), 4th Jan 1982.

*Junior Division (Air Wing)**Second Officer to be First Officer**Karnataka*

K N Ananda (NCCJA|23488), 14th Feb 1982.

*Third Officer to be Second Officer**Tamil Nadu*

K Radhakrishnan (NCCJA|52171), 14th Feb 1982.

No. 1599, dated 30th June 1982.—The President is pleased to accept the resignation of the following officers wef 23rd Mar 1982. The period shown in brackets against their names shall not be counted for purposes of seniority or promotion or any other benefits in the NCC :—

*Junior Division (Army Wing)**Assam*

F/O A S Gupta (NCCJ|218) (4th Dec 1978 to 22nd Mar 1982).

S/O M Saikia (NCCJ|203) (1st Oct 1979 to 22nd Mar 1982).

Himachal Pradesh

F/O I D Sharma (NCCJ|23544) (4th Oct 1981 to 22nd Mar 1982).

Madhya Pradesh

S/O M Singh (NCCJ|5872) (1st Dec 1981 to 22nd Mar 1982).

T/O K M Tiwari (NCCJ|6196) (22nd Feb 1982 to 22nd Mar 1982).

Tamil Nadu

S/O T Yesiah (NCCJ|51979) (1st June 1981 to 22nd Mar 1982).

F/O P S Rajasekaran (NCCJ|51664) (1st July 1981 to 22nd Mar 1982).

T/O M S Mani (NCCJ|52243) (1st July 1981 to 22nd Mar 1982).

T/O R Shanmugam (NCCJ|52321) (14th Aug 1981 to 22nd Mar 1982).

*Junior Division (Air Wing)**Tamil Nadu*

F/O G Kalyanaraman (NCCJA|51748) (1st Nov 1981 to 22nd Mar 1982).

S/O M E K Chandrasekaran (NCCJA|52047) (1st Feb 1982 to 22nd Mar 1982).

No. 1600, dated 30th June 1982.—The President is pleased to discharge the following officers from the NCC wef the dates shown against their names :—

*Junior Division (Army Wing)**Assam*

T/O S T C Borthakur (NCCJ|578), 1st May 1978.

F/O P R Talukdar (NCCJ|357), 1st Mar 1979.

F/O B Sarma (NCCJ|254), 26th Aug 1979.

C/O K C Baruah (NCCJ|60), 21st Apr 1980.

Delhi

S/O K D Sharma (NCCJ|7798), 25th Dec 1980.

S/O N N Sharma (NCCJ|6278), 7th July 1981.

F/O S B Sharma (NCCJ|7827), 1st Oct 1981.

Haryana

S/O O P Arya (NCCJ|8198), 15th Feb 1977.

Kerala

F/O B B Panicker (NCCJ|25325), 12th Feb 1981.

C/O R Venugopalan (NCCJ|25174), 9th July 1981.

F/O K Padmanabhan (NCCJ|25417), 1st Dec 1981.

C/O C V B Nair (NCCJ|25287), 1st Jan 1982.

Madhya Pradesh

C/O K N Dubey (NCCJ|5335), 1st Jan 1982.

Maharashtra

S/O N V Kulkarni (NCCJ|81105), 27th June 1968.

S/O S K Pol (NCCJ|81650), 13th Apr 1981.

C/O N T Bhor (NCCJ|81066), 16th Nov 1981.

C/O T S Awandkar (NCCJ|81193), 13th Dec 1981.

S/O D D Urade (NCCJ|81552), 14th Dec 1981.

C/O P B Upase (NCCJ|81226), F/O D M Shelke (NCCJ|81228), C/O S R Patil (NCCJ|81300) and F/O M K Joshi (NCCJ|81554), 1st Jan 1982.

Orissa

T/O P K Nanda (NCCJ|61441), 27th Aug 1975.

Rajasthan

T/O Y C Joshi (NCCJ|34544), 15th Nov 1978.

F/O H S Rath (NCCJ|31190), 1st Jan 1982.

Tamil Nadu

C/O V Santhanakrishnan (NCCJ|51038), 1st Jan 1982.

F/O A Govindarajulu (NCCJ|51597), 7th Jan 1982.

Uttar Pradesh

F/O T P Srivastava (NCCJ|13202) and F/O B R Dwivedi (NCCJ|13388), 1st Jan 1982.

F/O B N Sharma (NCCJ|13311), 20th Jan 1982.

C/O Mooli Mohammad (NCCJ|13416), 1st Mar 1982.

Junior Division (Naval Wing)

Kerala

F/O T Kurakose (NCCJN|25543), 10th Apr 1981.

Tamil Nadu

T/O V Balakrishnan (NCCJN|51591) and S/O E S Thirunavukkarasu (NCCJN|51976), 1st Jan 1982.

Junior Division (Air Wing)

Maharashtra

F/O H V Bavaria (NCCJA|81326), 1st May 1981.

Orissa

F/O G B Bhatia (NCCJA|61229), 10th Nov 1981.

Tamil Nadu

S/O S K Ramaswamy (NCCJA|51961), 1st Jan 1982.

No. 1601, dated 30th June 1982.—The President is pleased to discharge the following officers from the NCC wef 23rd Mar 1982. The period shown in brackets against their names shall not be counted for the purposes of seniority or promotion or any other benefits in the NCC :—

Junior Division (Army Wing)

Andhra Pradesh

S/O N Chalamaiah (NCCJ|41595) (5th Dec 1981 to 22nd Mar 1982).

Assam

F/O J Khound (NCCJ|323) (1st May, 1978 to 22nd Mar 1982).

T/O R C Roy (NCCJ|569) (4th Aug 1979 to 22nd Mar 1982).

F/O A Das (NCCJ|295) (4th Sep 1980 to 22nd Mar 1982).

Haryana

S/O O P Malhan (NCCJ|8423) (29th Oct 1981 to 22nd Mar 1982).

Himachal Pradesh

S/O P S Salaria (NCCJ|23891) (19th Sep 1981 to 22nd Mar 1982).

J&K

S/O S C Khajuria (NCCJ|26365) (11th Sep 1981 to 22nd Mar 1982).

Karnataka

T/O R V Kalasannavar (NCCJ|23609) (1st Sep 1981 to 22nd Mar 1982).

Kerala

S/O K K Joseph (NCCJ|25613) (28th Jan 1980 to 22nd Mar 1982).

S/O V Ali (NCCJ|25498) (1st Dec 1980 to 22nd Mar 1982).

S/O P R Mukundan (NCCJ|25649) (1st Dec 1980 to 22nd Mar 1982).

S/O P K Kurian (NCCJ|25574) (1st Mar 1981 to 22nd Mar 1982).

T/O T S Venngopal (NCCJ|25894) (23rd Sep 1981 to 22nd Mar 1982).

S/O T K Ieven (NCCJ|25808) (27th Jan 1982 to 22nd Mar 1982).

Maharashtra

T/O S N Valhekar (NCCJ|81992) (1st May 1981 to 22nd Mar 1982).

F/O S K Patil (NCCJ|81681) (30th June 1981 to 22nd Mar 1982).

F/O N B Amrutphale (NCCJ|81478) (1st July 1981 to 22nd Mar 1982).

Orissa

F/O B N Sarangi (NCCJ|61235) (5th Nov 1979 to 22nd Mar 1982).

5—164 G1/82

Punjab

T/O B S Ahlawaja (NCCJ|8518) (1st Oct 1980 to 22nd Mar 1982).

S/O S S Buter (NCCJ|8249) (4th Oct 1980 to 22nd Mar 1982).

Rajasthan

T/O A K Chaturvedi (NCCJ|31611) (29th Aug 1980 to 22nd Mar 1982).

S/O H K Sharma (NCCJ|31505) (9th Jan 1981 to 22nd Mar 1982).

Tamil Nadu

S/O R Jacob (NCCJ|51669) (1st Mar 1979 to 22nd Mar 1982).

T/O R Subramaniam (NCCJ|52239) (1st Jan 1981 to 22nd Mar 1982).

F/O P N Karuppattan (NCCJ|51758) (30th Oct 1981 to 22nd Mar 1982).

C/O M R Michael (NCCJ|51293) (6th Jan 1982 to 22nd Mar 1982).

West Bengal

T/O M C Saw (NCCJ|15538) (27th Aug 1979 to 22nd Mar 1982).

S/O J Sen (NCCJ|15340) (1st July 1980 to 22nd Mar 1982).

T/O S S Pal (NCCJ|15566) (16th Sep 1981 to 22nd Mar 1982).

Junior Division (Naval Wing)

Andhra Pradesh

T/O S B Vemanna (NCCJ|41728) (23rd Aug 1979 to 22nd Mar 1982).

T/O C S Sarma (NCCJN|41729) (1st July 1981 to 22nd Mar 1982).

T/O M K Shariff (NCCJN|41757) (1st Nov 1981 to 22nd Mar 1982).

Junior Division (Air Wing)

Madhya Pradesh

T/O A V Kuvesswar (NCCJA|6162) (1st July 1980 to 22nd Mar 1982).

Rajasthan

T/O D R Choudhary (NCCJA|31631) (2nd Dec 1980 to 22nd Mar 1982).

Tamil Nadu

F/O S K Perumal (NCCJA|51362) (1st June 1981 to 22nd Mar 1982).

V K MURTHY, Director of Personnel.

INDIAN MILITARY ACADEMY, DEHRA DUN

No. 1602, dated 26th June 1982.—The President is pleased to promote Shri M L BANGA, Tempy Office Supdt Gde I in the Indian Military Academy, as Establishment Officer wef 03rd Apr 1982.

The Officer will be on probn for a period of two years.

M C IUNFJA, Under Secy.

G S BRANCH

No. 1603, dated 26th June 1982.—The President is pleased to appoint the undermentioned officer as Foreign Language Examiner (Group 'A'—Gazetted) in a substantive capacity from the date indicated against his name :—

Name & Designation, Date of confirmation as Foreign

Language Examiner

Shri S K Ghosh Pmt Translator/Offg Foreign Language Examiner—18th Dec 1977.

DULL CHANDRA, Up Mukhya Prashasan Adhikari (P)

No. 1604, dated 15th June 1982.—The President is pleased to make the following promotions :—

**ARMY HEADQUARTERS
(G S BRANCH)**

Shri Girdhari Lal Akotra, Pmt Steno Gde 'C' to be offg Steno Gde 'B' in the AFHQ Stenographers' service wef 1st Apr 1982 until persons from the Select List become available, against an existing vacancy.

Shri L L R Aggarwal, Pmt Asstt to be offg Asstt CSO in the AFHQ Civil Service wef 1st May, 1982 until further orders vice Shri L L Duggal, ACSO, retired.

Shri R S Sharma, Chief Translation Officer, to continue as Jt Dir (Hindi) since redesignated as Principal Hindi Officer upto 30th June 1982 or till the post is filled on regular basis whichever is earlier.

Shri Ram Chandra, Offg Asstt to be Offg Asstt CSO in the AFHQ Civil Service wef 19th May 1982 until further orders vice Shri D S Phul, retired.

No. 1605, dated 25th June 1982.—On attaining the age of superannuation Shri T C Kalyal, Offg CSO, retired from Govt service wef 31st May 1982 (AN) and transferred to pension establishment wef 1st June 1982.

No. 1606, dated 26th June 1982.—The President is pleased to make the following appointments/promotions :—

Shri H L DEWAN, CSO|MGO's Branch|EME Dte, to be offg SCSO from 11th Feb 1982 to 31st Mar 1982 against an upgraded post of selection Gde SCSO in MGO's Branch|EME, Dte.

On transfer from E-in-C's Branch, Shri R P Pant, Pt Asstt to be offg ACSO wef 01st May 1982 (F/N) in the AFHQ Civil Service until further orders vice Shri B L Ganguly ACSO retired.

Shri Rooti Prasad, Pt Asstt MG|OS Dte to be Offg ACSO wef 01st June 1982 (F/N) in the AFHQ Civil Service until further orders vice Shri Kehar Singh, promoted.

Shri Phool Singh, Pt Asstt MG|OS to be Offg ACSO wef 01st June 1982 (F/N) in the AFHQ Civil Service until further orders vice Shri Hukam Chand, ACSO promoted.

No. 1607, dated 26th June 1982.—On attaining the age of superannuation on 30th Apr 1982 Shri B L GANGULY, ACSO, MGO Branch|OS Dte, retired from service wef 30th Apr 1982 (A/N) and transferred to pension establishment wef 1st May 1982 (F/N).

**S P MAHESHWARI, Up Mukhya Prashasan
Adhikari.**

No. 1608, dated 23rd June 1982.—The President is pleased to make the following appointment :—

**REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION**

To be Director General, Armed Forces Medical Service

Lt Gen H S SETH, PVSM, PHS (MR-536) AMC|PC—
01st Feb 1982.

G SUNDARAM, Jt Secy.

No. 1609, dated 25th May 1982.—The President is pleased to make the following appointments :—

**REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION**

To be 2/Lts—16th Dec 1978

Mithilesh Kumar Singh (IC 35648P) Arty, seniority next below 2/Lt Amar Jeet Singh DALAL (IC 35647M) Inf, whose names appear in the G of I, Min of Def Notn No. 375 dated 30th Jan 1981 published on 21st Feb 1981.

V R MOHITE, Lt Col, Sahayak Sainik Sachiv|AMS 8B

No. 1610, dated 28th June 1982.—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be 2/Lts wef 13th June 1981

Kundapur Pradeed BHATT (IC 39433N) Sigs, Mandeep Singh KOHLI (IC 39434W) Armd Corps, Sanjiv BAJAJ (IC 39435H) Engrs, Satinder Kumar SAINI (IC 39436F) Inf, Shashank Tarakant UPASANI (IC 39437K) and Pattcheravanda Chengappa THIMMAYA (IC 39438M) Inf, Valappil GEORGE (IC 39439P) Arty, Shailendra Singh BAI (IC 39440K), Rajbir Singh (IC 39441M) and Rohit SHUKLA (IC 39442P) Inf, Manjit Singh KHARA (IC 39443X) Arty, Chander Kant SOOD (IC 39444A) EME, Sudarshan Shrikant HASABNIS (IC 39445H) Engrs, Kamal Kishore KAPOOR (IC 39446L) Armd Corps, Jagmohan Singh (IC 39447N), Mohit WHIG (IC 39448W) and Sawinder Jeet WALLA (IC 39449Y) Inf, Amritpal Singh (IC 39450N) Armd Corps, Orlando Mascarenhas (IC 39451W) Engrs, N THIAGARAJAN (IC 39452Y) Arty, Venish Rai (IC 39453F) and Sanjay Kumar THAPA (IC 39454K) Inf, Gvinder Pal Singh (IC 39455M) ASC, Mohandeep Singh GHURU (IC 39457X) Inf, Anil Prabhakar DERE (IC 39458A) Armd Corps, Sureshwar Dayal SARIN (IC 39460X), Armd Corps, Ajay Pal Singh RAWAT (IC 39461A) Inf, Ranjit Singh (IC 39462H) Sigs, Suresh YADAV (IC 39463L) Inf, Milind Hemant THAKUR (IC 39464N) ASC, Amar Jeet Singh BEDI (IC 39465W), Kishan Bahadur MALL (IC 39466Y) Inf, Sudip BISWAS (IC 39467F) Arty, Harjit Singh BHAGAT (IC 39468K) Rahul SOOD (IC 39469M), Man Mohan GUPTA (IC 39470F), R Ashok VENKATARAMAN (IC 39471K) and Jitendra Kumar MARWAL (IC 39472M) Inf, Nirmal Kumar BHADURI (IC 39473P) Arty, Shashi RANA (IC 39474X) Inf, Satnam Singh (IC 39475A) Arty, Ravi BEDI (IC 39476H) Armd Corps, Puran Chand CHANDEL (IC 39477L) Arty, Sunil KAPILA (IC 39478N) Sigs, Bala Krishnamurti (IC 39479W) Arty, Ramanjit Singh AUJLA (IC 39480L) Inf, Shiv Ram CHAUDHARY (IC 39481N) AOC, Pratap Singh RATHORE (IC 39482W) Arty, Purojit Roy (IC 39483Y), Satyavir Singh YADAV (IC 39485K), S N Shishupal Singh (IC 39486M) and Sukhminder Singh AUJLA (IC 39487P) Inf, Arun Kumar (IC 39488X) Engrs, Harbhopinder Singh KANWAR (IC 39489A) Inf, Vijay Singh SHEKHAWAT (IC 39490P) Arty, Ajay Kumar DAS (IC 39491X), Anil CHAUHAN (IC 39492A), Murali BALASUBRAMANIAN (IC 39493H) and Arvind Kumar PANDEY (IC 39494L) Inf, Deepak Kumar (IC 39495N) Arty, Satya Pal (IC 39496W) Inf, Rajiva Kumar SINHA (IC 39497Y) Armd Corps, Prabhas Chandra (IC 39498F) Inf, Mahesh Ramchandran (IC 39499K) Sigs, Christopher Emanuel FERNANDES (IC 39500N) Inf, Anant Prasad Singh (IC 39501W) Arty, Narain Dass CHAUHAN (IC 39502Y) Inf, Deepak Kumar PUN (IC 39503F) ASC, Sanjeev Sadashiv KALE (IC 39504A) Inf, Poolapalli Rajendher REDDY (IC 39505M) Armd Corps, Sanganesh Basappa SAJJAN (IC 39506P), and N Muralidharan (IC 39507K) Inf Rajat JAIRATH (IC 39508A) Arty, Binay Kumar CHAUDHARY (IC 39509H) Inf, Sudhir LANBA (IC 39510X) Arty, Akshaya Kumar Prasad (IC 39511A) Inf, Neeraj VERMA (IC 39512H) Arty, Swatey Prakash SHARMA (IC 39513L) Inf, Shivam Kumar (IC 39514N) Arty, Sumant Govind KHARE (IC 39515W) Armd Corps, Gopal Karunakaran (IC 39517F) Inf, Ravi Prasad (IC 39518K) Armd Corps, Santosh Kumar DABRAL (IC 39519M) Sigs, Thenttu Swamy NAIDU (IC 39520F) ASC, Yogesh Trilokchand JAIN (IC 39521K) Arty, Jaiveer Singh NEGI (IC 39522M) Inf, Anil Kumar RAGHAVA (IC 39522P), Prashanth Kumar (IC 39524X) and Sanjay Kumra (IC 39525A) Arty, Sudhir Kumar SHARMA (IC 39526H) Inf, Vivek CHAUDHRY (IC 39527L) and Vijaya Kumar ANTON JERCIN (IC 39528N) Arty Param Vir YADAV (IC 39529W), Punjab Singh (IC 39530L), Bimal Jit Singh HANSRA (IC 39531N), Vijay Kumar BATRA (IC 39532W), and Anil Kumar RAT (IC 39533M) Inf, Umesh Chandra DUBFY (IC 39534F), and Arvinder Singh (IC 39535K) Arty, Shubhra Jit GHOSH (IC 39536M) Inf, Naveen Chand der MEHTA (IC 39537P) Arty, Vikram MAHAJAN (IC 39538X) EME, Sushil SACHDEV (IC 39539A) Inf, Vinod Kumar (IC 39540P) AOC, Divakaran T (IC 39541X) and Sukumar DAS (IC 39542A) Arty, Navdeep Singh LAMBA (IC 39543H) Armd Corps, Kuldcep Kumar NAITHANI (IC 39544L) AOC, Jyoti Kumar DANG (IC 39545N) Inf,

Harvijay Singh (IC 39546W) Sigs, Tek Chand DAHIYA (IC 39547Y) Arty, Shambhoo Singh DEORA (IC 39548F) and Nasib Singh (IC 39549K) Inf, Nutan Parbhat ROHELLA (IC 39550Y) SIGS, Sudhakaran PILLAI (IC 39551F) Inf, S Ramakrishnan (IC 39552K) SIGS, Amardeep Singh GREWAL (IC 39553M) and Shashi Ranjan SHARMA (IC 39554P) Inf, Jagannathan K (IC 39555X) and KANWAR Jagmohanjit Singh (IC 39556A) Arty, Purushottam Singh (IC 39557H) and Surinder Singh (IC 39558L) Inf, Ashok Kumar BAGGA (IC 39559N) Arty, Virender Singh VERMA (IC 39560H) Inf, Saitsh Chand SHARMA (IC 39561L) Arty, Satya Prakash AHLAWAT (IC 39562N) Inf, Sainna NARLA (IC 39563W) Armd Corps, Apurva VERMA (IC 39564Y) Arty, Vinod PANT (IC 39565F) SIGS, Gurpreet MANGAT (IC 39566K) Engrs, Tushar Madhusudan PITRE (IC 39567M) Armd Corps, Pankaj TYAGI (IC 39568P) and Pradeep Raj Singh CHAUDHARY (IC 39569X) Arty, Ravindra Naath PANDEY (IC 39570N) Arty, Ravindran K (IC 39571P) Armd Corps, Sujiv JETLEY (IC 39572X) Inf, Jyoti Prakash SENGUPTA (IC 39574H) and Surinder Singh HANSRA (IC 39575L) Inf, Ramakrishnan A K (IC 39576N) Arty, Hariharan Ravi (IC 39577W) Sigs, Abhaya Prakash (IC 39578Y), Rajiv Chopra (IC 39579F) and Madhup Kumar RAI (IC 39580W) Arty, Balraj Singh (IC 39581Y) Engrs, Madan Singh BISHT (IC 39582F) AOC, Jayaprasad Narayanan NAYAR (IC 39583K) EME, R VISHWANATH (IC 39584M) Inf, Manoj VERMA (IC 39585P) EME, Divakar Vijay DEY (IC 39586F) Inf, Achal TANEJA (IC 39587A) Arty, Sunil Kumar MISRA (IC 39588H) Inf, Trilok Singh MALARA (IC 39589L) Arty, Harish THUKRAL (IC 39590A) Inf, Sunil Kumar (IC 39591H) Arty, Gopal Singh SIROHI (IC 39592L) Inf, Pradeep Kumar SHARMA (IC 39593N) Engrs, Jagarlapudi Ramesh Chandra (IC 39594W) Inf, Om Prakash CHAUDHARY (IC 39595Y) Armd Corps, Parminder Singh NARWAL (IC 39696F) Engrs, Sunil Narendra UPGADE (IC 39597K) Arty, G Jaishankar (IC 39592M), Satishchandra Waman CHATPANDE (IC 39600Y), Jalaluddin Muhammad Tarique ARAFAAT (IC 39601F) and Ravinder Mohan GAUR (IC 39602K) Inf, Jatinder Singh PATHANIA (IC 39603M) AOC, Amul ASTHANA (IC 39604P) Inf, Satbir Singh CHHILLAR (IC 39605X) Arty, Rajiv CHIB (IC 39606A) Armd Corps, Iqroop Singh GHUMAN (IC 39607H), Nalin Kumar BHATIA (IC 39608L) and Ajay OHRI (IC 39609N) Inf, Prabhu Nath Prasad (IC 39610H) Arty, Trilok Singh POONIA (IC 39612N) EME, Satinder Singh (IC 39613W) Armd Corps, Tushal Kumar HAZRA (IC 39614Y) and Yash Pal Jagia (IC 39615F) Inf, Rajnesh Kumar Gupta (IC 39616K) Arty, Preetam Singh SANWAL (IC 39617M) Inf, Surinder Kumar (IC 39618P) Arty, Janaki Prasad SAHOO (IC 39619X) Rakesh Kumar BHARDWAJ (IC 39621P) Arty, Puthenyeet L Koshy THOMAS (IC 39622X), Punjab Singh (IC 39633A) and Pradeep Moorti BALI (IC 39624H) Inf, Ashwani GULATI (IC 39625L) EME, Jagat Singh (IC 39626N) Inf, Amarjit Singh HUNDLE (IC 39627W), Mahseh Vasant KULKARNI (IC 39622Y), Ram Kumar (IC 39629F), Abhay Ranjan SARKAR (IC 39631Y) and Kumud CHOPRA (IC 39632F) Arty, Anand Bhaskar BAPAT (IC 39634M) Sigs, Anand Rashmikant THAPAN (IC 39635P) Arty, Sukhvir Singh RUHII (IC 39636X) Inf, Chandra Pal Singh (IC 39637A) AOC, Prakash Baburao PATIL (IC 39638H) Inf, Rajpal Singh AHLUWALIA (IC 39639L) ASC, Ravi Kumar MAHINDRU (IC 39640A) Inf, Nair Mohan K G NAIR (IC 39642L) Inf, Rajiv EDWARDS (IC 39643N) Armd Corps, Vinayak Kashinath CHHATRE (IC 39644W), Udaykumar Raiu M (IC 39645Y), Sanal Kumar N (IC 39646F) Dalip BAKSHI (IC 39647K), Mukundan Sree Kumar (IC 39648M), Vikramendra Pratap Singh (IC 39649P) and Romesh GHAI (IC 39650K) Inf, Sunil MIDHA (IC 39651M) Arty, Ghanshyam Manghnani (IC 39652P) Inf, Deepak ARORA (IC 39653X) and Harbinder Pal Singh (IC 39654A) Arty, Hemant JONEJA (IC 39655H) and Dinesh SHARMA (IC 39656L) Inf, Michael THAYIL (IC 39658W) Inf, Sekhar Roy CHAUDHURY (IC 39659Y) Engrs, Sanjiv Kumar MALIK (IC 39660N) Arty, Shirish Prabhakar KULKARNI (IC 39661W) and Deen Dayal (IC 39663F) Inf, Ajay Mudanlal CHAUDHARI (IC 39664K) and Karunakaran P (IC 39665M) Arty, and Anil Kumar GUPTA (IC 39667X) Inf, J Rajendran (IC 39668A) Arty, Harvinder Pal Singh PALL (IC 39669H) Inf, Manvedra MEHTA (IC 39670X) Armd Corps, Raghubinder Singh GHOTRA (IC 39671A) Arty, Sanjay Kumar (IC 39672H) Inf, Jitendra Singh YADAV (IC 39673L) Armd Corps, Lalit Kumar BORAH (IC 39674N) ASC, Vijay Singh (IC 39675W) Inf, Kandanda Kuttappa AYAPP'A (IC 39677F) Sigs, Biswajit SHOME (IC 39678K) Arty, Ina Pal Singh (IC 39679M) Inf, Assem Kumar CHANDRA (IC 39680F) Arty, K A Mohan (IC

39681K) Inf, Shashi Kant Singh (IC 39682M) Arty, Balvinder Singh (IC 39683P) ASC, Balendu Pratap Singh KUSHWAHA (IC 39684X) Armd Corps, Ravinder Singh TOKAS (IC 39687L) and Krishna Kant TRIPATHI (IC 39688W) Inf, Sanjiv BHANTI (IC 39689W) and Satinder Pal Singh KOHLI (IC 39690L) Arty, Devesh UPADHYAYA (IC 39691N), Rakesh HURA (IC 39693Y) and Rajiv CHUM (IC 39694F) Inf, Saitsh KHATRI (IC 39695K) Armd Corps, Jacob Tharakan CHACKO (IC 39696M) AOC, Raghavan Madhu Sudhan NAIR (IC 39697P) Arty, Rajiv Nath Singh (IC 39698X) and Mohan Singh (IC 39699A) Inf, Asif Hussain (IC 39700K) Arty, Harminder Singh (IC 39701M) Inf, Sanjay MAHAJAN (IC 39702P) Armd Corps, Kulvinder Pal Singh BRAR (IC 39703X) and Sushil MATHEW (IC 39704A) Inf, Ramachendruni Venkata SUBBARAO (IC 39705H) Arty, Om Prakash TRIPATHI (IC 39706L) Sigs, Tapas Kumar CHAKRAVARTI (IC 39707N) and Romi Jiandevi (IC 39708W) Arty, Shoorvir Singh Saluja (IC 39709Y) AOC, Thirunangkoil Ramakrishnan JAGANNATH (IC 39710N) Sigs, Ranjit Singh SANDHU (IC 39712Y) Inf, Kishore UPPAL (IC 39713F) Arty, Pramod Kumar BATHLA (IC 39714K) AOC, Rajvir Singh KUJAR (IC 39715M) and Anil Baran GOTH (IC 39716P) Inf, Sudhir SHARMA (IC 39717X) Engrs, Ravindran RAMATH (IC 39718A) Arty, Shailesh PANCHLOTHIA (IC 39719H) and Dharani Dhar SARMA (IC 39720X) Inf, Kul Bhusan KAUSHAL (IC 39721K) Arty, Pradeep PASBOLA (IC 39722H) and Narinder Pal Singh MANN (IC 39723L) Inf, Rishi Raj Singh BHATI (IC 39724N) EME, Rakesh Chand KATOCH (IC 39725W) Inf, Chempakasseril Koshy Koshy KUNJU (IC 39726X) Arty, Sanjiv PURI (IC 39727F) Armd Corps, Khangara Ram (IC 39728K) Sigs, Ajoy Kumar SATAPATHY (IC 39729M) Inf, Abir Choudhury (IC 39730F), Kulranjan RAJAGOPALAN (IC 39732M) and Shahanawaz Yusuf AGA (IC 39733P) Arty, Raj VARMA (IC 39734X) AOC, Narendra Kumar SHARMA (IC 39736W) Inf, Rupinder MALL (IC 39737F) Armd Corps, Shrinath Frahlad MUDHOLKAR (IC 39738N), Ravinder Srivastava (IC 39739W), Amarjit Singh (IC 39740N) and Kumar Ramchandra SURARAJ (IC 39741N) Arty, Harinder Singh (IC 39742W) Armd Corps, Girish KAMAT (IC 39744F), and Ashokan K (IC 39745K) Inf, Pragayesh Chandra SHARMA (IC 39746M) Arty, Gautam PATHAK (IC 39747P) Inf, Rajeev Singh RANA (IC 39748X) and Jagannath Gopinath (IC 39749A) Arty, Uppinder Jai Singh JASSAL (IC 39750P) Inf, Harpal Singh (IC 39751X) Armd Corps, Sarabjit Singh SARAO (IC 39752A) Inf, Himmat Singh (IC 39754L) and Baljinder Singh BASRAON (IC 39755N) Inf, Narinder Pal Singh (IC 39756W) AOC, K Shamba Shiv RAO (IC 39757Y) Arty, Man Mohan SHARMA (IC 39758F) Sigs, Jeev Kumar GURUNG (IC 39759K) and C N Suresh (IC 39760Y) Inf, Athrassery Balakrishnan RADHAKRISHNAN (IC 39762K) Inf, Alok CHATURVEDI (IC 39763M) and Santhana Varadan R (IC 39766A) Arty, Tapesh KANWAR (IC 39767H) Inf, Sudip Narayan CHANNA (IC 39768L) Armd Corps, Raja Dhamal VILLIVALAM (IC 39769W) Inf, Subodha Chandra DAS (IC 39770H) Arty, Ajit Ramchandra DESHPANDE (IC 39771L) Inf, Taranjeet Singh SAMRA (IC 39772N) Armd Corps, Vidhu Nath SAXENA (IC 39774Y) Arty, Subbaraman SRINIVASAN (IC 39775F) EME, Yogesh DIKSHIT (IC 39777M) ASC, Sahab Singh (IC 39779X) ASC, Kamal Kishore PANT (IC 39780M), Girish Shivdas NAGRECHA (IC 39781P), and Mum-madi Joseph REDDY (IC 39783A) Inf, Rakesh AIMA (IC 39784H), Vijay Kumar (IC 39785L) and Pramod Kumar SHARMA (IC 39786N) Arty, Anil Kumar ABBOT (IC 39787W) and Uday Singh (IC 39788Y) Inf, Mathew THOMAS (IC 39789F), Ramesh UPADHYAY (IC 39790W) and Sushanta Kumar JANA (IC 39791Y) Arty, Raiesh TEWARI (IC 39792F) AOC, Jaideep MEHTA (IC 39793K) Armd Corps, Narinder Singh PATHANIA (IC 39794M) ASC, Arun Kumar MATTHANI (IC 39795P) AOC M P Habeeb-ulla (IC 39797A) Inf, Anuj THAPLIYAL (IC 39516Y) Inf, 18th Aug 1981, Alok Kumar SAXENA (IC 39456P) Inf, 8th Sep 1981 date of commission.

SUBHASH CHANDER, Lt Col, AMS.

No. 1611, dated 5th June 1982.—The President is pleased to make the following appointment:—

TERRITORIAL ARMY

(Territorial Commission)

To be Capt

Rajendra Kumar Yadav, TA(M)-1139, AMC (TA), 10th Apr 1981.

To be Lieut

Miss SHAKUNTLA POHAL TA(N)-1662, MNS (TA), 1st May 1976.

(Granted ante date seniority from 1st May 1974).

Miss Sudesh MALHOTRA, TA (N)-1076, MNS (TA), 30th Aug 1980.

Miss TARAVATI, TA(N)-1077, MNS (TA), 30th Aug 1980.

NACHHATAR SINGH, Under Secy.

No. 1612, dated 1st July 1982.—The President is pleased to make the following appointment :—

TERRITORIAL ARMY
(Territorial Commission)
To be 2/Lt (on probn)

Madhu Sudan SHARMA, TA-41684, Engrs, 23rd Jan 1981.

M L KAPOOR, Under Secy.

MILITARY LANDS AND CANTONMENTS SERVICE

No. 1613, dated 3rd July 1982.—The President is pleased to continue the ad-hoc appointments of S/Shri A K Baratlam and M K Unnithan to Group B (CEOs Cadre) posts of the Defence Lands and Cantonments Service for a further period of 6 months wef 25th Mar 1982 and 16th Mar 1982 respectively or till the posts are filled on regular basis, whichever is earlier.

R K CHATURVEDI, Director General.

REGULAR ARMY
(AOC)

No. 1614, dated 24th June 1982.—The President is pleased to appoint the undermentioned Ordnance Officers Civilian (Sotres) as offg CSO (Ordnance) on ad-hoc basis for the period shown against each :—

Shri V R Warriar—16th Nov 1981 to 28th Jan 1982.

Shri Sita Ram Tuteja—08th Dec 1981 to 28th Jan 1982.

Shri Chandrjit Bhutani—30th Nov 1981 to 28th Jan 1982.

Corps of EME

No. 1615, dated 23rd June 1982.—The President is pleased to promote Shri R M Raju, Pmt Foreman to be Offg Workshop Officer Group 'B' in the Corps of EME wef 29th Mar 1982 (FN) until further orders. He will be on probn for a period of two years.

No. 1616, dated 26th June 1982.—The President is pleased to appoint Shri Soumen Mishra as tempy Lecturer (Mathematics) in the Corps of EME wef 02nd June 1982 (FN) until further orders. He will be on probn for a period of two years.

M C JUNFIA, Under Secy.

No. 1617, dated 30th June 1982.—The President is pleased to make the following appointment :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION (SPECIAL LIST)

The undermentioned ICO is granted Permanent Commission in the Special List of Inspector of Engr Machinery in the rank of Lt under AJ 85/74 wef 27th Jul 1981 with seniority from 27th Jul 1979 for the purposes of pay only :—

IC-6/236 Kodumthara Varghese Mathai. (SL-2837Y), ENGRS seniority next below Lt Ajai Singh (SI-2839K), ENGRS

SUBHASTI CHANDER, Lt Col, AMS

No. 1618, dated 5th July 1982.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

Majs to be subs Lt Cols (by selection)

S R Sinho (IC 12145X), Int Corps, 25th Feb 1980 (but with seniority from 1st Aug 1979 without effect on pay and pension).

C V K K Iyer (IC 12165L), Int Corps, 25th Feb 1980 (but with seniority from 16th Sep 1979 without effect on pay and pension).

R Venkateswaran (IC 12187K), Inf, 19th Oct 1979.

N P Garg (IC 13475X), EME, 6th Dec 1979 (but with seniority from 19th Oct 1979 without effect on pay and pension).

M M S Sohanpal (IC 13484K), EME, 19th Oct 1979.

V K Mehra (IC 12328N), EME, 19th Oct 1979.

A P Palta (IC 12333Y), EME, 9th Dec 1979 (but with seniority from 19th Oct 1979 without effect on pay and pension).

G K Sahney (IC 12336M), Int Corps, 24th Feb 1980 (but with seniority from 19th Oct 1979 without effect on pay and pension).

S M Sriram (IC 12355X), Inf, 19th Oct 1979.

Jagdish Singh (IC 12371P), AOC, 19th Oct 1979.

M L Datta (IC 12435P) VSM, Sigs, 19th Oct 1979.

T N Mehta (IC 13850H), EME, 3rd Dec 1979 (but with seniority from 19th Oct 1979 without effect on pay and pension).

R V Seetharamaiah (IC 13852N), ENGRS, 19th Oct 1979.

V B Srivastava (IC 13857M), EME, 7th Dec 1979 (but with seniority from 19th Oct 1979 without effect on pay and pension).

S S Maddh (IC 13861P), EME, 26th Nov 1979 (but with seniority from 19th Oct 1979 without effect on pay and pension).

Raghu Nandan (IC 14296P), ENGRS, 19th Oct 1979.

M M Balani (IC 14317A), EME, 18th Dec 1979 (but with seniority from 19th Oct 1979 without effect on pay and pension).

M L Bhandari (IC 14318H), EME, 22nd Dec 1979 (but with seniority from 19th Oct 1979 without effect on pay and pension).

R S Bains (IC 14327K), EME, 21st Dec 1979 (but with seniority from 19th Oct 1979 without effect on pay and pension).

A B Alekar (IC 14351A), ENGRS, 2nd Feb 1980 (but with seniority from 19th Oct 1979 without effect on pay and pension).

R Sridharan (IC 14312I), EME, 9th Jan 1980 (but with seniority from 19th Oct 1979 without effect on pay and pension).

B B Uthayya (IC 14361K), ENGRS, 30th Nov 1979 (but with seniority from 19th Oct 1979 without effect on pay and pension).

T S Sethi (IC 11115N), ENGRS, 27th Dec 1979 (but with seniority from 20th Oct 1979 without effect on pay and pension).

J M Kapoor (IC 11659H), Sigs, 21st Oct 1979.

G Raghava Rao (IC 13096M), Engrs, 17th Dec 1979 (but with seniority from 21st Oct 1979 without effect on pay and pension).

Lt Col A S PANDF, Asslt Military Secy.

No. 1619, dated 5th June 1982.—The President is pleased to make the following promotions :—

TERRITORIAL ARMY
(Territorial Commission)

Lt to Capt

Miss Manju BANERJEE TA(N)-1016, MNS (TA), 22nd Dec 1980.

Miss PRATIBHA DAS. TA(N)-1017, MNS (TA), 22nd Dec 1980.

NACHHATAR SINGH, Under Secy.

No. 1620, dated 24th June 1982.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire from Army service having attained the age of compulsory retirement :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

Lt Gen Sardul Singh (IC 1800L) PVSM. AOC, 30th Apr 1982 (AN).

Maj Gen B K Mehta (IC 5445F) PVSM, AVSM, Infantry, 31st Jan 1982 (AN).

No. 1621, dated 24th June 1982.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire from Army service at his own request for personal reasons and to transfer him to the Regular Reserve of Officers (Class 'X') wef the date of his retirement till 30th Nov 1982 :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

Maj Gen S N Manohar (IC 2344X) AVSM, EME, 9th Feb 1982 (FN).

Maj Gen L B SONDHI, Offg Military Secy.

CORRIGENDA

No. 1622, dated 26th June 1982.—In M of D Notn No. 1108 dated 23rd Apr 1981 published in the G of I dated 23rd May 1981 under the heading 'REGULAR ARMY—Short Service Commission (on probn)' :—

For 08th Sep 1977

Read 03rd Sep 1977

SUBHASHI CHANDRA, Lt Col, AMS.

No. 1623, dated 26th June 1982.—In M of D Notn 2258 dated 16th Oct 1981 published in the G of I dated 7th Nov 1981 under heading 'REGULAR ARMY' sub heading 'Infantry' and '9 GR' below 'To be Nb Sub' :—

For

Hav Kharka Bahadur Khattri (No. 5836346L now JC), 22nd Nov 1980.*

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 11th Sep 1980 without effect on pay and allowances).

Hav Surat Bahadur Khattri (No. 5835591F now JC), 13th Sep 1980.

Hav Bhim Bahadur Mall (No. 5835616H now JC), 13th Sep 1980.

Hav Karna Bahadur Mall (No. 5835322P now JC), 13th Sep 1980.

Hav Dhan Bahadur Chhetri (No. 5835627P now JC), 13th Sep 1980.

Hav Dorna Prasad Sahi (No. 5835859N now JC), 13th Sep 1980.

Hav Khim Bahadur Bhandari (No. 5834967L now JC), 1st Nov 1980.

Hav Karna Bahadur Sahi (No. 5835890A now JC), 02nd Nov 1980.

Hav Mohan Rai Chhetri (No. 5836357X now JC), 02nd Nov 1980.

Read

Hav Kharka Bahadur Mall (No. 5836346I now JC-114790A), 22nd Nov 1980.*

* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 11th Sep 1980 without effect on pay and allowances).

Hav Surat Bahadur Khattri (No. 5835591F now JC-114791I), 13th Sep 1980.

Hav Bhim Bahadur Mall (No. 5835616H now JC-114792I), 13th Sep 1980.

Hav Karna Bahadur Mall (No. 5835322P now JC-114793I), 13th Sep 1980.

Hav Dhan Bahadur Chhetri (No. 5835627P now JC-114794W), 13th Sep 1980.

Hav Dorna Prasad Sahi (No. 5835859N now JC-114795Y), 13th Sep 1980.

Hav Khim Bahadur Bhandari (No. 5834967L now JC-114796F), 1st Nov 1980.

Hav Karna Bahadur Sahi (No. 5835890A now JC-114797K), 02nd Nov 1980.

Hav Mohan Raj Chhetri (No. 5836357X now JC-114798M), 02nd Nov 1980.

(ii) In M of D Notn 2258 dated 16th Oct 1981 published in G of I No. 45 dated 7th Nov 1981 under heading 'REGULAR ARMY' sub headings 'Infantry' and '5 GR' below 'To be Nb Sub (Clk)' :—

Hav|Clk Jit Bahadur Tamang

For "(No. 5438395Y now JC), 13th Dec 1979"

Read "(No. 5438395Y now JC-114799P), 13th Dec 1979"

Hav|Clk Uday Singh Gusain

For "(No. 5438748 now JC), 1st Apr 1980."

Read "(No. 5438748N now JC-114800Y), 1st Apr 1980."

Hav|Clk Bansi Lal

For "(No. 5439042L now JC), 2nd Apr 1980."

Read "(No. 5439042L now JC-114801F), 2nd Apr 1980."

Hav|Clk Umesh Chandra Joshi

For "(No. 5439047K now JC), 1st Nov 1980."

Read "(No. 5439047K now JC-114802K), 1st Nov 1980."

Hav|Clk Prem Singh

For "(No. 5439088N now JC), 9th Dec 1980.*"

* (Granted seniority in the rank of Nb Sub|Clk wef 1st Nov 1980 without effect on pay and allowances)."

Read "(No. 5439088N now JC-114803M), 9th Dec 1980."

* (Granted seniority in the rank of Nb Sub|Clk wef 1st Nov 1980 without effect on pay and allowances)."

(iii) In M of D Notn 2258 dated 16th Oct 1981 published in G of I No. 45 dated 7th Nov 1981 under heading 'REGULAR ARMY' sub headings 'Infantry' and '8 GR' below 'To be Nb Sub' :—

Hav Balam Pun

For "(No. 5739174X now JC), 8th Dec 1980."

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 11th Aug 1980 without effect on pay and allowances)."

Read "(No. 5739174X now JC-114804P), 8th Dec 1980."

* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 11th Aug 1980 without effect on pay and allowances)."

CQMII Harka Bahadur Ale

For "(No. 5737285W now JC), 23rd Sep 1980."

Read "(No. 5737285W now JC-114805X), 23rd Sep 1980."

Hav Bishan Prasad Rana

For "(No. 5739676A now JC), 23rd Sep 1980."

Read "(No. 5739676A now JC-114806A), 23rd Sep 1980."

Hav Ram Bahadur Sahi

For "(No. 5739138M now JC), 30th Sep 1980."

Read "(No. 5739138M now JC-114807I), 30th Sep 1980."

Hav Rajendra Singh Khattri

For "(No. 5737560L now JC), 1st Dec 1980."

Read "(No. 5737560L now JC-114808L), 1st Dec 1980."

Hav Gulab Singh Thapa

For "(No. 5739218K now JC), 3rd Dec 1980."

Read "(No. 5739218K now JC-114809N), 3rd Dec 1980."

(iv) In M of D Notn No. 2304 dated 23rd Oct 1981 published in the G of I No. 46 dated 14th Nov 1981 under heading 'REGULAR ARMY' sub heading 'Infantry' and 'The Sikh Regiment' below 'To be Nb Sub':—

For 'Hav Joginder Singh (No. 3348869F now JC), 1st Jan 1981.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wcf 31st Jul 1980 without effect on pay and allowances)'

Read 'Hav Joginder Singh (No. 3348869F now JC-114789 L), 1st Jan 1981.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wcf 31st Jul 1980 without effect on pay and allowances)'

N KRISHNAN, Under Secy.

(NAVY BRANCH)

No. 1624, dated 12th May 1982.—The President is pleased to make the following appointments:—

INDIAN NAVY
PERMANENT COMMISSION
EXECUTIVE BRANCH
(NAVAL AVIATION)

MIDSHIPMAN TO BE AG SLT

Dinesh Kumar Gupta (02180B), 1st Jan 1981 vide Navy Order 56|80.

AG SLT TO BE SLT

Dinesh Kumar Gupta (02180-B), 1st Jan 1982 with seniority of (for promotion only) 1st Jan 1981 vide Navy Order 56|80.

MIDSHIPMEN TO BE AG SLTs

Devendar M Sudan (02429-W), Maninder Singh (02430-Y), Mohinderpal Singh (02431-Z), Subir Guha (02432-A) and Karve Hemant Shreekar (02433-B), 1st Jan 1982 vide Navy Order 56|80.

Rakesh Sharma (02170-F), Naresh Singh Rana (02171-H) and Avinash Kumar Sinha (02172-K), 1st July 1980, Dilip Kumar Chowdri (02174-R), 21st Nov 1980 vide Navy Order 56|80.

EXECUTIVE BRANCH

TO BE AG SLT

K N Surendran (020173N), 16th Aug 1980 vide Regulation 289 of Regs Navy Part III Statutory.

TEMPORARY CADRE
SPECIAL DUTIES LIST

TO BE AG SLT (SDG)

Chandgi Ram Taterwal (80117H), 1st Apr 1981 vide NI 32|67.

CPO G1 083074F Dharam Vir (80119N), 1st Oct 1981.

TO BE AG SLT (SDTAS)

AG PO (UCI) 093175N Chokkalingam Maganathan (81292B), AG PO (TASI) 093567B Kandathil Peter Mathew (81293F), PO (UCI) 092871Y Makhan Singh (81294H), MCPO II (TASI) 086764T Bhagwan Dass Jain (81295K) and PO (UW1) 091385W Ajaib Singh Sian (81296N), 1st Oct 1981.

TO BE AG SLT (SDB)

PO (UCI) 053332K Sheik Mastan (83201T). 1st Oct 1981.

TO BE AG SLT (SDREG)

RPO 084940Y Chhote Lal Jha (83942A), 1st Oct 1981.

TO BE AG SLT (SDME)

AG CH ERA (TY) 051727N Anthoni Samy Xavier (85085Z), 1st Oct 1981.

TO BE AG SLT (SDAV)

POA (AH) 090679R Darshan Singh (84601Z) and POA (MET) 083824K Shankar Singh Yadawa (84602A), 1st Oct 1981.

TO BE AG SLT (SDSW)

MC SWA II 051359A Chakalayil Thomas Joseph (86348 W) and SWA II 092727W Pampapati (86347T), 1st Oct 1981.

TO BE AG SLT (SDP)

MCEAP II 180138Y Gopal Dass Sachdeva (86874R) and EAP II 094017A Ranjit Singh (86875T), 1st Oct 1981.

TO BE AG SLT (SDR)

MECH (R) III 057065W Baldev Singh Narang (87572A), 1st Oct 1981.

TO BE AG SLT (SDAR)

CH EAAR 051763W Puthen Puravil Thomas John (88317 W), 1st Oct 1981.

TO BE AG SLT (SDS)

SPO 082077R Jagdish Mitter (88566K) and SPO 068427T Jagdish Parshad (88567N), 1st Oct 1981.

TO BE AG SLT (SDW)

PO WTR 069830F Thangamuthu Chandrasekharan (89065W) and PO WTR 058616W Ram Dhani Singh (89066 Y), 1st Oct 1981.

TO BE AG SLT (SDCA)

PO STD 084373H Gurcharan Singh (89511H), 1st Oct 1981.

TO BE AG SLT (SDM)

POMA SDI 059172H Kashmir Singh (89740B), 1st Oct 1981 vide NI 32|67.

PERMANENT COMMISSION
ENGINEERING BRANCH

MIDSHIPMEN TO BE AG SLTs

Ravi Shankar Sinha (40927R), Karamchand Misra 40928 T), Nataraj Balaji (40929W), Anjan Das (40930Y), Kommana Suryanarayana (40931Z), Paramseh B (40932A), Sunil Sarin (40933B) and Rajiv Lath (40934F), 1st Jan 1982 vide Regulation 123 of Regs Navy Part III Statutory.

ELECTRICAL BRANCH

MIDSHIPMEN TO BE AG SLTs

Rajendra Srivastava (50770K), Manoj Kawatra (50771N), Biswajit Sen (50772R), Stanley Varghese Daniel (50773T), Sukhdev Kumar (50774W), Sunil Dutt Sharma (50775Y), Sudhakar Sharma (50776Z) and Vimal Kumar Nagpal (50777A), 1st Jan 1982 vide Regulation 125 of Regs Navy Part III Statutory.

ELECTRICAL BRANCH
(CW SCHEME)

MIDSHIPMEN TO BE AG SLTs

M R Ramachandran (50778B) and Kasimur Singh (50779 F), 1st Jan 1982 vide Min of Def letter MP|0314|NHQ|2996|D(N-II) dated 23rd May 1978 and Regulation 125 of Regs Navy Part III Statutory.

T R MFHTA, Dy Dir of Personnel (JOA&R).

No. 1625, dated 21st June 1982.—The President is pleased to appoint Shri V K Parmar, Sr Design Officer Gde I (Engineering) as Offg Principal Design Officer (Engineering) wef 01st June 1982 (F|N).

He will be on probn for two years.

M C JUNEJA, Under Secy.

No. 1626, dated 13th May 1982.—The President is pleased to make the following promotion in the Electrical Branch of the Indian Navy under the Regulation 125 of Regs Navy Part III Statutory :—

**NAVY BRANCH
PERMANENT COMMISSION**

SLTs TO BE LTs

Name	Personal Number	Date of Promotion	With seniority of (for promotion only)
PSR Tampi	(50590-A)	25-1-80	16-7-79
RD Ogale	(50588-Y)	15-2-80	16-8-79
BK Devadas	(50587-W)	25-1-80	01-8-79
LR Rajagopal	(50584-N)	27-1-80	01-7-79
APN Rao	(50585-R)	25-1-80	16-8-79
SBKP Sushil Kumar	(50586-T)	16-2-80	—

No. 1627, dated 14th May 1982.—The President is pleased to make the following promotions in the Engineering Branch of the Indian Navy under the Regulation 124 of Regs Navy Part III Statutory :—

**NAVY BRANCH
PERMANENT COMMISSION**

SLTs TO BE LTs

Name	Personal Number	Date of promotion to LT with seniority of (for promotion only)
V Ponnar	(40699-Y)	26-12-80 01-01-80
R Balasubramaniam	(40701-A)	26-12-80 16-05-80
RK Sharma	(40702-B)	26-12-80 01-08-80
RK Singh	(40700-Z)	20-02-81 01-12-80

No. 1628, dated 11th May 1982.—The President is pleased to make the following promotions in the Executive Branch of the Indian Navy under the Regulation 121 of Regs Navy Part III Statutory, from the dates shown against their names.

**NAVY BRANCH
PERMANENT COMMISSION**

AG SLTs TO BE SLTs

Name	Personal Number	Date of confirmation	With seniority of (for promotion only)
KS Chundawat	(01997-N)	18-10-80	01-7-79
PK Mishra	(02063-N)	15-08-81	01-1-80
V George	(01909-N)	27-12-81	01-7-78

No. 1629, dated 17th May 1982.—The President is pleased to make the following promotions :—

INDIAN NAVY

PERMANENT COMMISSION

EXECUTIVE BRANCH

SLTs TO BE LTs

S A Verma (01908K), 1st June 1981; A K Kant (01983 F), 22nd Oct 1981 with seniority of (for promotion only) 16th July 1981 and S Samuel (01974K), 16th Dec 1981 vide Regulation 121 of Regs Navy Part III Statutory.

S Ruperee (02024Z), T P Thariyan (02030N), R S S Subramaniam (02040K), S K Ganju (02001Y), Vineet Wason (02033W) and R K Malhan (02017H), 1st Nov 1981; B S Jha (02005F), C I Roberts (02023Y), K S C Aiyappa (02034Y), B Ramkumar (02037B), J P Pattnaik (02021T) and R S Chakravarty (02000W), 16th Nov 1981 vide Regulation 121 of Regs Navy Part III Statutory.

J J Puthur (02074N), P P Singh (02078Y), B K Verma (02093F), S Agrawal (02046Z), R K Nagalia (02065T), S Jetly (02054T), A G Ayer (02051K), Sunil Nanda (02070 B) and D S Kannan (02049F), 1st Jan 1982; S Pandit (02075 R) and K M Nair (02068Z), 16th Jan 1982; R Karsolia (02060F) and Rajeev Sharma (02080A), 1st Feb 1982 vide Regulation 121 of Regs Navy Part III Statutory.

CPO Kattan (02009R) and S T Samuel (02027F), 1st Feb 1982; P C Acharya (01992A), 16th Feb 1982 vide Regulation 121 of Regs Navy Part III Statutory and Navy Order 56/80.

EXECUTIVE BRANCH

(NAVAL AVIATION)

SLTs TO BE LTs

G S Rait (01970A), 16th June 1981 and M K Mishra (02012Y), 16th Nov 1981 vide Regulation 121 of Regs Navy Part III Statutory and Navy Ordre 56/80.

ELECTRICAL BRANCH

AG SLT TO BE SLT

C S Grewal (50655Z), 22nd Feb 1981 with seniority of (for promotion only) 13th Jan 1979 vide Regulation 162 of Regs Navy Part III Statutory.

SLT TO BE LT

C S Grewal (50655Z), 23rd Feb 1981 with seniority of (for promotion only) 13th Sep 1979 vide Regulation 162 of Regs Navy Part III Statutory.

EXECUTIVE BRANCH

AG SLTs TO BE SLTs

Sureshbabu Madhavan (01959A), 25th June 1981 with seniority of (for promotion only) 1st Jan 1979 and (for pay) 1st Jan 1980 and D John (01956W), 1st July 1981 with seniority of (for promotion only) 1st Jan 1979 vide Regulation 121 of Regs Navy Part III Statutory and Min of Def letter OF[2744]57|NHQ[4015]D(N-II) dated 2nd Jun 1961.

MIDSHIPMEN TO BE AG SLTs

Rajendra Agarkar (02256A), Paresh Kumar Bhattacharyya (02257B), Pritam Singh Bugalla (02258F), Satish Kumar Bajaj (02259H), Trilochan Singh Bhatia (02260K), Goutham

Balachandra (02261N), Jaipal Singh Beniwal (02262R), Devendra Dhatnagar (02263T), Joginder Pal Chitkara (02264W), V V S Datt (02265Y), Pankaj Gupta (02266Z), M P Joseph (02267A), Balbir Singh Kundhal (02268B), Anil Lamba (02269F), Lingom Venkata Sarat Babu (02270H), Benny Mathews (02271K), Sarish Mathur (02272N), Kumar Harendra Narayan (02273R), Radha Baladevan Girish Nair (02274T), P Ajit Kumar (02275W), Pranav Parashar (02276Y), Jyothi Kumar Rao (02277Z), T Ramakrishnan (02278A), Arvind Kumar Rathee (02279B), R Vija Kumar (02280F), Arvind Kumar Rai Sharma (02281H), Harjeet Singh (02282K), Arvind Singh (02283N), Raj Kamal Srivastava (02284R), Shruti Dev Singh (02285T), Pradeep Kumar Sharma (02286W), Sidhartha Singh (02287Y), Prakash Kumar Sinha (02288Z), Narinder Singh (02289A), Amitava Samal (02290B), Ravinder Singh (02291F), Lokesh Yeshwant Uttarwar (02292H), Anoop Verma (02293K), and A Ananthanarayanan (02294N), 1st July 1981 vide Regulation 121 of Regs Navy Part III Statutory.

*EXECUTIVE BRANCH
(NAVAL AVIATION)*

AG SLTs TO BE SLTs

Rakesh Sharma (02170F), N S Rana (02171H) and A K Sinha (02172K), 1st July 1981 with seniority of (for promotion only) 1st July 1980 vide Navy Order 56/80.

D K Chowdri (02174R), 21st Nov 1981 with seniority of (for promotion only) 21st Nov 1980 vide Navy Order 56/80.

K Rajender (02175T), O S Sihota (02176W), K Ranga-
rajan (02177Y), G M Gopakumar (02178Z), R Dutta (02179
A) and R K Gupta (02181F), 1st Jan 1982 with seniority
of (for promotion only) 1st Jan 1981 vide Navy Order
56/80.

T R MFHTA, Dy Dir of Personnel (JOA&R).

No. 1630, dated 2nd July 1982.—Shri V D'Souza, Pmt
Office Supdt Gde I/Offg CGO, retired from service wef 31st
May 1982 (AN).

J K GODRA, Under Secy.

(AIR FORCE)

No. 1631, dated 21st June 1982.—The President is pleased
to make the following promotions:—

INDIAN AIR FORCE

AE (M) BRANCH

FG OFFR TO BE SURS FLT LT

A V KUMAR (14632), 15th Sep 1981.

J MITTER, ADPO 3(F).